

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च 2019—फाल्गुन 10, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2019

क्र. ई-5-928-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग वर्मा, आयएस., आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जनवरी 2019 द्वारा दिनांक 2 से 11 जनवरी 2019 तक, दस दिन का पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 12 से 18 जनवरी 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 जनवरी 2019 के सावर्जनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग वर्मा, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग वर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग वर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1010-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री क्षितिज सिंघल, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल को दिनांक 18 से 25 फरवरी 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री क्षितिज सिंघल, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

973

(3) अवकाशकाल में श्री क्षितिज सिंघल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री क्षितिज सिंघल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-1083-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को दिनांक 1 फरवरी से 15 मार्च 2019 तक, तैंतालीस दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, उपसचिव, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उषा परमार, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2019

क्र. ई.-5-967-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सोमेश मिश्र, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम को दिनांक 11 से 25 फरवरी 2019 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सोमेश मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सोमेश मिश्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोमेश मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-984-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शीतला पटले, आयएस., अपर कलेक्टर, जिला बैतूल को दिनांक 18 से 25 फरवरी 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शीतला पटले को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शीतला पटले को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शीतला पटले अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2019

क्र. ई.-1-02-2019-5-एक.—श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे (2002), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल (अति. प्रभार) की सेवाएँ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर नियुक्ति के लिए विधि एवं विधायी कार्य विभाग को सौंपी जाती है। साथ ही उन्हें पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) भी घोषित किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे (2002) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियम 2016 के नियम-9 के अन्तर्गत अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्र. ई.-5-868-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, आयएस., प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन, भोपाल को दिनांक 31 जनवरी से 8 फरवरी 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, स्टेट सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी वली अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-1-24-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री डी. पी. आहूजा (1996) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर	—
2	श्री पवन कुमार शर्मा (1999), आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.	सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल.	संभागीय कमिश्नर

क्र. ई-1-31-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (1997), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.	आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (अतिरिक्त प्रभार).	—
2	श्रीमती शिल्पा गुप्ता, (2008) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय.	कार्यपालक संचालक, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
3	श्री दिलीप कुमार (2008) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.	कार्यपालक संचालक, राज्य खनिज निगम	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
4	श्री वीरेन्द्र सिंह रावत (2008), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.	अपर आयुक्त (राजस्व) सागर संभाग, सागर.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
5	श्री वेद प्रकाश (2009), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.	अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल.	—
6	श्री मनीष सिंह (2009), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	—
7	श्री कर्मवीर शर्मा (2010), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	—

(2) उपरोक्तानुसार श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मंडलोई, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम (अतिरिक्त प्रभार) तथा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं परियोजना संचालक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं परियोजना संचालक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) उपरोक्तानुसार श्री दिलीप कुमार द्वारा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नरेन्द्र सिंह परमार, भाप्रसे (2003) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, भोपाल केवल कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई.-1-33-2019-5-एक.—श्री दुर्ग विजय सिंह भाप्रसे (2004), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2019

क्र. ई.-1-23-2019-5-एक.—श्री आकाश त्रिपाठी, भाप्रसे (1998), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर की सेवाएं ऊर्जा विभाग से वापिस लेते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, इन्दौर, संभाग इन्दौर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई.-1-34-2019-5-एक.—श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे, (1987) वि.क.अ.-सह-विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-917-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे., कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को दिनांक 28 से 30 जनवरी 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27 जनवरी 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री अक्षय कुमार सिंह, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला निवाड़ी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप से कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अक्षय कुमार सिंह, भाप्रसे, कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2019

क्र. ई-1-38-2019-5-एक.—डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, भाप्रसे (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, पन्ना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2019

क्र. ई-5-562-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जे. एन. कांसोटिया, भाप्रसे (1989) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 11 से 27 मार्च 2019 तक, सत्रह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री जे. एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2019

क्र. ई-1-35-2019-5-एक.—श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग एवं वि.क.अ.-सह-आयुक्त, पर्यटन तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, (2005), संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन (MPSSDM) एवं संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, रोजगार का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-47-2019-5-एक.—श्री आशीष कुमार, भाप्रसे (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग एवं आध्यत्म विभाग तथा संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण (अति. प्रभार) को केवल उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है।

क्र. ई-5-522-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज श्रीवास्तव, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं अध्यात्म विभाग को दिनांक 7 से 11 फरवरी 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री मनोज श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं अध्यात्म विभाग का प्रभार श्री अश्विनी कुमार राय, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं अध्यात्म विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मनोज श्रीवास्तव द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं अध्यात्म विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अश्विनी कुमार राय, भाप्रसे, उनको सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनोज श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1019-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे, (2015) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चुरहट, जिला सीधी को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 दिसम्बर 2018 द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2018 से 10 जनवरी 2019 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 18 फरवरी से 4 मार्च 2019 तक, पन्द्रह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चुरहट, जिला सीधी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2019

क्र. ई-1-42-2019-5-एक.—श्री विकास नरवाल, भाप्रसे, (2008), संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन कार्य के लिए) की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग से वापिस लेकर उनकी सेवाएं ऊर्जा विभाग को सौंपते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री विकास नरवाल द्वारा प्रबंध संचालक, पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-1-45-2019-5-एक.—श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे (2010), अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, भोपाल की सेवाएं नगरीय विकास एवं आवास विभाग से वापिस लेते हुए उनकी सेवाएं आगामी आदेश तक, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर नियुक्ति के लिए विधि एवं विधायी कार्य विभाग को सौंपी जाती हैं। साथ ही उन्हें पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) भी घोषित किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री अभिजीत अग्रवाल द्वारा संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-5-974-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आदित्य सिंह, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंदसौर को दिनांक 4 से 8 फरवरी 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आदित्य सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंदसौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आदित्य सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदित्य सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1032-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आलोक कुमार सिंह, भाप्रसे (2008) उपसचिव, मंत्रालय को दिनांक 5 से 15 मार्च 2019 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 03, 04 मार्च 2019 एवं 16, 17 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आलोक कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1103-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री सोनवड़े संजय सौरभ, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला खण्डवा को दिनांक 25 जनवरी से 8 फरवरी 2019 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सोनवड़े संजय सौरभ, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सोनवड़े संजय सौरभ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सोनवड़े संजय सौरभ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2019

क्र. ई-1-48-2019-5-एक.—श्री विवेक अग्रवाल, भा.प्र.से. (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पद पर नियुक्ति के लिए को सौंपी जाती हैं।

क्र. ई-1-50-2019-5-एक.—श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे (2002), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री एम. सेलवेन्द्रन द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष

रस्तोगी भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल तथा अतिरिक्त प्रभार तथा राहत आयुक्त, पुनर्वास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग केवल प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई-1-56-2019-5-एक.—श्री सभाजीत यादव, भाप्रसे (2006), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की सेवाएं नगरीय विकास एवं आवास विभाग को सौंपते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरपालिक निगम, रीवा के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री सभाजीत यादव द्वारा आयुक्त, नगरपालिक निगम, रीवा का कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत आयुक्त, नगरपालिक निगम, रीवा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपरदर्शित नियमों में सम्मिलित अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-1-58-2019-5-एक.—श्री मुकेश कुमार शुक्ला, भाप्रसे (2003), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-325-2006-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017/15/2006/AIS-I, दिनांक 07 जून 2010 द्वारा श्री मोहन लाल मीना, भाप्रसे (MT : 2001) की सेवाएं 3 वर्ष के लिए अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग को सौंपी गई थी।

(2) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 13017/15/2006/AIS-I(Pt.), दिनांक 31 जनवरी, 2019 द्वारा श्री मोहन लाल मीना की सेवाएं तत्काल उनके मूल संवर्ग मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग को लौटाने के निर्देश दिये हैं।

(3) अतः राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री मोहन लाल मीना, भाप्रसे (MT : 2001) संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश भोपाल को उनके मूल मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है।

क्र. ई-5-829-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नागरगोजे मदन विभीषण, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 7 से 23 फरवरी 2019 तक, सत्रह दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश

शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-994-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पी. आर. कतरोलिया, आयएएस., अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन को दिनांक 18 से 28 फरवरी 2019 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 17 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पी. आर. कतरोलिया को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पी. आर. कतरोलिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. आर. कतरोलिया, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-850-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. एम. शर्मा, आयएएस., आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को दिनांक 23 फरवरी से 2 मार्च 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 03, 04 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री बी. एम. शर्मा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती सपना निगम, भाप्रसे, अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. एम. शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. एम. शर्मा द्वारा आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सपना निगम, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. एम. शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एम. शर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2019

क्र. ई-1-59-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सलीना सिंह, (1986), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल
2	श्री एस. एन. मिश्रा (1990) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.	—
3	श्री प्रमोद अग्रवाल (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग तथा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग (अतिरिक्त प्रभार) तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (अतिरिक्त प्रभार).	—
4	श्री संजय दुबे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल.	—
5	श्री संजय कुमार शुक्ला (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम.	—
6	श्री हरिरंजन राव (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, वि.क.अ.-सह-आयुक्त, पर्यटन तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग एवं वि.क.अ.-सह-आयुक्त, पर्यटन तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
7	श्रीमती दीपाली रस्तोगी (1994), वि.क.अ.-सह-आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास, मध्यप्रदेश भोपाल.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास, मध्यप्रदेश भोपाल.	—
8	श्री उमाकांत उमराव (1996), कमिश्नर, नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल.	संभागीय कमिश्नर
9	श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा (2002), सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर.	कमिश्नर, नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद.	—

(2) उपरोक्तानुसार श्री उमाकान्त उमराव द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे (1987), वि.क.अ.-सह-विकास आयुक्त, एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(3) उपरोक्तानुसार श्रीमती सलीना सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम (अतिरिक्त प्रभार), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग अतिरिक्त प्रभार केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग (अतिरिक्त प्रभार) से मुक्त होंगे। साथ ही श्री नीरज मण्डलोई को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(4) डॉ. संजय गोयल, भाप्रसे (2003), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-885-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तरुण राठी, भाप्रसे (2010) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं महाप्रबंधक, (कार्मिक) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल एवं उपसचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 25 फरवरी से 2 मार्च 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ के साथ दिनांक 24 फरवरी एवं 03, 04 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरुण राठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं महाप्रबंधक, (कार्मिक) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल एवं उपसचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री तरुण राठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरुण राठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-899-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री महेश चन्द्र चौधरी, आयएस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय को दिनांक 18 से 23 फरवरी 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 एवं 24 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश, मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-928-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग वर्मा, आयएस., आयुक्त, नगरपालिक निगम, सागर को दिनांक 28 जनवरी से 8 फरवरी 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09, 10 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग वर्मा, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग वर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग वर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-965-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संदीप जी. आर. आयएस., आयुक्त, नगरपालिक निगम, सतना को दिनांक 11 से 15 फरवरी 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09, 10 एवं 16, 17 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने श्री संदीप जी. आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरपालिक निगम, सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संदीप जी. आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप जी. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. ई-1-60-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थाना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्री एम. गोपाल रेड्डी, (1985), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा जल संसाधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम.
2	श्री शिवशेखर शुक्ला (1994), वि.क.अ.-सह-आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं वि.क.अ.-सह-आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).

(2) उपरोक्त पदस्थापना आदेश श्री राधेश्याम जुलानिया, भाप्रसे (1985), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के भारत सरकार में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर राज्य से कार्यमुक्त होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2019

क्र. ई-5-819-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे., आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ को दिनांक 18 से 23 फरवरी 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 एवं 24 फरवरी

2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ का प्रभार श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे,

संचालक, आरसीन्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल को अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे, द्वारा आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदार लाल शर्मा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1043-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री स्वप्निल जी वानखेड़े, भाप्रसे, (2016) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), राजनगर, जिला छतरपुर को दिनांक 11 से 15 फरवरी 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री स्वप्निल जी. वानखेड़े, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), राजनगर, जिला छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री स्वप्निल जी वानखेड़े, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वप्निल जी वानखेड़े भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2019

क्र. ई-1-57-2019-5-एक.—श्री मनोज गोविल, भाप्रसे (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त-

सह-संचालक, संस्थागत वित्त (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, दी-प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, मुंबई का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री मनोज गोविल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिरुद्ध मुखर्जी, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा वि.क.अ.-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं प्रबंध संचालक, दी-प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, मुंबई तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार), केवल प्रबंध संचालक, दी-प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड, मुंबई के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2019

क्र. ई-5-650-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा विकअ-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड को दिनांक 11 से 15 फरवरी 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री हरिरंजन राव प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा विकअ-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री हरिरंजन राव, आयएस. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा विकअ-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री हरिरंजन राव द्वारा प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग तथा विकअ-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री हरिरंजन राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरिरंजन राव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2019

क्र. ई-1-72-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री दिनेश श्रीवास्तव (2010), अपर कलेक्टर, ग्वालियर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय	—
2	सुश्री सोनिया मीना (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना.	अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
3	श्री सतीश कुमार एस (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खरगौन.	आयुक्त, नगरपालिक निगम, रतलाम	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
4	श्री अनूप कुमार सिंह (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड.	अपर कलेक्टर, ग्वालियर	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
5	सुश्री शीतला पटले (2014), अपर कलेक्टर, बैतूल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास.	—
6	श्री रिशव गुप्ता (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़.	अपर कलेक्टर, उज्जैन	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
7	श्री क्षितिज सिंघल (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर.	—
8	सुश्री सलोनी सिडाना (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर.	अपर कलेक्टर, जबलपुर	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

क्र. ई.-5-776-आयएएस-तीव-5-एक.—(1) श्री बी. चन्द्रशेखर, भाप्रसे., सचिव, मुख्यमंत्री तथा कार्यपालक संचालक, लोक सेवा प्रबंधन एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन को दिनांक 11 से 20 फरवरी 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. चन्द्रशेखर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मुख्यमंत्री तथा कार्यपालक

संचालक, लोक सेवा प्रबंधन एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री बी. चन्द्रशेखर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. चन्द्रशेखर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-863-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे (2010) संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को दिनांक 11 से 20 फरवरी 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्रीमती अलका श्रीवास्तव, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे द्वारा संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अलका श्रीवास्तव, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कृष्ण गोपाल तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2019

क्र. ई-1-62-2019-5-एक.—श्री अनिल सुचारी, भाप्रसे (2006), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहनती, मुख्य सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग

(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2019

क्र. एफ-11-90-2014-सूअप्र-एक-9.—राज्य शासन एतद्वारा माननीय श्री के. डी. खान, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को दिनांक 27 जनवरी से 2 फरवरी 2019 तक अर्जित अवकाश एवं एल.टी.सी. स्वीकृति की अनुमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. पड़वार, उपसचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2019

क्र. एफ 5-1-2017-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्रीमती अंजुली पालो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 28 जनवरी से 1 फरवरी 2019	05	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 जनवरी 2019 तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2, 3 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने के अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2019

क्र. ई-1-35-2019-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 फरवरी 2019 द्वारा श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग एवं वि.क.अ.-सह-आयुक्त, पर्यटन तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।

(2) उक्त आदेश की कंडिका-1 में उल्लेखित “मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड, भोपाल के स्थान पर” मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड, भोपाल पढ़ा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अर्चना सोलंकी, उपसचिव “कार्मिक”.

भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2019

क्र. 239-114-2019-एक-10.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 28 जनवरी से 2 फरवरी 2019 तक अर्जित अवकाश का उपभोग करने के साथ अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ उठाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्याम बाई धुर्वे, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2019

क्र. ई-5-1054-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री जगदीश चन्द्र जटिया, भाप्रसे, तत्कालीन अपर संचालक, संचालनालय, उच्च शिक्षा (वर्तमान में कलेक्टर, जिला मण्डला) को दिनांक 12 से 16 नवम्बर 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 नवम्बर 2018 एवं दिनांक 17, 18 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री जगदीश चन्द्र जटिया, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जगदीश चन्द्र जटिया, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2019

क्र. ई-5-1065-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दिनेश श्रीवास्तव, आयएएस., अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जनवरी 2019 द्वारा दिनांक 8 से 15 जनवरी 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 8 से 11 जनवरी 2019 तक, चार दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जनवरी 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्र. ई-5-955-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय सिंह गंगवार, आयएएस., सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 27 सितम्बर 2018 द्वारा दिनांक 10 से 31 दिसम्बर 2018 तक, बाईस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 1 जनवरी 2019 द्वारा दिनांक 7 जनवरी 2019 सात दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री अजय सिंह गंगवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय सिंह गंगवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2019

क्र. ई-5-1023-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रितुराज, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवसर जिला सिंगरौली को दिनांक 7 से 18 जनवरी 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री रितुराज, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रितुराज, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2019

क्र. ई-5-1003-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभय कुमार वर्मा, आयएस., उपसचिव, मंत्रालय को दिनांक 4 से 5 जनवरी 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभय कुमार वर्मा भाप्रसे. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2019

क्र. ई-5-831-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती स्वाती मीणा नायक, भाप्रसे., (2007) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 9 से 11 जनवरी 2019 तक, तीन दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्वाती मीणा नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्वाती मीणा नायक अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2019

क्र. एफ 1-13-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक रेल, भोपाल को दिनांक 18 फरवरी 2019 के एक दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 16-17 व 19 फरवरी 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत अवकाश अवधि में परिवार सहित Hongkong की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से विशेष पुलिस महानिदेशक रेल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2019

क्र. एफ-1(ए)400-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, (को. फ्रॉड) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 8 जनवरी 2019 तक, सोलह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योंतर स्वीकृत प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 32 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, (को. फ्रॉड) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)398-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन डॉ. विजय कुमार, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (अग्निशमन सेवाएं) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 18 से 23 मार्च 2019 तक, कुल छः दिवस अर्जित अवकाश एवं 16-17 मार्च 2019 व 24-25 मार्च 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में अरूणाचल प्रदेश की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| 1. डॉ. विजय कुमार | — | स्वयं |
| 2. डॉ. प्रणति विजय कुमार | — | पत्नी |

3. कु. ओशिन विजय कुमार — पुत्री
4. श्री विवेक विजय कुमार — पुत्र

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. विजय कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2019

(2) डॉ. विजय कुमार, भापुसे, का चालू कार्य श्री डी. सी. सागर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवार्यें, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

क्र. एफ-1(ए)151-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 जनवरी से 2 मार्च 2019 तक, चालीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. विजय कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (अग्निशमन सेवाएं), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. विजय कुमार, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(3) अवकाशकाल में श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) अवकाशकाल में डॉ. विजय कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2019

फा. क्र. 1084-इक्कीस-ब (दो) 2019.—राज्य शासन, एतद्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जुलाई 2017 द्वारा नियुक्त श्री राजेश कुमार तिवारी, शासकीय अधिवक्ता द्वारा दिया गया त्यागपत्र दिनांक 2 जनवरी 2019 से स्वीकृत कर कार्यमुक्त करता है.

फा. क्र. 931-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण को एतद्वारा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है:—

क्र. (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्री सतीश चन्द्र शर्मा, (जूनियर) प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना (प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर के समवर्ती प्रभार के साथ).
2	श्री महेन्द्र कुमार जैन, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ (प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर के समवर्ती प्रभार के साथ).
3	श्री अखिलेश शुक्ला, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-9 जबलपुर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच
4	श्री वाचस्पति मिश्र, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बालाघाट	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा
5	श्री देव. नारायण (शुक्ला) प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सतना.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद (प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर के समवर्ती प्रभार के साथ).

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2019

क्र. एफ-24-1-2019-सोलह-ए-16.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री मसूद एहमद खान, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा), रतलाम की सेवाएं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये रजिस्ट्रार, औद्योगिक न्यायालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर के पद पर पदस्थ किया जाता है।

श्री मसूद अहमद खान, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को प्रतिनियुक्ति अवधि में मूल विभाग में प्राप्त वेतन, सुविधा एवं भत्ते प्राप्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रकान्त कश्यप, अवर सचिव.

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2019

क्र. एफ-2-11-2010-साठ.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश ऊर्जा किसी विकास लिमिटेड के संचालक मण्डल में श्री विजेन्द्र सिंह सिसोदिया को संचालक के पद पर दिनांक 20 जनवरी 2016 को किया गया मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2019

क्र. एफ-1-7-18-रा.स.-यू.ए.1-346.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :—

- | | | | |
|----|--|------------------|--|
| 1. | प्रो. हरीश पाद,
पूर्व कुलपति,
(सरदार पटेल विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
(गुजरात). | समिति के अध्यक्ष | कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित |
| 2. | डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री,
कुलपति,
हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश). | समिति के सदस्य | अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग द्वारा नामांकित. |

- | | | | |
|---|--|----------------|------------------------------|
| 3 | डॉ. सुनील कुमार,
कुलपति,
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल (म. प्र.). | समिति के सदस्य | कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित |
|---|--|----------------|------------------------------|

(2) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. हरीश पाठ, पूर्व कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर के आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, राज्यपाल के सचिव.

राजभवन, भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2019

क्र. एफ-1-5-18-रा.स.-यू.ए.1-348.—महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (क्र. 15 सन् 2008) की धारा 28 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-

- | | | | |
|----|---|------------------|---|
| 1. | प्रो. व्ही. कुटुम्बा शास्त्री,
पूर्व कुलपति,
(श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय,
वेरावल) नई दिल्ली-110075. | समिति के अध्यक्ष | अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग द्वारा मनोनीत |
| 2 | प्रो. पी. एन. शास्त्री,
कुलपति,
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान,
नई दिल्ली-110058. | समिति के सदस्य | कुलाधिपतिजी द्वारा मनोनीत |
| 3 | डॉ. प्रकाश बरतूनिया,
(कुलाधिपति,
बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
लखनऊ) भोपाल (म. प्र.). | समिति के सदस्य | कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित |

(2) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. व्ही. कुटुम्बा शास्त्री, पूर्व कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, राज्यपाल के सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
 बैतूल, दिनांक 15 फरवरी 2019

क्र.21-अ-82-2017-18-मोजा जामगांव-1545.-

घोषणा

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि के कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आठनेर	जामगांव	18.159	जामगांव-हिवरा स्टोरेज जलाशय

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	ओमकार, कन्हैयालाल व. फजली, हेमराज, गोंविंदा, सावनी, सपना व. लखनलाल, सकरू पिता फजली, जाति मेहरा, निवासी ग्राम भूमिस्वामी	87	4.176	1.897
2	कौसीबाई पत्नी गेंदराव, जाति कुन्बी	85/2	10.117	0.008
3	पर्वतराव व. गेंदराव, जाति कुन्बी, सा. देह भूमिस्वामी	85/1	3.622	2.892
4	बलदेव व. नत्थू, जाति मेहरा, निवासी ग्राम भूमिस्वामी	45	2.177	0.738
5	सुखदेव व. तुकाराम, जाति कुन्बी, नि. ग्राम भूमि स्वामी	50/5	0.690	0.089
		44/7	0.235	0.006
		49/2	0.158	0.014
		49/3	0.158	0.014
6	मोतीराम उर्फ श्रीराम व. तुकाराम, जाति कुन्बी, नि. ग्राम भूमि स्वामी	48/4	0.203	0.008
		44/8	0.246	0.014
7	मारोती उर्फ बलदेव पिता तुकाराम जाति कुन्बी, ग्राम निवासी भूमि स्वामी	44/6	0.275	0.009
		49/1	0.158	0.040

8	बेबी जौजे मारोती, जाति कुन्बी, नि. ग्राम भूमिस्वामी	48/2	0.509	0.072
9	आशा पत्नी सुखदेव, जाति कुन्बी, नि. ग्राम भूमिस्वामी	48/5	0.507	0.110
10	मनीषा जौजे श्रीराम, जाति कुन्बी, नि. ग्राम भूमिस्वामी	48/6	0.495	0.163
11	उमराव पुत्र तुकाराम, जाति कुन्बी, निवासी ग्राम भूमि स्वामी	49/4	0.158	0.015
12	माधोराव व. तुलसीराम, जाति कुन्बी, नि. ग्राम भूमिस्वामी	54/1	1.064	0.162
13	बाबूराव व. तुलसीराम, जाति कुन्बी, नि. ग्राम भूमिस्वामी	54/2	1.214	1.214
14	प्रयागराव व. तुलसीराम, जाति कुन्बी, नि. ग्राम भूमिस्वामी	54/3	1.061	0.202
15	दशरथ व. सरजेराव, जाति कुन्बी, नि. ग्राम भूमिस्वामी	55/1	0.936	0.640
16	भाऊराव व. सरजेराव, जाति कुन्बी, नि. ग्राम भूमिस्वामी	55/4	0.936	0.520
17	पुन्या व. सीताराम, जाति कुन्बी, नि. ग्राम भूमिस्वामी	56/2	1.821	1.462
18	सरावन व. सीताराम, जाति कुन्बी, नि. ग्राम भूमिस्वामी	56/3	1.113	1.113
19	ढोण्डी पिता ब्रजलाल, जाति मेहरा, नि. ग्राम भूमिस्वामी	66/2	0.491	0.491
		69/1	1.400	0.356
20	झिंजू लंगू रामफल व. रंगलाल, गजरू, गंगा पिता रंगलाल जाति मेहरा, नि. ग्राम भूमिस्वामी	66/1	2.850	0.647
21	गणपति व. पुन्या, जाति कुन्बी, नि. ग्राम भूमिस्वामी	66/3	0.350	0.350
22	राधा बेवा रेवाराम, जाति मेहरा, नि. ग्राम भूमि स्वामी, नारायण व. रेवाराम, भूमिस्वामी, कलावती पिता रेवाराम, जाति मेहरा, पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	68/1	6.617	2.153
23	प्रमिला जौजे पूरनलाल, जाति मेहरा, नि. ग्राम भूमिस्वामी	68/2	1.011	0.817
24	बुद्धराव व. शिवलाल, सैयबा पिता शिवलाल, जाति मेहरा, नि. ग्राम भूमि स्वामी	69/2	1.200	0.060

25	पंढरी व. बलीराम, जाति कुन्बी, सा. देह भूस्वामी	70/3	1.204	0.230
26	लाल मोहम्मद, ताज मोहम्मद, न्याज माकहम्मद, फैज मोहम्मद व. अनजीर, रजिया पिता नजीर, जाति मुसलमान, सा. आठनेर, मोहम्मद रफीक मोहम्मद, साबिर, सादिक माहम्मद व. मोहम्मद समी, मुनीजा बी, कनीजा बी पिता मोहम्मद समी, जाति मुसलमाल, निवासी भूमिस्वामी	73	3.165	0.323
27	अमृतराव व. गेन्दराव, जाति कुन्बी	85/4	3.622	1.240
28	नेहरू व. रामप्रसाद तेली, पता नि. जामठी	72/1	4.520	0.090
	कुल योग :-	34	58.459	18.159

1. चूंकि जामगांव-हिवरा स्टोरेज जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्र.क्र. 88-अ-82-2017-18-मौजा हरदोली-बैतूल-1615.-

बैतूल, दिनांक 19/20 फरवरी 2019

घोषणा

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	हरदोली	12.484	वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे० में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	240/3	6.075	2.000	मनीराम व. रामा नदया व. मुशी श्यामलाल भारत व. होसू श्यामू दामू झम्मू व. भूरा भुजली बेवा भूरा सकु बेवा धना शिवचरण कृष्णराव मनोहर सुरेश व. धना इंदिरा पिता धना अन्नपूर्णा बे. नान्या अनिल सुनिल दिवकर व. नान्या कन्हैया व. अमरसिंह सा. चिखलीखुर्द पता निवासी भूमि स्वामी गुन्ता शांता पिता अमरसिंह आनन्दराव सायबू व. इसनू आशा बे यशवंत सतीष विजय व. यशवंत सरिता संगीता पिता यशवंत मेहरा सा. खड़की रुबिया फुलवंती पिता भूरा सा. देह भूमि स्वामी
2	240/5	6.075	0.640	रेणुका जो. आशीष भावसार पता विवेकानन्द वार्ड मुलताई भूमि स्वामी
3	244	12.242	1.360	गोड़या पंढरी पिता दशरथ पता सा. देह भूमि स्वामी शंकर बोंदरया पिता दमड़या पता सा देह भूमि स्वामी
4	245	2.023	0.400	ढोंडिया रामराव व. बारीक पवार सा. देह देवरी भूमि स्वामी
5	247/1	1.639	0.200	शांता जो. तुलसीराम भूमि स्वामी
6	247/2	1.283	0.200	तुलसीराम व. भुन्या पता सा देह भूमि स्वामी
7	247/3	1.821	0.110	दिनेश व. तुलसीराम पता सा देह भूमि स्वामी

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
8	247/4	1.821	0.075	पूरणलाल व. तुलसीराम पता सा देह भूमि स्वामी
9	247/5	1.821	0.075	जीवनलाल व. तुलसीराम पता सा देह भूमि स्वामी
10	248/7	2.942	0.380	मुन्नीबाई पिता मेहगू पता सा देह भूमि स्वामी
	249/6	2.341	0.580	
11	205/7	0.610	0.250	चिरौंजी मायदू व. बाजी जाति पवार समान भाग भूमिस्वामी रुपाय बेवा पन्ना घुड़्या रामजी व. पन्ना फुलवा पिता पन्ना नंदकिशोर प्रेमलाल कृष्ण व. चैतराम ललीता अनीता पिता चैतराम रामप्यारी बेवा चैतराम पवार सा. देह भूमि स्वामी
12	205/8	1.520	0.200	दुल्या व. साजू रैसूल तुलस कोसुल पिता साजू जाति पवार सा. देह भूमि स्वामी
13	203	6.220	1.150	नान्ही पिता घुड़ल्या पता सा. देह जीवन गुलाब व. दशरया नान्ही बेवा जगन उषा गुड़डी र्फ रेखा पिता जगन मुन्ना किशोरी व. ओझा देवना पिता ओझा केलोबाई बे ओझा भूमिस्वामी टुटक्या व. देवबा डेपल्या व. देवबा सुभाष रामचरण व. जगन भूमिस्वामी मोहन खुश्याल अनक लखन प्रेमलाल व. मंगरया मुन्नी पिता मंगरया जाति पवार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
14	201/8	0.360	0.200	रामू व. मल्लू गोंड सा. देह भूमि स्वामी
	201/2	0.700	0.450	
15	201/7	0.772	0.230	श्यामू व. मल्लू गोंड सा. देह भूमि स्वामी
16	201/6	0.631	0.150	श्यामराव व. मल्लू गोंड सा. देह भूमि स्वामी
17	201/3	1.940	0.550	सोमू व. सुकलू गोंड सा. देह भूमि स्वामी
	201/1	0.900	0.800	
18	200	1.214	0.060	घुड़्या रामजी व. पन्ना फुलवा पिता पन्ना रुपाय बेवा पन्ना नंदकिशोर प्रेमलाल कृष्ण व. चैतराम रामप्यारी बेवा चैतराम पवार सा देह भूमि स्वामी घुल्या व. साजू रैसूल कौशल तुकल पिता साजू मायदू चिरौंजी व. बाजी भूमि स्वामी
19	199	3.339	0.300	तुलसीया बेवा मौजी पवार सा. देह भूमि स्वामी
20	138/1	0.497	0.120	कजला जौ. चिन्धु शंकर भगवत चेलू गैलू चाण व. लोटन गोंड सा. देह भूमि स्वामी
21	138/2	1.011	0.050	बाबूलाल पिता सिंगू गोंड सा. देह भूमि स्वामी
22	138/3	1.011	0.100	साबूलाल पिता सिंगू गोंड सा. देह भूमि स्वामी

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
23	138/5	3.781	0.120	ईमला बेवा गणेश लक्ष्मण व. गणेश रुंदा बेवा गोमा गोंड सा. देह भूमि स्वामी
24	196/2	0.400	0.010	अर्जुन व. गणपत जाति पवार सा. देह भूमि स्वामी
25	196/1	1.962	0.180	धुंदु व. गणपत जाति पवार सा. देह भूमि स्वामी
26	196/4	0.374	0.030	नकुल व. गणपत जाति पवार सा. देह भूमि स्वामी
27	197	2.687	0.550	मुन्नी बेवा लहुबा सुन्दरलाल पन्नालाल छोटेलाल व. लहुबा चिंधी कमल विमल पुरभा पिता लहुबा सा. देह भूमि स्वामी
	194	2.606	0.194	
28	195/1	1.445	0.300	गणेश व. साहेबलाल जाति पवार सा. देह भूमि स्वामी
	193/2	3.798	0.080	
29	195/2	1.445	0.250	दिनेश व. साहेबलाल जाति पवार सा. देह भूमि स्वामी
	193/1	3.798	0.100	
30	192/2	3.541	0.040	मुन्नालाल व. गणपत पवार सा. देह भूमि स्वामी
योग	36	86.645	12.484	

(2) चूंकि वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 01-अ-82-2017-18-मौजा जूनावनी-1616.-

घोषणा

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आठनेर	जूनावनी	1.485	जूनावनी लघु स्टोरेज जलाशय योजना

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	भदुलाल व0 तिलक जाति किराड निवासी मांडवी	90/2	0.247	0.247
2	गुरुदेव, बलदेव, सदाराम, दीनदयाल व0 अमरचंद, रामरति, सुशीला, पिता अमरचंद जाति किराड निवासी मांडवी	205	0.457	0.457
		87	0.781	0.781
	योग	3	1.485	1.485

चूंकि जूनावनी लघु स्टोरेज जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्र.क्र. 85-अ-82-17-18-मौजा बोरगांव उर्फ शेरगढ़-1617.-

घोषणा

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आव यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1				
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	बोरगांव उर्फ शेरगढ़	125.863	वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना
अनुसूची - 2				
(प्रभावित धारको की सूची)				
अ०क्र०	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	473/3	1.153	0.750	सुमेलाल इनक अमरलाल वल्द पतिराम जाति गोंड
2	473/2	1.080	0.347	मुन्ना व. रामू पता सा. देह भूमि स्वामी
3	472	2.306	1.200	अमृत्य महदू श्रीधर व. धरम्या कसिया दसिया ककू पूर्णा रहसूल पिता धरम्या मीरा जौ: पाण्डू पता सा. देह भूमि स्वामी
4	471	4.249	1.550	अमृत्य महदू श्रीधर व. धरम्या जाति पवार
5	467	6.609	1.210	गोबरया व. नान्हू कल्लू व. श्यामु बुलेकी बे. श्यामू पता सा. देह भूमि स्वामी

अ0क्र0	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
6	382	1.745	0.840	गणपती व. बाबूलाल मेहदो बे बाबूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
7	622	4.782	0.420	तुरजी जौ ढीमर देवराव शेषराव मुन्ना पजाबराव व. ढीमर सुमन पिता ओझी पता सा. देह भूमि स्वामी
8	621	1.797	0.420	गुसाई व. टुरक्या पता सा. देह भूमि स्वामी
9	393/5	0.658	0.658	फुस्या पिता गोसाई पता सा. देह भूमि स्वामी
10	620	0.380	0.300	लहजी बेवा शंकर शेषराव भोजू वल्द शंकर सकी पिता शंकर कसदन लखन माधो गोकुल वल्द ओझा नरबदी दुल्लो पिता ओझा जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
11	619/1	3.631	3.631	सुन्दरलाल व. फागू पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
	637/2	2.463	1.105	
	619/3	3.631	1.500	
12	619/2	3.632	2.650	दशरथ व. फागू जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
	637/1	1.232	1.105	
13	626/1	0.615	0.468	शेषराव वल्द शंकर जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
	626/11	0.583	0.530	
14	626/9	0.591	0.591	भोजू वल्द शंकर जाति पवार सा. देह
15	626/8	0.405	0.405	लहजी बेवा शंकर सकी पिता शंकर सा. देह
16	626/2	0.506	0.506	श्रीराम साहेबलाल उर्फ मारोती वल्द सावन्या मुन्नी फुलवन्ती जया पिता सावन्या जाति पवार पता सा. देह भूमि स्वामी
	626/10	0.590	0.550	
17	626/3	0.506	0.506	गोन्डया व. तेजी पता सा. देह भूमि स्वामी
	626/6	0.623	0.030	
	626/12	0.590	0.064	
18	635/8/1	1.000	0.500	गणपती व. नानकराम जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
	635/6/3	2.287	0.960	
	635/4/1	1.600	0.460	

अ0क्र0	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
19	635/8/2	1.000	0.500	भभूत व. नानकराम जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
	635/6/2	2.287	0.960	
	635/4/2	1.600	0.460	
20	635/7	7.000	2.350	दिनेश व. शिवजी पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
	635/5	2.000	0.850	
21	635/2/2	1.567	0.200	शिवजी व. हीराजी पता सा. देह भूमि स्वामी
22	394/1	2.400	0.350	श्यामू व. रावजी चिन्धी पिता गोंदिया पता सा. देह भूमि स्वामी
23	394/2	2.000	2.000	कृष्णा अलकेश व. हरिराम सुनीता इन्दीरा पिता हरिराम पवार सा. देह भूमि स्वामी
24	393/1	6.200	2.320	फकीर व. मुकिंदा पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
25	390/1/1	0.400	0.214	केशोराव व गोविंद जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
26	390/1/2	0.400	0.214	माधोराव व गोविंद जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
27	390/1/3	0.400	0.214	दीनानाथ व गोविंद जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
28	390/1/4	0.400	0.214	सीताराम व गोविंद जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
29	390/2	2.082	0.250	चैती पिता तेजी पता सा. देह भूमि स्वामी
30	376	1.522	0.150	कुंवरलाल मौरसिंग कालूराम राजू वल्द श्यामलाल लीला इन्दीरा पिता श्यामलाल चैती पिखोली मुन्नी पिता ढोमन्या जाति पवार
31	387	1.882	0.270	कुंवरलाल पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
32	640/1/2	6.366	0.060	चैतराम वल्द बाबूलाल जाति पवार
33	640/1/3	6.366	0.768	झनकलाल वल्द किशोरीलाल खिमिया पिता किशोरीलाल जाति पवार
34	639	2.039	0.820	बंशी कन्हैया किसनलाल व. गणेश पता सा. देह भूमि स्वामी
	643	2.626	0.910	

अ0क्र0	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
35	638	2.246	0.950	तुरजी जौ ढीमर देवराव शेषराव मुन्ना व. ढीमर सुमन पिता ओझी पता सा. देह भूमि स्वामी
	644	1.092	0.570	
36	642	3.181	0.600	पुरुषोत्तम व. रामलाल जाति पंवार पता निवासी जौलखेड़ा भूमि स्वामी
	640/1/4	3.185	0.750	
37	609	7.916	3.190	रैनी जौ. सकडू ममोना हसलो पिता रामजी पता सा. देह भूमि स्वामी
38	612/1	0.047	0.047	लखनलाल देवाजी हनवत हिम्मत अशोक कैलाश वल्द हीरालाल कसिया पिता हिरालाल चुनिया बेवा किसनलाल नकुल शिवराज युवराज धनराज वल्द किसनलाल आशाबाई पिता किसनलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
	610/1	1.510	1.510	
	610/8	0.705	0.705	
	598/9	0.489	0.300	
39	610/2	1.510	1.510	हीराजी व. चैत्या पता सा. देह भूमि स्वामी
	610/5	0.704	0.704	
	564/1	0.810	0.810	
	596/3	0.202	0.202	
	612/4	0.048	0.048	
	598/7	0.466	0.200	
40	610/6	0.705	0.705	पन्नालाल चैत्या पता सा. देह भूमि स्वामी
	610/3	1.510	1.510	
	612/2	0.047	0.047	
	598/10	0.503	0.300	
41	610/4	1.510	1.510	नत्थू व. चैत्या पता सा. देह भूमि स्वामी
	610/7	0.704	0.704	
	612/3	0.048	0.048	

अ0क्र0	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
42	606	0.713	0.713	लखनलाल देवाजी हनवत हिम्मत अशोक कैलाश वल्द हीरालाल कसिया पिता हिरालाल चुनिया बेवा किसनलाल नकुल शिवराज युवराज धनराज वल्द किसनलाल आशाबाई पिता किसनलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
	605/3	0.787	0.787	
43	576/1	1.685	1.685	भाउजी कुवरलाल उदल व. रामा कलसिया बे. रामा जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
	598/2	1.030	0.142	
	598/6	0.048	0.048	
44	576/2	1.685	1.400	द्वारका जौ. शंकर पता सा. देह भूमि स्वामी
45	576/3	1.212	1.212	येनूकांता जौ. नारायण जाति लोहार (गोंड)पता सा. खम्बारा भूमि स्वामी
46	576/4	1.821	1.821	भीमराव जगन्नाथ पंजाब अजाब व. मारोती कांता सुन्ता पिता मारोती जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
47	576/5	2.023	1.700	गेंदा जौ. शिवपाल जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
48	575/2	0.567	0.567	हरी व. कुन्जी मेहरा पता सा. कोंढर भूमि स्वामी सेवा खातेदार
	682/1	0.405	0.405	
49	605/1	0.867	0.867	अंजनी जौ. हिम्मत पता सा. देह भूमि स्वामी
	603	0.223	0.223	
50	605/2	1.214	1.214	हिम्मत व. हीरालाल पता सा. देह भूमि स्वामी
51	605/4	1.942	1.942	श्रीराम व. राधेलाल पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
52	587	2.428	0.080	दस्यू व. जुगन सुकीया जूंगा पिता जूगन गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
53	585	2.120	1.600	रानू बेवा परसू फगना श्यामू व. गोमा कतिया व फुस्या रमोली बे. फुस्या पता सा. देह भूमि स्वामी
54	785/2	0.720	0.100	हसलीबाई पति भादू जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी

अ0क्र0	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
55	551	4.071	0.770	बाजी दाजी दशरथा व. सुरजा जैदो मैदो पिता तुरजा पता सा. देह भूमि स्वामी
	566	0.555	0.555	
	586	0.223	0.223	
	590	0.024	0.024	
	591	0.024	0.024	
	594	0.032	0.032	
56	592/1	0.773	0.050	गोमती बे. नन्दराम महादेव मुन्नालाल रामदास रामकिशोर घनश्याम व. नन्दराम ललीता पिता नन्दराम पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
	596/1	0.449	0.050	
	617/5	2.000	0.270	
	646	3.505	1.200	
57	592/2	0.819	0.410	भागरती जौ सुरा पता सा. देह भूमि स्वामी
	596/4	0.708	0.050	
58	596/2	0.600	0.050	सुरज व. दाजीराम गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
	592/3	0.735	0.635	
59	597/1	1.619	1.200	छित्तु व. धुड़ल्या सा. देह पता सा. देह भूमि स्वामी
60	601/1	1.821	1.580	तुलसियाबाई बे किशन नहाले कमलाबाई बिन्दी पिता किशन दिपक व बाका जैनी पुनी नान्ही रीना पिता बाका जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
61	601/2	1.821	1.020	नहाले पिता किशन जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
62	602	0.910	0.460	चैतू बेड़ा व. हरेसिंह मिल्लो जूगनी पिता हरेसिंह गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
63	600/1	3.679	0.575	हंसू व. गोरे हेबत व. जेदू पता सा. देह भूमि स्वामी
64	600/2	3.678	0.575	राही पिता भूरे जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
65	612/3	0.048	0.048	नत्थु व. चैत्या पता सा. देह भूमि स्वामी
	599/1	0.101	0.101	
	598/3	0.019	0.019	
	598/8	0.041	0.041	

अ0क्र0	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
66	598/2	1.030	0.142	भावजी कुवरलाल उदल व रामा कलसिया बे रामा पता सा. देह भूमि स्वामी
	598/6	0.048	0.048	
67	599/3	0.101	0.101	राधेलाल व. गोबरया पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
	598/14	0.753	0.300	
68	598/13	0.805	0.300	धरमु व. दयाराम पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
69	614/1	3.188	0.650	पंची गणपति व. मंशाराम कज्जौ रज्जो पिता झलकु आंझें रंगी पिखोली पि जगनू पता सा. देह भूमि स्वामी
70	616/1	2.605	2.065	करकु व. मौजी जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
	617/1	0.729	0.135	
71	616/2	0.494	0.494	भागरती जौ. जंगली पता सा. देह भूमि स्वामी
	617/2	0.106	0.106	
72	617/3	0.320	0.135	झोल्या नान्हू व. धुड़ल्या पता सा. देह भूमि स्वामी
73	617/4	1.000	0.150	शिवजी व. धुड़ल्या नंदराम व. डोमा गोविंदा व. शिवजी पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
74	681/1	0.830	0.730	जंगली व. भददी पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
	681/3	2.360	1.830	
	681/5	3.283	2.730	
75	681/2	1.425	1.370	काल्या व. भगर्या पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
	648/2	1.666	0.050	
	687/2	0.355	0.128	
	687/5	0.980	0.129	
	687/6	0.170	0.129	
76	681/4	1.436	0.600	जंगली व. गडी पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
	648/1	1.938	0.050	
	687/4	0.380	0.128	
	687/7	0.772	0.128	

अ0क्र0	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
77	681/6	1.625	0.950	कचरू उर्फ कचरया व. गोंविदा पंवार सा. देह
	681/7	1.443	0.405	
	687/3	0.360	0.130	
	687/9	0.850	0.130	
78	681/8	1.435	0.380	छिततु झोल्या नान्हू व. धुड़ल्या कंला लज्जा सकून पिता धुड़ल्या रैनी बे. धुड़ल्या पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
	648/3	1.640	0.040	
	687/1	0.450	0.128	
	687/8	0.300	0.129	
	687/10	0.772	0.130	
89	647/1	2.225	0.800	पारधी व. पाण्डू सायगी पिता. पाण्डु जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
80	647/2	2.226	0.800	रज्जी बे. मनीराम रामदास भीमराव सोमरथ तिमू व. मनीराम मज्जू पिता मनीराम गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
81	651	2.833	2.833	सुशिला जौ. गणपती गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
82	650	0.850	0.300	फग्गो मखोली पिता मांगा ना.बा. वली पिता मांगा मांगा पिता कोडडी पता सा. देह भूमि स्वामी
83	649	1.248	0.300	तुलाराम व. केजा रंजित प्रदीप संदीप अजय विजय बबलू व. गुलाब बबीता पिता गुलाब जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
84	653	5.767	0.630	हीरू व. गरिव्या सावित्री जगोती मुन्नी पार्वती पिता गरिव्या शांता बे. साहेबलाल राजू दिनेश सुभाष गोलू व. साहेबलाल आशा राजो सपना ज्योति पिता साहेबलाल जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
85	657	12.625	2.960	दस्यू व. जुगन अलोखा बे जूगन गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
86	666/1	3.446	1.120	श्यामलाल व. गोमा गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी

अ0क्र0	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
87	666/2	3.400	1.120	कतिया व. फूसा गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
88	666/3	3.400	1.120	बत्तू व. ढीमर हिराजी देवाजी व. भगन्या मनोता पिता बत्तू रामभाउ तुलसीराम व. बत्तू गोंड सा. देह
89	669/1	2.688	0.870	जया जौ. गुलाब मेहरा पता सा. देह भूमि स्वामी
90	670/1	0.761	0.761	आन्दराव भाउराव व. टाटक्या उर्फ लक्ष्मण येनू पिता टाटक्या उर्फ लक्ष्मण जाति मेंहरा पता सा. देह भूमि स्वामी
	672/1	1.270	0.900	
91	670/2	0.777	0.660	कसमी बे. ढोंडु ढीमर बाबूराव व. ढोंडु जया मुन्नी पिता ढोंडु मेंहरा पता सा. देह भूमि स्वामी
	672/2	1.275	1.010	
92	671	0.906	0.670	जियालाल व महंग्या ढोंडु व. ढोमन्या आनदराव भाउराव व. टाटक्या येनू पिता टाटक्या मेहरा पता सा. देह भूमि स्वामी
93	671/1/1	0.261	0.261	लखन व हीरालाल जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
94	671/1/2	0.262	0.120	अशोक व हीरालाल जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
95	674/2	0.324	0.324	हरि व. कुंजी मेहरा सा. कोंढर सेवा खातेदार
96	675/1/1	0.991	0.991	कचर्या व. अमरसिंह गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
97	675/1/2	0.992	0.125	बंशी व. अमरसिंह गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
98	675/1/3	0.992	0.125	चैतू व. अमरसिंह गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
99	675/1/4	2.974	0.250	आशाराम तुलसीराम व. रायसिंह गोंड रमोती मुनिया लक्ष्मी पिता रायसिंह गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
100	675/2	1.983	0.250	फगो झनिया रमोली पिता गोंडू पता सा. कोंढर भूमि स्वामी
101	690/1	1.888	0.045	कचर्या व. गोंविदा पता सा. देह भूमि स्वामी
102	690/2	0.575	0.040	जयाबोई जौ. राधेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
103	690/3	0.980	0.070	सकियाबाई जौ. झोल्या पता सा. देह भूमि स्वामी
	690/4	0.980	0.020	

अ0क्र0	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
104	690/5	0.405	0.050	निर्मलाबाई जौ. कचर्या पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
105	690/6	1.052	0.200	निर्मलाबाई उर्फ नानी पति कचर्या जाति पंवार सा. देह
106	775	0.045	0.045	चिमु दम्पू व. कुकडु रमेश तुम्मा दौलत व. लक्ष्मण भागरती हिरावती पिता लक्ष्मण पता सा. देह भूमि स्वामी
107	474/2	1.620	0.070	दच्चू व. लालजी जाति गोंड सा. देह
108	573/1	0.520	0.520	रघुनाथ पिता नत्थू पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी
	573/3	0.101	0.101	
109	573/2	0.621	0.621	मारोती व पंचम मेहरा पता सा. देह भूमि स्वामी
	548	1.121	1.050	
	550	2.403	0.570	
110	572/1/1	0.139	0.139	देवला बेवा फकिर्या सावन्या व. फकिर्या जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
111	572/1/2	0.139	0.139	सीता बेवा टिल्लू शिवानी पिता टिल्लू देवला बेवा फकिर्या जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
112	572/1/3	0.140	0.140	देवला बेवा फकिर्या कचरा बेवा फकिर्या जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी
113	572/2	0.405	0.110	फागू व. काल्या जाति पवार सा. देह भूमिस्वामी
114	541/1	1.517	0.750	फुन्दु व. किसनू जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी
115	547	1.136	0.040	नवसु व. रामचन्द्र गोंड सा. देह भूमिस्वामी
116	545	0.478	0.110	जागो बेवा सहागू समोता रामरती येनू पिता सहागू सुनीता बेवा जुग्गी गीतू बबीता जुग्गी राहुल ना.बा. वली मा सुनीता बेवा जुग्गी पता निवासी सा. देह भूमिस्वामी
117	514	1.283	0.065	आनंदराव परसू व डोमा मंगला बे मोहनसिंह सालक पालक व मोहनसिंह शंकर व मानिक ओझे बे मानिक जाति गोंड पता सा देह भूमि स्वामी

अ0क्र0	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
118	618/1	2.025	1.134	फगनु वल्द चिन्धू जने पिता चिन्धू जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी
119	618/2	2.023	0.820	सुरेन्द्र वल्द फगना जाति गोंड सा. देह
120	618/3	2.023	1.923	राजेश वल्द फगना जाति गोंड सा. देह
121	618/4	2.023	2.023	सुरेश वल्द फगना जाति गोंड सा. देह
	193	293.891	125.863	

(2) चूंकि वर्धा मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 25-अ-82-2017-18-मौजा मूसाखेड़ी-1620.-

घोषणा

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आठनेर	मूसाखेड़ी	19.652	निरगुड़ मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	सुभाष, महेश व. शिवप्रसाद, जाति तेली, पता नि. ग्राम, भू-स्वामी	230/2	3.971	0.141
2	सोनाजी पुत्र कालू, जाति कोरकू, पता नि. ग्राम, भू-स्वामी	231/3	0.607	0.461
3	मगरू बे. मंगलू, लच्छू, मंगर्या व. भूता, अर्जुन, राजू व. मंगल, अनिता राजू पिता मंगलू, जाति कोरकू, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	233	0.830	0.105
		234	0.097	0.097
		237	0.558	0.558
4	लच्छू व. भूता, मंगर्या बेवा भूता, जाति कोरकू, पता नि. ग्राम भू-स्वामी	235	2.129	2.129
		238	7.094	2.400
5	नारायण व. दाजिबा, जाति कुन्बी, सा. जावरा, भूमि स्वामी	256/1	0.914	0.914
6	वामनराव व. डोमा, मखु, सकु, सीता, कुसुम पिता डोमा, सिंधु बे. पांडुरंग, दुर्गादास व. पांडुरंग, संध्या, वनमाला पिता पांडुरंग, जाति कुन्बी, सा. जावरा, भूमि स्वामी	256/2	0.914	0.914

7	रामनाथ, हरिशचन्द्र व. यादोराव, पार्वती बे. शंकरराव, बुधराव, गुलाबराव, अशोक व. शंकरराव, तारा, मीरा पिता शंकरराव, कान्ता बे. युवराज, उज्ज्वल व. युवराज, सरिता, कविता, वन्दना, भावना, दीपिका पि. युवराज, जाति कुन्बी, सा. जावरा, भूमि स्वामी	256/3	0.913	0
8	वच्छला बे. नाथूराम, गणपतराव, मंगलमूर्ति व. नाथूराम, कमला, ईमला, मंगला पि. नाथूराम, जाति कुन्बी, सा. जावरा, भूमि स्वामी	256/4	0.913	0.913
9	दुर्गा बेवा शंकरराव, इट्ठोलराव व. पंजाबराव, अजाबराव, गुणवंतराव व. शंकरराव, ईठा, बुंदा, सुमन, गीता पिता शंकरराव, जाति कुन्बी, पता नि. जावरा, भू-स्वामी	258	0.724	0.724
10	तापीदास, वामनराव व. पांडुरंग, संगीता बेवा साहिबराव, आयुश, चंचल, ना.बा. पिता साहिबराव, वली मां संगीता, जाति कुन्बी, पता नि. जावरा, भू-स्वामी	260	0.950	0.950
		261	4.654	4.654
11	मु. फुन्दो बेवा लालसिंह, जाति गोंड, निवासी धामनगांव, भू-स्वामी	212	0.915	0.915
		210	0.028	0.028
		211	0.166	0.166
12	गोंदा, रत्ना पिता शिवराम तेली, सा. बोरपानी, कुंजीलाल व. सूरत, जाति गोंड, पता सा. देह भूमि-स्वामी	240	4.488	2.670
कुल योग :-		19	30.865	19.652

1. चूंकि निरगुड़ मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 22-अ-82-2017-18-मौजा खटगढ़-1623.-

घोषणा

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आठनेर	खटगढ़	0.600	निरगुड़ मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	रघुनाथ व. गणपत, सखाराम, भैया व. राजबा, बलदेव, आनंदराव, घनश्याम, पंकज पि. केशो, नखोली बे. केशो, मीरा, काशी, ऐनू, पिता केशो, गम्फू, महादेव, नत्थू व. रामराव, चिन्धी बेवा रामराव, तुलसी, मैना पि. रामराव, भगवत व. श्यामराव, तापी बेवा श्यामराव, सकु, माला, गीता, कविता, बबीता पि. श्यामराव, मिट्टु व. सोनाजी, संतोषराव व. सेवाराम, अजाबराव, पंजाबराव, किसनराव, बलवंतराव व. सीताराम, मैना बेवा सीताराम, कमला, ईठा पिता सीताराम, किसना, जगन्नाथ कुन्बी, मुकिन्दा, रामकृष्ण, बुधराव व. माधो भू-स्वामी, शांता बेवा माधो, सुसा, मखु पिता माधो, नामदेव व. विनायकराव, बेबी बेवा विनायकराव, हंसराज व. मानिकराव, बाया बेवा मानिकराव, साहेबराव, आनंदराव, पंढरी, नागोराव व. गंगाराम, मंजूरी पि. गंगाराम, रघुनाथ, वामनराव,	54	2.068	0.600

भभूतराव, नारायण व. तुलसीराम, गुजी बेवा तुलसीराम, सया, गया, गुंता पि. तुलसीराम, पांडुरंग, बुधराव, डोमा, गनपति, दादूराव, गुलाबराव, वामन, पुन्ज्या व. मारोती, राधिका बेवा मारोती, ईठा पि. मारोती, आशा बेवा रामू, सारिका जाति कुंबी, दिपीका, रीना पि. रामू, अंकित व. रामू, भीमराव, नीलकंठ व. गेन्दराव, गुंता बेवा देवराव, शांता, गुंता, आशा, गंगु, कौशल्या पि. गेंदराव जाति कुंबी भू-स्वामी।			
कुल योग :-	1	2.068	0.600

1. चूंकि निरगुड मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है

क्र. 23-अ-82-2017-18-निरगुड़-1628.-

घोषणा

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आठनेर	निरगुड़	5.273	निरगुड़ मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	नानकराम व. भैयालाल, बुधिया पिता भैयालाल, जमुना बेवा पतिराम, जाति कोरकू, पता सा. देह भू-स्वामी	130	0.829	0.100
		139	1.036	1.036
2	भूरा, शिकारी व. बीसराम, जाति कोरकू, पता सा. देह, भू-स्वामी	132	0.397	0.020
		133	0.340	0.072
		134	1.012	1.012
		136	0.143	0.143
		135	0.190	0.145
3	भगाया बे. सुकलु, छन्नू, मन्नू, गन्नू व. सुकलु, रुखमी पिता सुकलु, भगाय बेवा सुकलू, ओझा, चैतराम, चैतु व. सुकलु, ओझे, कैलो, ढांडी, खोदी, बुलकी पिता सुकलु, जाति कोरकू, पता सा. देह भूमिस्वामी	137	0.450	0.078
		140	1.631	1.631
4	गेन्दलाल व. हीराजी, जमुना बेवा मोतीराम, जाति कोरकू, पता सा. देह भूमिस्वामी	138	1.036	1.036
	कुल योग :-	10	7.064	5.273

1. चूंकि निरगुड़ मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 88-अ-82-2017-18-मौजा उहरगांव बैतूल-1631.-

घोषणा

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे०मे)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	उहरगांव	21.860	वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ०क्र०	खसरा नम्बर	रकबा हे० में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	8/1	11.461	0.630	टिट्टू व० गोविन्द, गुलाबराव, ढोण्डया वल्द फागू, ओझा व० रावा, धुन्ध्या व० मौजी जाति भोयर सा. देह
2	8/2	0.405	0.100	सुनन्दाबाई जौ रत्नाकर जैन सा. मुलताई
	8/3	3.641	0.130	
3	7/1	9.930	0.030	बाजी व. टटारी बारकया व. भाज्या दयारा व. किसन सुखराम भिकू व. भादू चैतराम शंकर व. लक्ष्मण सावन्या व. भावजी जाति पवार भूमिस्वामी कमला शांता पिता भावजी रैसूल बेवा भावजी पार्वती पिता लक्ष्मण रामचन्द्र विटठल महादेव नारायण जगदिश पिता गुलाबराव जाति पवार भूमिस्वामी
4	7/2	0.600	0.405	दिलिप कमलेश विजय व. भिकू जाति गायकी पता सा. हतनापुर भूमिस्वामी
5	12	9.518	0.220	मंगरया व० रोन्या, भूमिस्वामी दशरया व० साजूराम, पता भोयर भूमिस्वामी नान्ही बेवा जगन सुभाष राजू, रामा व० जगन उषा गुडडी रेखा पिता जगन जाति पवार सा. देह
6	14	0.271	0.140	नारायण व० दौलत भूमिस्वामी भारत व० दौलत, भूमिस्वामी श्यामा व० लोटन फकीर केवल व० केशो रखिया बेवा केशो ओझिन उर्फ पार्वती व० केशो पता नि. हतनापुर भूमिस्वामी

अ०क्र०	खसरा नम्बर	रकबा हे० में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
7	15/1	0.299	0.080	मौजी व० पुन्या तेजी व० पुन्या पवार पता सा० हतनापुर भूमिस्वामी
	15/8	1.720	0.090	
8	15/2	0.280	0.080	आनन्दराव राजू व० तुक्या भागा सोगा फूलवती नान्ही पिता तुक्या जाति पवार सा० हतनापुर भूमिस्वामी
	15/7	1.690	0.080	
9	15/6	1.790	0.080	केलाश व० सखा मुन्नी बेवा सखा कला कचरा रामरती भागवती निर्मला पिता सखा भोयर पता सा. हतनापुर
10	15/9	2.000	0.330	शंकर व० भिक्या चैली बेवा भिक्या सकी पार्वती सरस्वती पिता भिक्या पवार सा० हतनापुर
11	149/1	1.700	0.070	मलकु मंशू आशाराम व० कोहलू मंगली कमली अनिति पिता कोहलू झुनिया बेवा परस्या भागू बाबूलाल व० परस्या सरस्वती सुनिता नाबा व० परस्या वली मां झुनिया बेवा पारन्या पता सा० देह भूमिस्वामी
12	149/2	0.716	0.050	मंशाराम व० कोहलू पता सा. देह भूमिस्वामी
13	152	0.405	0.110	मंगरया व० अनन्तराम मेहरा पता सा० कोढर
	154	1.781	0.060	
14	153/1	0.779	0.779	सावन्या व० बाजी पता सा. चिचन्डा भूमिस्वामी
15	153/2	0.779	0.779	सुखराम व० बाजी भोयर पता सा. चिचन्डा भूमिस्वामी
16	153/3	0.779	0.200	गेंदलाल व० बाजी भोयर पता सा. चिचन्डा भूमिस्वामी
17	153/4	0.779	0.300	शिवराम व० बाजी भोयर पता सा. चिचन्डा भूमिस्वामी
18	153/5	0.779	0.320	प्यारेलाल व० बाजी भोयर पता सा. चिचन्डा भूमिस्वामी
19	153/6	0.780	0.130	सुंदरलाल व० बाजी भोयर पता सा. चिचन्डा भूमिस्वामी
20	153/7	0.750	0.250	ईशराम व० बाजी भोयर पता सा. चिचन्डा भूमिस्वामी
21	158/1	1.692	0.380	किशन व० नंदलाल जाति मेहरा भूमिस्वामी मुक्का व. नन्दलाल नत्थ्या माधो विरजलाल व० मोहन जयवती बेवा मोहन श्यामवती पिता मोहन भूमिस्वामी उमेदी बेवा झिंगू पता निवासी भूमिस्वामी
22	159/1	2.534	1.370	नाथूराम दौलतराव अजाबराव व० तुलसीराम भागवती पिता तुलसीराम सिता बेवा तुलसीराम भूमिस्वामी मौजी व० धनाराम भूमिस्वामी हरीराम किशोरी भाउराव व० ईमरत जाति पवार भूमिस्वामी उदया व० पन्ना कौशलया सरस्वती लक्ष्मी चंदा पिता पन्ना जाति पवार पता सा० हतनापुर भूमिस्वामी भैया पारन्या व घोडया रामचंद्र व० प्यारेलाल मेहरा सा० हतनापुर भूमिस्वामी

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
23	164	8.094	3.900	बिरजू व0 सकराजी भूमिस्वामी सुरजू व0 सकराजी खुशिया बेवा गंगाराम साहबी जौजे भूरा रामरतन रामचरण सुर्यभान व0 राजेराम भूमिस्वामी गोड पूर्णा गिरजा पिता राजेराम भूमिस्वामी
24	166	6.814	2.050	बिरजी तुरसा पिता गंगाराम रामरतन रामचरण सुर्यभान व0 राजेराम पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी मैना बेवा राजेराम पूर्णा पुरभा पिता राजेराम मागी जौजे रामू पता नि. ग्राम भूमिस्वामी रामचरण सुर्यभान रामरतन राजेराम गोड भूमिस्वामी
25	167/1	7.865	1.560	मंशा पुत्र रेवा जाति गोड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
26	167/2	7.865	1.110	सजू सुरजलाल व0 झरी, मेंदो बेवा झरी धुनसु साजूलाल व0 पंचम जैना रैना नाबा व. पंचम वली मां पाण्डे बेवा पंचम पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी
27	168/6	0.500	0.150	साजिया बेवा राजेरीव सारजा शांता झुला कमलती पिता बाजेराव
	170/16	0.300	0.300	पता सा0 देह
28	168/8	0.686	0.100	विजय संजय व0 भागेराम वन्दना पिता भागेराम कलाबाई बेवा भागेराम सुकी पिता जुगरू पता नि. ग्राम बघोली
	168/12	0.300	0.140	भूमिस्वामी
29	168/9	0.687	0.250	सुदामा गजानन्द व0 नान्हो गीता पिता नान्हो पता नि
	168/13	0.300	0.150	ग्राम सलाईडाना भूमिस्वामी
30	168/10	0.500	0.500	तेजीलाल व0 तुम्मड फुलवा नान्ही पिता तुम्मड सा0 देह
	170/14	1.279	0.060	भूमिस्वामी
	170/18	0.328	0.328	
31	168/11	0.500	0.180	झलकू व0 जोगी सा0 देह भूमिस्वामी
32	168/14	0.300	0.200	साजिया बेवा बाजेराव सारजा झुला कमलती पिता बाजेराव सन्तोष सुरेश व. लल्लू प्रियंका पिता लल्लू जाति सा. देह
33	168/15	0.150	0.150	रामदास व. तुम्मड फुलक नान्ही पिता तुम्मड सा.
	170/15	0.200	0.150	हतनापुर भूमिस्वामी
	170/17	0.300	0.300	
34	170/1	1.200	0.809	सालक सीताराम गणपती व. भोपाल जाति मेंहरा पता सा. कौंढर भूमिस्वामी सोमती व. भोपाल यशवंतराव व. इमरत, विमला बेवा इमरत अनीता सुनीता रजिना वन्दना करीना पिता इमरत भूमिस्वामी
35	170/2	1.583	0.080	रखिया दसिया व. भैया जाति मेहरा पता सा. पोहर भूमि स्वामी
36	170/10	0.160	0.080	साबू व. चिरौंजी मेहरा पता नि. कौंढर भूमि स्वामी

अ0क्र0	खसंरा नम्बर	रकबा हे0 में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
37	170/11	0.100	0.050	चिंतामन व. बाबू कौशलबाई बे बाबू गुन्ताबाइ पि बाबू मेहरा पता निवासी भूमि स्वामी
	172/2	1.800	0.170	
38	170/12	0.160	0.080	गोरे व. चिरोजी मेहरा पता नि. कोडर भूमि स्वामी
39	172/1	1.600	0.200	चांगो व. चिरोजी मेहरा पता निवासी कोडर भूमि स्वामी
40	172/5	0.251	0.150	रामप्यारी फूला व. चिरोजी जाति मेहरा पता निवासी कोडर भूमि स्वामी
41	205/2	0.607	0.130	सरवन व. रत्ती पता निवासी पारडसिंगा भूमि स्वामी
42	208	8.276	0.750	उषाबाई जो. बसंतकुमार पता निवासी इन्दौर भूमि स्वामी
43	209/1	1.741	0.080	कमलाबाई जो. गंगाराम पता नि. मुलताई भूमि स्वामी
44	209/2	1.736	0.080	किरण जो. अरविंद पता नि. मुलताई भूमि स्वामी
45	209/3	1.736	0.080	नमिता पिता गंगाराम पता नि. मुलताई भूमि स्वामी
46	209/4	1.736	0.080	चन्दा जो. विरेन्द्रकुमार पता नि. मुलताई भूमि स्वामी
47	209/6	1.736	0.270	भारती जो. अशोक पता नि. मुलताई भूमि स्वामी
योग	59	119.25	21.860	

(2) चूंकि वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्र.क्र. 87-अ-82-2017-18-मौजा कोंडर बैतूल-1634.-

घोषणा

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे०में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	कोंडर	8.695	वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ०क्र०	खसरा नम्बर	रकबा हे० में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	133/1	0.154	0.077	रामचरण व. सुक्कू जाति कलार सा. देह भूमि स्वामी
	2/1	1.315	0.500	
2	133/2	0.154	0.077	शिवचरण व. सुक्कू जाति कलार पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
3	2/2	0.329	0.329	पवन पिता शिवचरण कलार पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
	2/5	0.329	0.200	
4	2/3	0.329	0.200	धन कुमार पिता शिवचरण कलार पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
	2/4	0.328	0.200	
5	11/1	2.310	0.820	रामप्यारी बेवा आशाराम भंगू केशो संजय विजय प्रितम व. आशाराम सकुन पि आशाराम मेहरा पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
6	33	0.182	0.050	शिवलाल तुकाराम शिवचरण व सवाई मथरा पिता सवाई पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
7	11/2	1.766	0.970	बाबूलाल साबूलाल दशसर व. भूता कचरी जमना पिता भूता जाति मेहरा पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
8	46	0.170	0.170	देवो पिता रंगलाल सुक्कु बेवा रंगलाल मंजू पिता जियालाल दशरी पिता जियालाल चागों साबू गोरे व. चिरोंजी तेजी व. दशरथ गब्बू मेघराज व. पन्ना चिन्तामन व. बाबू गुन्ता सुनीता मीरा पिता बाबू कौशल बेवा बाबू पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
9	45	0.101	0.101	भाकरू व. किसन हिरचंद व. रगू पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
10	42/1	0.039	0.027	भंगी काजी व. सुकट्या कचरी पिता सुकट्या काशी पिता छितर्या पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
	57/3	2.534	0.190	
11	57/4	1.049	0.010	सूरत व. जिवत्या कमलिया सरस्वती पिता जिवत्या गुरजना बेवा प्रहलाद नामदेव कौमल नरसिंह व. प्रहलाद रजनी सीता पिता प्रहलाद पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
	57/5	0.437	0.040	
	42/3	0.037	0.027	
12	57/1	1.485	0.080	पंजाबराव श्रीराम पतिराम व. डेपल्या गिरजाबाई पिता डेपल्या लीला बेवा नानकराम आकाश व. नानकराम जाति मेहरा सा. देह भूमि स्वामी
	42/4	0.037	0.027	
13	42/2	0.074	0.035	रामरती बेवा देवराव मोहनलाल शिवदास संदीप व. देवराव ओमबल्ली पिता देवराव पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
	57/2	1.356	0.070	
14	47/1	0.267	0.267	गोरलाल व. दग्गू जाति तेली पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
15	47/2	0.267	0.233	नत्थ्या पिता शंकर इंदिरा पिता शंकर राजेश गोकुल पिता तलवगीर मुन्नी सुमन संगीता चंद्रगकला पिता तलवगीर जाति तेली पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
16	50/1	1.457	0.110	गब्बू मेघराज व. पन्ना जाति मेहरा पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
17	50/2	0.500	0.030	सुखनंदन व. पन्ना जाति मेहरा पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
18	51/2	0.289	0.090	संतोष व. सालक इमरती बेवा सालक तुलसी संतोषी पिता सालक जाति मेहरा पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
19	52	0.825	0.060	ढोढी पिता रंगलाल सुक्कु बे. रंगलाल मत्तू पिता जियालाल उसरी बे. जियालाल तेजी व. दशरथ पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
	56	0.247	0.080	
20	53/1	0.241	0.120	केहरू व. किशन सुशीला पिता किशन सा देह मुनी बे. किशन कुन्जी कल्लू व. बट्टन चिरोंजी व. बालकू जाति मेहरा पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
21	54/1	0.705	0.420	भूलाई जौ. भूरा तेली पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
	54/2	0.509	0.060	
22	55	0.202	0.090	केहरू व किशन पूनी बे. किशन सुरेन्द्र पूरन व. सूसू कुंजी व. बट्टन कल्लू व बट्टन मेहरा पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
23	278/1	1.153	0.070	पंचम मशू व. लालजी तोड़े व. लालजी मुसी व. बददू मथरा बे. चिक्कू येनू मंजू मीरा पिता चिक्कू मनोजी जौ हगरया काज्या व. भदी गोपू पांडु व. भावजी चैतराम चैतू जनीराम मनीराम व. सददू किशोर रामा व. बलीराम फुलवती बे. बलीराम पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
	278/5	2.303	0.175	
	278/7	1.269	0.070	
24	278/2	2.023	0.100	कैलाश प्रवीण व. विनोदी जाति कलार सा. मुलताई भूमि स्वामी
25	278/4	1.940	0.100	सुरेश पूरन चुन्नु व. पंचम सयवंती बे रमेश सायत्री बे भारत उर्मिला ललीता परमीला जाति गोंड पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
26	278/6	1.157	0.250	कला बे. सुन्दरलाल पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
27	278/9	2.000	0.430	मथरा बे. चिक्कू येनू मनु मीरा पिता चिक्कू पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
28	279/1	1.583	0.250	चैतू व. सददू पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
29	280/1	1.418	0.030	शिकारी बबलू विनोद व. अम्बू नवलबाई गोलोबाई नर्मदीबाई दुर्गाबाई पिता अम्बू जाति मेहरा पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
30	280/7	0.160	0.060	मुलस जौ. फुलन जाति मेहरा सा. देह भूमि स्वामी
31	280/3	0.446	0.030	भागवंती जौ बबलू जाति मेहरा सा. देह भूमि स्वामी
32	280/4	0.240	0.060	बाजीराव व. बिरजलाल जाति मेहरा सा. देह भूमि स्वामी
33	280/6	1.640	0.500	भंगी कांजी व. सुकटया कचरी पिता सुकटया मेहरा सा. देह भूमि स्वामी
34	281/1/1	0.317	0.100	जगन्नाथ कुंवर व. गोरख सा. देह भूमि स्वामी
35	281/1/2	0.317	0.100	शेषराव छुट्टन व. परमु सैवंती पिता परमु सा. देह भूमि स्वामी
36	281/2	0.240	0.100	पूरन सुखराम व. घुरु कमलिया बे. घुरु सीमा पिता घुरु पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
37	281/3	0.300	0.090	गोड़न जौ बसंत मेहरा पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में से	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
38	281/4	0.250	0.050	सकुनबाई जौ जगन्नाथ पता निवासी सा. देह भूमि स्वामी
39	282/1	1.155	0.110	सावन्या व. चुन्नी फुलवती पिता चुन्नी पता निवासी सा. देह भूमि
40	283/1	1.030	0.070	घुड़ा गोरा पिता किसन सा. देह
41	283/2	1.398	0.065	ग्यारसी बेवा बीरज बाजीराव व. बीरज सा. देह
42	283/3	1.031	0.060	गोंडा बेवा मुक्का कैलाश सुखदेव व. मुक्का लक्ष्मी भीमला हीरा निर्मला पिता मुक्का जाति मेहरा सा. देह
43	283/4	1.620	0.065	नत्थ्या व. मोहनलाल श्यामवती पिता मोहनलाल सा. देह
योग	55	45.014	8.695	

(2) चूंकि वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 24-अ-82-2017-18-टिपनापुर-1637.-

घोषणा

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आठनेर	टिपनापुर	1.546	निरगुड़ मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	रघुनाथ व. गनपत, सखाराम, भैया व. राजबा, बलदेव, आनंदराव, घनश्याम, पंकज पिता केशो, नखोली बे. केशो, मीरा, काशी, ऐनू, व0 केशो, गम्फु, महादेव, नत्थू व. रामराव, चिन्धी बे. रामराव, तुलसी, मैना पिता रामराव, भगवत व. श्यामराव, तापी बेवा श्यामराव, सकु, माला, गीता, कविता, बबीता पिता श्यामराव, मिट्टु व. सोनाजी, संतोषराव व. सेवाराम, अजाबराव, पंजाबराव, किसनराव, बलवंतराव व. सीताराम, मैना बे. सीताराम, कमला, ईठा पिता सीताराम, किसना जाति कुन्बी, जगन्नाथ व. मुकिन्दा, रामकृष्ण, बुधराव व. माधो, भू-स्वामी	2	0.429	0.429
2	जयवन्ती जौ. डोमा, जाति कुन्बी, पता सा. जावरा, भू-स्वामी	269	0.445	0.445

3	दुर्गाबाई जो. रघुनाथ, जाति कुन्बी, सा. जावरा, भू-स्वामी	270	0.506	0.506
4	बलदेव, सुधाकर व. महादेव, कुसुम, मीरा, कमला पिता महादेव, रघुनाथ, सुखदेव, व0 मिटठु, अम्बु, गंगु, सिन्धु, अनसुया पिता मिटठु जाति कुन्बी, पता सा. जावरा, भू-स्वामी	271	0.166	0.166
कुल योग :-		4	1.546	1.546

1. चूंकि निरगुड़ मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की उपरोक्तानुसार भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचि, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

विदिशा दिनांक 11 अक्टूबर 2019

पत्र.क्र.528-तक-82-बरखेड़ा हरगन-भू-अ-2018.-

क्रमांक /भूअर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2017-18 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में बरखेड़ा हरगन लघु सिंचाई योजना तहसील सिरोंज जिला विदिशा के ग्राम बरखेड़ा हरगन के लिये डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा - 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

बरखेड़ा हरगन लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रभावित भूमि

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा हे०
		कुल प्रभावित रकवा हे०
1	बरखेड़ा हरगन लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु डूब क्षेत्र के लिये ग्राम बरखेड़ा हरगन की भूमि की आवश्यकता	8.254 हे.
		8.254 हे.

अनुसूची (2)

बरखेड़ा हरगन लघु सिंचाई योजना के निर्माण से प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम बरखेड़ा हरगन

तहसील - सिरोंज

जिला - विदिशा

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता या पति का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)	खसरा नं.	रकवा हे. में	क्रय के लिये प्रस्तावित रकवा हे०
1	बुद्धा पु. गंगोला	2	2.39	2.39
2	अमान सिंह पु. मोकम सिंह	3/1	1.012	1.012
3	बुद्धा पु. गंगोला	3/2	0.392	0.392

4	दोजा रमेश पुत्रगण दमरूआ सुनिता बाई, कुंवर बाई पुत्रियां दमरूआ	5/1/1	1.71	1.714
5	अमान सिंह पु. मोकम सिंह	5/1/2	0.423	0.423
6	धीरज सिंह पु. मोकम सिंह	5/2/2	0.253	0.253
7	भारत सिंह पु. सुवाजी, सूदामा बाई पत्नि धीरज सिंह, मेहरबान सिंह पु. रतन सिंह	5/2/1	0.506	0.506.
8	अमान सिंह पु. मोकम सिंह	6	0.645	0.15
9	घांसीराम पु. लालकिशन	19/1	0.516	0.258
10	दोजा पु. दमरूआ	19/2	0.516	0.102
11	करतार सिंह पु. दलेल सिंह	19/5	0.516	0.136
12	बालाराम पु. सुक्का सिंह	19/6	0.517	0.136
13	बालोबाई पुत्री मर्दन	19/8	0.517	0.331
14	मेहरबान सिंह पु. रतन सिंह	19/12	0.517	0.211
15	धीरज सिंह पु. मोकम सिंह	19/13	0.517	0.24
		Total	-	8.254

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) विदिशा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक /भूअर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 0 /अ-82/2017-18 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में बरखेड़ा हरगन लघु सिंचाई योजना तहसील सिरोंज जिला विदिशा के ग्राम सगुनयाई के लिये नहर क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा - 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

बरखेड़ा हरगन लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रभावित भूमि

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०
		कुल प्रभावित रकबा हे०
1	बरखेड़ा हरगन लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु नहर क्षेत्र के लिये ग्राम सगुनयाई की भूमि की आवश्यकता	1.770 हे.
		1.770 हे.

अनुसूची (2)

बरखेड़ा हरगन लघु सिंचाई योजना के ग्राम सगुनयाई में नहर क्षेत्र हेतु प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम सगुनयाई

तहसील - सिरोंज

जिला - विदिशा

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता या पति का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)	खसरा नं.	रकबा हे. में	क्रय के लिये प्रस्तावित रकबा हे०
1	उजागर सिंह पु. उमराव सिंह	4	1.48	0.030
2	नरेन्द्र कुमार राजेन्द्र कुमार, अखलेश कुमार, आशीष कुमार, पुत्रगण गुलाबचंद शशि शिरोमणी अनिता पुत्रियां गुलाबचंद्र हंसा पत्नि रमेशचन्द्र रानु रवि पुत्रगण रमेश चन्द्र बुन्देल सिंह पु. दीव सिंह इमरत सिंह पु. दलसिंह	12	4.665	0.060
3	राजकुमार पु. कप्तानसिंह	13/1	0.44	0.072
4	बलबंत सिंह पु. कप्तान सिंह	13/2	0.344	0.048

5	सुमेरसिंह पु. लक्ष्मण सिंह	16/1	0.063	0.084
6	बलबंत सिंह पु. कप्तान सिंह	16/1/1	0.096	0.024
7	गीताबाई पत्नि सीताराम, कुमेशबाई पत्नि कुवरलाल	51	0.492	0.054
8	रामचरण पु. कप्तान सिंह	50./1	0.382	0.060
9	राजकुमार पु. कप्तानसिंह	50/2	0.423	0.048
10	वीरन पु. कप्तानसिंह	50/3	0.423	0.042
11	चैनसिंह पु. कप्तान सिंह	50/4	0.422	0.036
12	बलबंत सिंह पु. कप्तान सिंह	50/5	0.462	0.030
13	दातारी सिंह पु. मुल्लीसिंह	49/1	1.011	0.060
14	बाबूलाल पु. पर्वत सिंह	49/2	2.783	0.211
15	प्रेमसिंह मुकेश पु. राजाराम रबुदीबाई पुत्री राजाराम थान सिंह पु. काशीराम खलकसिंह पु. विशनसिंह कलाबाई पत्नि शिवराज बाबूलाल पु. पर्वतसिंह शैतानसिंह लक्ष्मणसिंह पुत्रगण काशीराम रामबाबू पु. जोतसिंह कुवरबाई पत्नि थानसिंह पार्वतीबाई पत्नि लक्ष्मणसिंह विमला बाई पत्नि शैतानसिंह रामबाबू पु. जोतसिंह वीरेन्द्र पु. बाबूलाल कल्याणसिंह माधोसिंह पुत्रगण लक्ष्मण सिंह विजय नाबा. पु. सरपिता जशवंतसिंह	93/1	1.284	0.030
16	रामबाबू पु. जोतसिंह	93/2/2	0.109	0.070
17	जसवंतसिंह, शिशुपाल पुत्रगण जोतसिंह बलवीर सिंह पु. महरबान सिंह	95/1/1	1.344	0.150
18	मोहनसिंह नाबा. पु. सरपिता भैयालाल	95/1/2	1.771	0.132
19	धूम पु. जयमा	95/1/3	0.885	0.084
20	लालाराम, भूरा, धुम पुत्रगण जैमा उर्फ किशनलाल	95/3	1.253	0.156
21	रूपसिंह पु. करनसिंह	95/4	0.253	0.036
22	गुमानसिंह पु. करनसिंह	95/2	1.759	0.253
		Total		1.770

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) विदिशा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला देवास मध्यप्रदेश
देवास दिनांक 13 फरवरी 2019

प्र.क्र.41-अ-82-2017-18-366-भू-अर्जन-2019.-

:: घोषणा ::

अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 क्र.30 सन् 2013

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में देवास बायपास मार्ग निर्माण एवं भू-अर्जन बाबद (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम बिलावली तहसील व जिला देवास के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि बायपास (बीओटी एवं एनयूटी) योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग उज्जैन	0.249	0.315	0.564

अनुसूची-2

देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम बिलावली की प्रभावित भूमि का विवरण :-

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	योग	सिंचित	असिंचित	योग
1	अनिता पति अरविन्द्र सरिता पति हरिश	126/2/1	—	0.059	0.059	—	0.043	0.043
		126/3/1	—	0.060	0.060			
2	श्याम पिता मंदरूप	126/1/मिन-4	0.028	—	0.028	0.032	—	0.032
		126/1/मिन-12	0.004	—	0.004			
3	संतोष पिता लक्ष्मण मीराबाई पिता रामलाल	126/1/मिन-11	—	0.009	0.009	—	0.003	0.003
4	छतरसिंह पिता गंगाराम	126 पैकी	—	0.014	0.014	—	0.004	0.004
5	सतीश पिता रघुवीरसिंह	126/1मिन-4/1/5	—	0.117	0.117	—	0.003	0.003
6	रामकुंवरबाई पति शंकरलाल	126/1/मिन-6	—	0.015	0.015	—	0.005	0.005
7	सतीश पिता रघुवीरसिंह	126/1/मिन-4/मिन-5	—	0.253	0.253	—	0.006	0.006
8	राधाबाई पति गंगाप्रसाद	126/1/मिन-5	—	0.014	0.014	—	0.004	0.004
9	सुमन कौर पति चंद्रपालसिंह कौर	126 पैकी	—	0.009	0.009	—	0.003	0.003
10	रघुनंदन पिता सालगराम	126/1/मिन-1/2	—	0.011	0.011	—	0.004	0.004
		126/1/मिन-1	—	0.010	0.010			
11	संतोष पिता अनुपसिंह	126/1/मिन-1/मिन-1/2	—	0.007	0.007	—	0.001	0.001
12	कैलाशचन्द्र पिता रामसिंह	126/1/मिन-1/मिन-1/1	—	0.006	0.006	—	0.001	0.001

13	माहिराबी पति हुसैन	126/1/मिन-4/1	-	0.014	0.014	-	0.005	0.005
14	सोहन पिता वासुदेव	126/1/मिन-4/मिन-1	0.007	-	0.007	0.002	-	0.002
15	अनिल पिता मदनसिंह	126/1/मिन-4/मिन-3	0.007	-	0.007	0.002	-	0.002
16	जवाहर पिता हिम्मतसिंह	126/1/मिन-3/मिन-1	0.216	-	0.216	0.030	-	0.030
17	कृष्णादेवी विधवा बहादुरसिंह अभयसिंह, सजनसिंह, नमिता पिता बहादुरसिंह राठौर	127/2/1	-	0.068	0.068	-	0.018	0.018
18	कस्तूरीबाई विधवा हजारीलाल	170/5/2/1	-	0.983	0.983	-	0.054	0.054
19	रंजीतसिंह पिता तिलकराम मोहन	170/5/2/मिन-3	1.020	-	1.020	0.181	-	0.181
20	विद्वम पुखराज पिता भूपेन्द्रसिंह	126/1/1/1/मिन-1/मिन-2	2.572	-	2.572	0.002	-	0.002
21	शंकर महादेव मंदिर प्रबंधक कलेक्टर महोदय देवास	49/1	-	2.877	2.877	-	0.161	0.161
	योग ग्राम बिलावली					0.249	0.315	0.564

प्र.क्र.43-अ-82-2017-18-373-भू-अर्जन-2019.-

:: घोषणा ::

अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार,
अधिनियम 2013 क्रं.30 सन् 2013

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में देवास बायपास मार्ग निर्माण एवं भू-अर्जन बाबद (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम कालूखेड़ी तहसील व जिला देवास के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची-2 में उल्लिखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि बायपास (बीओटी एवं एनयूटी) योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत सभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग उज्जैन	0.001	0.077	0.078

अनुसूची-2

देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम कालूखेड़ी की प्रभावित भूमि का विवरण :-

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	योग	सिंचित	असिंचित	योग
1	नानूराम पिता नारायण	415/367/3	0.405	-	0.405	0.001	-	0.001
2	सरोज पिता संजय अग्रवाल	368/5/3	-	0.060	0.060	-	0.038	0.038
3	राजेश पिता देवीलाल बारोड़ नि. ब्राह्मणखेडा	368/3/मिन-3	-	0.103	0.103	-	0.004	0.004
4	रेशमबाई पति बाबूलाल	368/3/मिन-2	-	0.052	0.052	-	0.003	0.003
5	नीना पति अजयकुमार जैन	368/3/मिन-1	-	0.086	0.086	-	0.007	0.007
6	रीना पति ओमप्रकाश	368/3	-	0.034	0.034	-	0.003	0.003
7	मनोहर पिता रामेश्वर	368/3/मिन-4	-	0.101	0.101	-	0.022	0.022
	योग ग्राम कालूखेड़ी					0.001	0.077	0.078

प्र.क्र.36-अ-82-2017-18-380-भू-अर्जन-2019.-

अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार,

अधिनियम 2013 क्रं.30 सन् 2013

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में देवास बायपास मार्ग निर्माण एवं भू-अर्जन बाबद (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम अनवटपुरा तहसील व जिला देवास के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि बायपास (बीओटी एवं एनयूटी) योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत सभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग उज्जैन	0.077	-	0.077

अनुसूची-2

देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम अनवटपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण :-

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जानेवाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	योग	सिंचित	असिंचित	योग
1	गफुरनबाई पति मंजूर अली जाति मुसलमान निवासी रसुलपुर	132, 133,135/1 पैकी	0.328	-	0.328	0.077	-	0.077
	योग ग्राम अनवटपुरा					0.077	-	0.077

प्र.क्र.40-अ-82-2017-18-394-भू-अर्जन-2019.-

**अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार,
अधिनियम 2013 क्र.30 सन् 2013**

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में देवास बायपास मार्ग निर्माण एवं भू-अर्जन बाबद (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम जेतपुरा तहसील व जिला देवास के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि बायपास (बीओटी एवं एनयूटी) योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग उज्जैन	0.191	0.038	0.229

अनुसूची-2

देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम जेतपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण :-

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जानेवाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	योग	सिंचित	असिंचित	योग
1	हुसैन पिता अब्बासअली	88/1/1	-	0.582	0.582	-	0.038	0.038
2	गणेशलाल पिता धन्नालाल पंजाबी	382/1/1	2.283	-	2.283	0.010	-	0.010
3	राजकुमारीदेवी पति धरमपाल	380/1/7	2.731	-	2.731	0.127	-	0.127
4	अमोल, अभिषेक पिता अशोक कुमार	380/2	1.214	-	1.214	0.054	-	0.054
	योग ग्राम जेतपुरा					0.191	0.038	0.229

प्र.क्र.39-अ-82-2017-18-415-भू-अर्जन-2019.-

**अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार,
अधिनियम 2013 क्रं.30 सन् 2013**

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में देवास बायपास मार्ग निर्माण एवं भू-अर्जन बाबद (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम देवास सीनियर तहसील व जिला देवास के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि बायपास (बीओटी एवं एनयूटी) योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग उज्जैन	0.188	0.037	0.225

अनुसूची-2

देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम देवास सीनियर की प्रभावित भूमि का विवरण -

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जानेवाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	योग	सिंचित	असिंचित	योग
1	मनोज पिता रावलदास, द्रोपतीदेवी पति हरिराम कुकरेजा, अनिता पति हरिश मंगलानी नि. इंदौर	385/2	0.753	-	0.753	0.020	-	0.020
		385/3	0.648	-	0.648	0.023	-	0.023
2	मुनवरबी पति शेख नुरुददीन	385/1/2	0.372	-	0.372	0.018	-	0.018
3	हनी डोरा पति सुनिल डोरा	385/1/1	0.129	-	0.129	0.008	-	0.008
		384/2	0.287	-	0.287	0.010	-	0.010
4	दिनेशसिंह पिता नारायणसिंह	384/1, 387/3	0.810	-	0.810	0.016	-	0.016
5	अशोकसिंह पिता नारायणसिंह	384/3, 387/4	0.809	-	0.809	0.016	-	0.016
6	नीरज पिता देवराज, अनुपम पिता जयराज, रोहित पिता सुमन, बाबू सोनी	382/2, 383/1	1.268	-	1.268	0.077	-	0.077
7	म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर	378	-	9.770	9.770	-	0.037	0.037
	योग ग्राम देवास सीनियर					0.188	0.037	0.225

प्र.क्र.37-अ-82-2017-18-387-भू-अर्जन-2019.-

**अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार,
अधिनियम 2013 क्रं.30 सन् 2013**

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में देवास बायपास मार्ग निर्माण एवं भू-अर्जन बाबद (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम रसुलपुर तहसील व जिला देवास के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि बायपास (बीओटी एवं एनयूटी) योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग उज्जैन	0.219	0.046	0.265

अनुसूची-2

देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम रसुलपुर की प्रभावित भूमि का विवरण:-

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जानेवाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	योग	सिंचित	असिंचित	योग
1	बशारत अली पिता फरजुन अली	194/2/1 पैकी	1.117	-	1.117	0.165	-	0.165
2	मंजीतसिंह पिता सरदार रामसिंह जाति सिकख निवासी इंदौर	196/2 पैकी	0.202	-	0.202	0.016	-	0.016
3	मोहम्मद रफिक, मोहम्मद मुजिब शाह पिता गफफार शाह जाति फकीर नि. 67, चूड़ी बाखल देवास	195/1/2, 196/1 पैकी	0.433	-	0.433	0.038	-	0.038
4	जरीनाबी पति मोहम्मद रफिक शाह जाति फकीर नि. 67 चूड़ी बाखल देवास	195/1/3, 196/1 पैकी	-	0.020	0.020	-	0.012	0.012
5	प्रकाशदास पिता घनश्याम दास, धरमदास पिता गोलोमल जाति सिंधी निवासी इंदौर	195/1/मिन-1/2पैकी,	-	0.038	0.038	-	0.024	0.024
		196/1/2/1 पैकी	-	0.076	0.076	-	0.010	0.010
	योग ग्राम रसुलपुर					0.219	0.046	0.265

प्र.क्र.38-अ-82-2017-18-401-भू-अर्जन-2019.-

**अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार,
अधिनियम 2013 क्रं. 30 सन् 2013**

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में देवास बायपास मार्ग निर्माण एवं भू-अर्जन बाबद (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम पालनगर तहसील व जिला देवास के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि बायपास (बीओटी एवं एनयूटी) योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग उज्जैन	1.645	0.015	1.660

अनुसूची-2

देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम पालनगर की प्रभावित भूमि का विवरण :-

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जानेवाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	योग	सिंचित	असिंचित	योग
1	राम पिता रमेश कामदार जाति खाती	124/3/1/2 पैकी	0.150	-	0.150	0.014	-	0.014
2	लीलाबाई पति धनश्याम कामदार	124/3/1/3 पैकी	0.494	-	0.494	0.045	-	0.045
3	सुगनबाई पति सिंगाराम खाती नि. डकाच्या तहसील सांवेर	124/3/1/1 पैकी	0.494	-	0.494	0.045	-	0.045
4	कांताबाई पति रमेश कामदार जाति खाती नि.ग्राम कांताबाई पति रमेश कामदार जाति खाती	125 पैकी	0.116	-	0.116	0.067	-	0.067
		125 पैकी	0.032	-	0.032	0.015	-	0.015
		127/1/1 पैकी	0.841	-	0.841	0.131	-	0.131
5	रामप्रसाद पिता रामरतन जाति खाती	130/1, 132/964/1 पैकी	0.853	-	0.853	0.165	-	0.165
		130/3 पैकी	0.664	-	0.664	0.204	-	0.204
		130/1, 132/964/1 पैकी	0.853	-	0.853	0.049	-	0.049
		132/964/1 पैकी	0.853	-	0.853	0.053	-	0.053
6	रमेश पिता सावंत कामदार जाति खाती	130/2/1 पैकी	0.587	-	0.587	0.068	-	0.068
		130/2/1 पैकी	0.587	-	0.587	0.107	-	0.107
		126/1/1, 162/2 पैकी	0.223	-	0.223	0.080	-	0.080
7	मोहनलाल पिता तुलसीराम ब्राम्हण	129/1/1 पैकी	0.009	-	0.009	0.009	-	0.009
8	अरविन्द पिता नारायण भाई पटेल निवासी स्नेहलता गंज इंदौर	131 पैकी	1.153	-	1.153	0.069	-	0.069
		133/2/2 पैकी	0.977	-	0.977	0.098	-	0.098

9	कपिल पिता श्रीराम, कल्पना पति निलेश जाति खाति नि.ग्राम	132/1/2/2, 132/1/6	-	0.015	0.015	-	0.015	0.015
10	कलावतीबाई पति तुलसीराम जाति ब्राम्हण नि. ग्राम	132/1/8, 132/1/9 पैकी	0.125	-	0.125	0.022	-	0.022
11	श्रवणकुमार पिता मदनलाल अग्रवाल	132/1/2/3 पैकी	0.169	-	0.169	0.082	-	0.082
		132/1/5/2 पैकी	0.241	-	0.241			
12	मनोहरलाल पिता जगन्नाथ, हंसूबाई विधवा जगन्नाथ जाति खाती नि.ग्राम	132/1/5 पैकी	0.878	-	0.878	0.043	-	0.043
13	खुशीराम पिता दयालदास रामचंदानी जाति सिंधी नि. आलापुरा इंदौर	132/964/2/2 पैकी	0.121	-	0.121	0.075	-	0.075
		130/2/3 पैकी	0.361	-	0.361	0.106	-	0.106
14	दिलीप पिता लक्ष्मणदास तलरजा सिंधी नि. सिविल लाईन देवास	129/1/2 पैकी	0.006	-	0.006	0.037	-	0.037
		129/3/1 पैकी	0.140	-	0.140			
		129/3/2 पैकी	0.160	-	0.160			
15	मधुबाई पति ईश्वरदास बैरागी, देवास	129/4 पैकी	0.059	-	0.059	0.039	-	0.039
16	रामचरण पिता कोदरसिंह खाती	214/2/4 पैकी	0.075	-	0.075	0.005	-	0.005
17	रणछोड पिता बदीलाल, रेशमबाई, सोरमबाई, ललिताबाई पिता बदीलाल जाति खाति	213/2/1 पैकी	1.369	-	1.369	0.017	-	0.017
योग ग्राम पालनगर						1.645	0.015	1.680

प्र.क्र.42-अ-82-2017-18-408-भू-अर्जन-2019-

अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार,
अधिनियम 2013 क्रं.30 सन् 2013

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में देवास बायपास मार्ग निर्माण एवं भू-अर्जन बाबद (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम ब्राम्हणखेड़ा तहसील व जिला देवास के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि बायपास (बीओटी एवं एनयूटी) योजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन संभाग उज्जैन	-	0.041	0.041

अनुसूची-2

देवास बायपास मार्ग निर्माण बी.ओ.टी. (टोल+एनयूटी) योजनांतर्गत ग्राम ब्राम्हणखेड़ा की प्रभावित भूमि का विवरण :-

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि		
			सिंचित	असिंचित	योग	सिंचित	असिंचित	योग
1	अरुण पिता विनायकराव ब्राम्हण निवासी देवास	2	-	2.533	2.533	-	0.041	0.041
योग ग्राम ब्राम्हणखेड़ा						-	0.041	0.041

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत पाण्डेय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 21 जनवरी 2019

प्र. क्र. 112-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य ग्राम मुराछ तहसील एवं अनुभाग पवई स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 09-06-17 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	मुराछ	निजी भूमि रकबा 3.630	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर नहर निर्माण कार्य ग्राम मुराछ.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 29 जनवरी 2019

क्र. 750-जि.भू.अर्जन.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	भूमि का विवरण		भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील- सिवनी रा.नि.मं.-भोमा	ग्राम खमरिया ब. नं.- प.ह.नं.-63	3.75	कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी.	खैरा वितरक नहर की मा. नं.-2, 3 एवं 4 के निर्माण हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलबारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 4 फरवरी 2019

प्र. क्र. 04-अ-82-वर्ष 2016-17.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम सुनहरा तहसील एवं अनुभाग पन्ना स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 27-10-2017 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	सुनहरा	निजी भूमि रकबा 14.008	उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम सुनहरा.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-वर्ष 2016-17.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम जनकपुर तहसील एवं अनुभाग पन्ना स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 27-10-2017 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका. अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका

क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	जनकपुर	निजी भूमि रकबा 3.631	उपमुख्य अभियंता नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ग्राम जनकपुर.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 2 फरवरी 2019

क्र. भू-अर्जन-2018-19-5.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	नेवसा प. ह. नं. 34	1.19	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजना बाईं तट अंतर्गत उप नहर निर्माण हेतु.
योग . .			1.19		

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in, पर देखी जा सकती है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2018-19-6.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा

(1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
मण्डला	घुघरी	धनगांव प. ह. नं. 40.	0.52	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजना बाईं तट अंतर्गत उप नहर निर्माण हेतु.	
योग . .			0.52			

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर देखी जा सकती है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2018-19-7.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
मण्डला	घुघरी	जुनवानी प. ह. नं. 40.	2.27	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला.	हालोन सिंचाई परियोजना बाईं तट अंतर्गत उप नहर निर्माण हेतु.	
योग . .			2.27			

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर देखी जा सकती है.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश चन्द्र जटिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 फरवरी 2019

क्र. 133-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि क्यौटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवाँ	करौंदा	1.710	कार्यपालन यंत्री, क्यौटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत तिवनी माइनर नं. 1 के करौंदा सबमाइनर आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 135-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी बहुती मुख्य नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वितरण जिला				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बदवार-416	0.100	कार्यपालन यंत्री, क्यौटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बहुती मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

क्र. 137-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा

(1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवाँ	गोंदरी नं. 6	0.170	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्यौंटी मुख्य नहर की पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं. 3 के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 139-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि क्यौंटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवाँ	गोंदरी नं. 2	0.655	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्यौंटी मुख्य नहर की पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं. 3 के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 141-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के

खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि क्योटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगवाँ	(3) गोंदरी नं. 1	(4) 2.364	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योटी मुख्य नहर की पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं. 3 के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 143-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि क्योटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस और कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) मनगवाँ	(3) जोड़ौरी	(4) 0.576	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत नेबूहा वितरक नहर की उपशाखा नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 145-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत

करता हूँ. चूंकि क्योटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस और कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवाँ	तिवनी	4.680	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के पिपरवार वितरक नहर के अंतर्गत तिवनी माइनर नं. 1 एवं 2 की सबमाइनर तथा तिवनी माइनर नं. 3 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 147-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि क्योटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस और कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवाँ	महमूदपुर	4.034	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्योटी मुख्य नहर की पिपरवार वितरक नहर की महमूदपुर माइनर नं. 3 के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 149-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11

की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि क्योटी नहर संभाग के अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहरों का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस और कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) रायपुर कर्चुलियान	(3) उकठा उर्फ कंचनपुर.	(4) 1.340	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत नेबूहा वितरक नहर की उपशाखा नहर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 6 फरवरी 2019

क्र. 155-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है इस और कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) गुहिया	(4) 4.752	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना की गुहिया माइनर एवं सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. 743-भू-अर्जन-2019-प्र. क्र. 0001-अ-82-वर्ष 2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक कार्यालय उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नैनपुर (मध्यप्रदेश) विभाग द्वारा गोंदिया-नैनपुर-जबलपुर ब्राडगेज परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	बालाघाट	पाद्रीगंज प.ह.नं. 01	निजी भूमि रकबा 0.173	कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण-पूर्व मध्य रेल्वे नैनपुर (म. प्र.).	गोंदिया-नैनपुर-जबलपुर ब्राडगेज परिवर्तन.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड dmbalaghat@nic.in एवं मध्यप्रदेश राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित भूमि की नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण-पूर्व मध्य रेल्वे नैनपुर म. प्र. में देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 फरवरी 2019

क्र. 55-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उपधारा बी एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 12-5-2014-सात-शा.2ए, भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2014 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत एवं अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि के अर्जन की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	सिलपरा	4.913 हेक्टेयर (निजी भूमि 2.816 है.) एवं शासकीय भूमि 2.097 हे.)	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र.-1, रीवा (म. प्र.)	रीवा लिंक रोड के नव निर्माण हेतु प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति के परिपालन में.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 56-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उपधारा बी एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 12-5-2014-सात-शा.2ए, भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2014 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत एवं अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि के अर्जन की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	भटलो	4.208 हेक्टेयर हे.) (निजी भूमि 3.958 हे.) एवं शासकीय भूमि 0.250 हे.)	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र.-1, रीवा (म. प्र.)	रीवा लिंक रोड के नव निर्माण हेतु प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति के परिपालन में.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर एवं समुचित
सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 11 जनवरी 2019

प्र. क्र. 05-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—आतरी
(घ) क्षेत्रफल—0.052 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1547/4क	0.052
योग . . .	<u>0.052</u>

(2) प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की एचएचएलसी के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 29 जनवरी 2019

क्र. भू-अर्जन-747-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—तिघरा, ब.ह.नं.-258, प.ह.नं.-101
रा.नि.म.सिवनी भाग-2

(घ) अर्जित किये जाने वाला— 4.020 हेक्टेयर. एवं
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित क्षेत्रफल पर
आने वाली संपत्तियां.

खसरा (1)	रकबा (हे. में) (2)
-------------	-----------------------

निजी भूमि का रकबा

259/2	0.150
259/1	0.570
252/1	0.240
100	1.210
95	0.160
104	0.030
94	0.060
88/1	0.030
88/2	0.110
88/3	0.120
88/5	0.020
88/6	0.060
93	0.200
89	0.010
90	0.350
91	0.210
83	0.490

योग (निजी भूमि) . . . 4.020

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(1)	(2)
314	0.57
311	0.03

योग . . . 1.65

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरक एवं माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 748-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

क्र. 749-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खिरखिरी ब. नं.-115, प.ह.नं.-44 रा. नि. मं. भोमा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा 1.65 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

खसरा	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
निजी भूमि का रकबा	
357/2	0.20
335	0.27
343	0.12
312	0.01
357/1	0.35
344	0.01
337	0.08
313	0.01

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-बंडोल.
(ग) नगर/ग्राम—परासिया, ब. नं.-174, प.ह.नं.-28
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा 9.960 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

खसरा	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
निजी भूमि का रकबा	
404	0.440
403/2	0.270

(1)	(2)	(1)	(2)
403/4	0.270	211	0.500
392	0.040	210	0.110
403/3	0.010	12/6	0.020
394/1	0.050	207	0.210
394/2	0.050	206	0.050
394/3	0.050	205	0.020
396	0.120	204	0.040
397	0.010	203/1	0.030
346/2	0.080	36/2	0.010
346/1	0.250	203/2	0.030
399	0.010	201/1	0.030
420/1	0.150	201/2	0.030
420/3	0.170	200	0.020
420/2	0.120	199	0.010
421	0.050	34/3	0.040
439/1	0.090	34/2	0.110
439/2	0.080	34/1	0.170
439/3	0.080	36/1	0.260
441	0.280	168/2	0.070
445/3	0.280	157/7	0.170
505	0.020	167/1	0.530
436/1	0.020	156	0.210
514/1	0.040	157/1	0.020
506	0.600	157/6	0.160
497	0.360	157/5	0.080
391/3	0.150	157/4	0.090
391/2	0.100	157/3	0.120
386/1	0.020	157/2	0.110
388/1	0.090	91	0.290
387/1	0.070	50/2	0.060
387/2	0.250	50/1	0.040
379	0.170	51	0.490
380	0.040		
378/1	0.220		
220	0.060		
219	0.030		
213	0.490		
212/1	0.150		
		योग . . .	9.960

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरक नहर एवं माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है।

क्र. 751-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं हैं। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-बंडोल.
(ग) नगर/ग्राम—भोगाखेड़ा, ब. नं.-463, प.ह.नं.-36
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा 4.260 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

खसरा	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
निजी भूमि का रकबा	
437	0.080
438	0.250
441	0.290
442	0.290
421/2	0.060
421/3	0.170
423/4	0.010
423/3	0.170
423/2	0.190
423/1	0.010
234/2	0.210
234/4	0.010
234/5	0.080
232	0.150
176	0.030
137/1	0.220
136/2	0.040

(1)	(2)
136/1	0.260
135	0.130
134	0.060
241/3	0.020
242	0.100
243	0.420
244/1	0.060
244/2	0.120
245	0.060
246	0.170
247	0.150
248	0.450

योग . . . 4.260

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरक नहर के निर्माण हेतु।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है।

क्र. 753-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं हैं। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी भाग-2

(ग)	नगर/ग्राम—नरेला, ब. नं.-303, प.ह.नं.-100	(1)	(2)
(घ)	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा 10.450 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	232/1	0.310
		518	0.280
		517/1	0.100
खसरा	रकबा (हे. में)	517/2	0.030
(1)	(2)	517/3	0.070
	निजी भूमि का रकबा	515	0.260
358/2	0.540	516	0.390
358/3	0.010	519/2	0.310
352/1	0.540	519/1	0.150
358/1	0.780	512	0.010
355	0.220	513/4-5	0.380
354/1/1	0.270	513/7	0.510
354/1/2	0.200	532	0.010
354/5	0.340	529	0.260
352/2	0.230	523/2	0.280
352/3	0.280	527	0.320
343	0.450	578/3	0.030
296/1-2	0.750		योग . . . 10.450
392/2	0.060		
392/1	0.800	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
285	0.020	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
393	0.130	(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.
263	0.060		
260	0.010		
255	0.020		
117/4	0.010		
117/3	0.050		
119/3	0.170		
257/1	0.010		
240	0.030		
244	0.010		
241/1	0.150		
241/2	0.150		
118	0.010		
237	0.360		
238	0.010		
146/3	0.010		
232/2	0.070		

क्र. 754-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं

हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-बंडोल.
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—टोलापिरिया, ब. नं.-234, प.ह.नं.-30
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा 0.040 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

खसरा (1)	रकबा (हे. में) (2)
निजी भूमि का रकबा	
2/1	0.040
योग . . .	
	0.040

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 755-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी भाग-2
(ग) नगर/ग्राम—नेरेला, ब. नं.-303, प.ह.नं.-100
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा 2.510 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

खसरा (1)	रकबा (हे. में) (2)
निजी भूमि का रकबा	
578/3	0.210
205/1	0.110
205/2	0.090
204/1	0.150
204/2	0.090
207/4	0.210
571/10	0.420
571/9	0.020
571/1	0.280
571/5	0.080
565/2	0.160
565/1	0.080
580/5	0.050
552/1	0.040
552/16	0.030
552/2	0.380
563	0.110
योग . . .	
	2.510

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.	(1) 94/1 93 91	(2) 0.33 0.14 0.11
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.	88/1 90 87/1 85/2 85/3 85/4 83 12/4 14/1 9 24/1 11/2 6/1/1 6/1/2 6/2 1	0.57 0.05 0.16 0.10 0.23 0.29 0.28 0.32 0.19 0.02 0.01 0.04 0.23 0.17 0.03 0.36
क्र. 756-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		योग . . 6.63

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-बंडोल.
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—कुकलाह, ब. नं.-69, प.ह.नं.-30
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा 6.63 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

खसरा	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
निजी भूमि का रकबा	
119	0.74
117/2	0.33
116	0.60
114/2	0.28
114/3	0.26
114/6	0.01
97/3	0.23
97/5	0.05
95/1	0.15
96/1	0.35

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 757-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर

और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-बंडोल.
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—बिहिरिया, ब. नं.-417, प.ह.नं.-38
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा 5.120 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

खसरा (1)	रकबा (हे. में) (2)
निजी भूमि का रकबा	
225/1	0.120
225/2	0.050
225/3	0.380
224	0.130
222/2	0.110
215/2	0.050
218/3	0.090
215/1	0.150
218/6	0.120
216	0.170
217	0.220
88	0.620
86/4	0.480
57	0.440
85/1	0.360
80/2	0.160
81/6	0.010
80/1	0.270
59	0.020
55/6	0.350
55/1	0.200
51/3	0.220
51/1	0.400
योग . . .5.120	

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 758-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन.—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-बंडोल.
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—गरठिया, ब. नं.-127, प.ह.नं.-32
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा 4.490 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

खसरा (1)	रकबा (हे. में) (2)
निजी भूमि का रकबा	
298/6	0.050
297/7	0.070
139/4	0.140
297/5	0.200
297/1	0.010
297/3	0.010
290/2	0.020
143/2	0.150
288	0.050
286	0.190

(1)	(2)
287	0.380
260/1	0.010
260/5	0.050
143/1	0.200
143/3	0.070
251	0.330
138	0.010
112/10	0.190
112/4	0.190
107/4	0.180
107/5	0.080
107/3	0.280
107/2	0.540
107/1	0.450
94/2	0.270
94/1	0.150
90/2	0.210
81	0.010

योग . 4.490

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 वितरक एवं माईनर नहर के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 759-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर

और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन.—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.—सिवनी भाग-2
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—सिमरिया, ब. नं.—567, प.हं.नं.—99
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा 1.24 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

खसरा	रकबा (हे. में)
(1)	(2)

निजी भूमि का रकबा

74/3	0.10
73	0.12
86	0.05
88/1	0.17
89/1	0.15
89/2	0.07
89/3	0.06
100	0.04
101	0.05
102	0.01
103	0.10
104/5	0.10
104/2	0.15
104/3	0.07

योग . 1.24

- (2) 'अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 760-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी भाग-1
(ग) नगरग्राम—ग्राम—कोहका, ब. नं.-583, प.ह.नं.-119
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा 0.070 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
निजी भूमि का रकबा	
232/8	0.070
योग	<u>0.070</u>

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 761-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-भोमा
(ग) नगरग्राम—ग्राम—बेलखेड़ी, ब. नं.-436, प.ह.नं.-44
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा 2.920 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
निजी भूमि का रकबा	
181	0.080
22	0.330
21/2	0.220
20	0.100
15/1	0.010
15/2	0.040
19/2	0.010
16	0.210
18	0.120
17	0.060
65	0.100
60/1	0.060
60/2	0.160
70	0.260
72	0.200
98	0.120
108	0.250
107	0.260
110	0.250
106	0.080
योग	<u>2.920</u>

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	(1) 47 51 48	(2) 0.05 0.15 0.14
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.	45/1 45/3 43 42 41	0.22 0.18 0.18 0.34 0.22
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.	26/2 18 17/1 19 166/1 166/2 10/1 169/1 10/2 12/2 246 247 245 241 244 236/1 234 233 232	0.58 0.17 0.16 0.49 0.36 0.01 0.10 0.16 0.18 0.05 0.04 0.05 0.03 0.04 0.08 0.21 0.15 0.52 0.23
क्र. 762-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं हैं. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	231/1 229 223/1, 223/2 208 194/2 183	0.03 0.55 0.05 0.40 0.17 0.19
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—सिवनी	231/1	0.03
(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-बंडोल	229	0.55
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—राहीवाड़ा, ब. नं.-519, प.ह.नं.-31	223/1, 223/2	0.05
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा 7.93 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	208 194/2 183	0.40 0.17 0.19
		योग . 7.93

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
निजी भूमि का रकबा	
56/2, 57/1, 58/2	0.85
57/2	0.07
58/1	0.01
59/1	0.33
59/2	0.19

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है।

क्र. 763-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं हैं। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-बंडोल
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—जमुनिया, ब. नं.-199, प.ह.नं.-38
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा 2.140 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
निजी भूमि का रकबा	
170/2	0.400
170/6	0.270
170/3	0.270
170/5	0.130
170/4	0.100
170/1	0.080
171/4	0.070
171/5	0.360
171/3	0.030
171/1	0.430
योग . . 2.140	

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है।

क्र. 764-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं हैं। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-बंडोल
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—चोरगरठिया, ब. नं.-179, प.ह.नं.-36.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा 6.650 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
निजी भूमि का रकबा	
41/7/3	0.210
41/2	0.180
41/7/1	0.290
41/7/2	0.120
41/11/2	0.110
41/11/1	0.060
46/2	0.010
46/1/1	0.070
46/7	0.030

(1)	(2)
46/5	0.070
38	0.330
37/2	0.250
28	0.360
29/1-2	0.010
27/1	0.090
27/3	0.080
27/2	0.090
24/1	0.340
18	0.150
17/1	0.100
17/2	0.190
16	0.080
15	0.010
88/2	0.180
85/5	0.390
85/4	0.030
87/2	0.440
107/1	0.130
66/1	0.170
59/2	0.300
61/2	0.150
61/1	0.380
62	0.020
49/1/1	0.420
60/2	0.010
60/1	0.200
53	0.060
51	0.070
49/2/1	0.060
52/1	0.370
50/2	0.040
योग	<u>6.650</u>

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-3 एवं डी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 765-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये इस प्रकरण में, अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
 (ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी भाग-2
 (ग) नगर/ग्राम—ढेकी, ब. नं.-254,
 प.ह.नं.-102.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा 6.820 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
निजी भूमि का रकबा	
152	0.550
3	0.110
145	0.140
146/1	0.010
150	0.240
174/2, 175/4,	0.220
176, 267/2	
175/2	0.190
252/4	0.010
252/3	0.390
177/2	0.010
177/1	0.010
254	0.100

(1)	(2)
252/2	0.190
251	0.200
250/4	0.020
255	0.310
208/3	0.030
248/2, 249	0.010
247	0.200
243	0.200
219	0.140
244	0.120
218	0.020
238/5	0.230
222	0.060
221	0.030
220	0.200
214	0.140
210	0.330
208/1	0.280
208/2	0.220
207/3	0.190
195	0.010
194	0.130
196/1	0.020
193	0.370
117	0.010
199	0.030
17	0.170
14/2	0.250
14/3	0.010
13/3	0.010
9/2	0.020
12	0.550
2	0.140

योग . . .6.820

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरक नहर के निर्माण हेतु. निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रवीणसिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 4 फरवरी 2019

प्र. क्र. 47-अ-82-वर्ष-2017-18.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—शाहनगर
(ग) ग्राम—झिरमिला करियापानी
(घ) क्षेत्रफल—3.52 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
450	0.05	निजी भूमि
452	0.06	निजी भूमि
453	0.02	निजी भूमि
474	0.01	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
473	0.03	निजी भूमि	1324	0.06	निजी भूमि
475	0.02	निजी भूमि	1332	0.03	निजी भूमि
454	0.03	निजी भूमि	1333	0.03	निजी भूमि
476	0.01	निजी भूमि	1334/1	0.01	निजी भूमि
460	0.09	निजी भूमि	1339	0.01	निजी भूमि
491	0.03	निजी भूमि	1353	0.02	निजी भूमि
492	0.02	निजी भूमि	1357	0.02	निजी भूमि
493	0.08	निजी भूमि	1390	0.03	निजी भूमि
582	0.18	निजी भूमि	1391	0.02	निजी भूमि
583	0.10	निजी भूमि	1401/1	0.02	निजी भूमि
586	0.04	निजी भूमि	1383	0.02	निजी भूमि
593	0.06	निजी भूमि	1402	0.02	निजी भूमि
594	0.01	निजी भूमि	1403	0.01	निजी भूमि
639/2	0.02	निजी भूमि	1404	0.04	निजी भूमि
726	0.03	निजी भूमि	1408	0.04	निजी भूमि
727	0.01	निजी भूमि	1493	0.05	निजी भूमि
736/1	0.02	निजी भूमि	1530	0.02	निजी भूमि
738/1	0.03	निजी भूमि	1774	0.03	निजी भूमि
749/1	0.04	निजी भूमि	1415	0.03	निजी भूमि
752/1	0.07	निजी भूमि	1409	0.02	निजी भूमि
639/2	0.16	निजी भूमि	1410	0.03	निजी भूमि
738/2	0.04	निजी भूमि	1414	0.02	निजी भूमि
749/2	0.03	निजी भूमि	1533	0.01	निजी भूमि
752/2	0.08	निजी भूमि	1802	0.01	निजी भूमि
774	0.03	निजी भूमि	1557	0.01	निजी भूमि
738	0.02	निजी भूमि	1620	0.02	निजी भूमि
784	0.30	निजी भूमि	1618	0.12	निजी भूमि
785	0.01	निजी भूमि	185	0.06	निजी भूमि
775/1	0.02	निजी भूमि	782	0.04	निजी भूमि
775/2	0.02	निजी भूमि	777/1	0.09	निजी भूमि
1492	0.05	निजी भूमि	778/1	0.07	निजी भूमि
1310	0.01	निजी भूमि	1320	0.01	निजी भूमि
1311	0.08	निजी भूमि	1356/1	0.01	निजी भूमि
1321	0.01	निजी भूमि	1752/2	0.04	निजी भूमि
1319	0.07	निजी भूमि	1753/3	0.02	निजी भूमि
1318	0.01	निजी भूमि	1356/2	0.06	निजी भूमि
1386	0.01	निजी भूमि	1595	0.05	निजी भूमि
1385	0.03	निजी भूमि	1597	0.01	निजी भूमि
1322	0.02	निजी भूमि	1708	0.07	निजी भूमि
1323	0.04	निजी भूमि	1721	0.03	निजी भूमि
1355/3	0.03	निजी भूमि	1722	0.02	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
585	0.01	निजी भूमि	1180	0.13	निजी भूमि
1346	0.05	निजी भूमि	1211	0.04	निजी भूमि
योग :	<u>3.52</u>		1184	0.02	निजी भूमि
			1187/2	0.02	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इमलिया तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.			1169	0.03	निजी भूमि
			1171	0.03	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.			1164	0.01	निजी भूमि
			1161	0.03	निजी भूमि
			1162	0.01	निजी भूमि
			716	0.01	निजी भूमि
प्र. क्र. 48-अ-82-वर्ष-2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—			1163	0.04	निजी भूमि
			1218	0.03	निजी भूमि
			1158	0.005	निजी भूमि
			1159	0.005	निजी भूमि
			1151	0.02	निजी भूमि
			1146	0.01	निजी भूमि
			1147	0.03	निजी भूमि
			1148/1	0.02	निजी भूमि
			1120	0.01	निजी भूमि
			1118	0.06	निजी भूमि
			1114	0.01	निजी भूमि
			1121	0.02	निजी भूमि
			1210	0.02	निजी भूमि
			1219	0.02	निजी भूमि
			1220	0.01	निजी भूमि
			1227	0.03	निजी भूमि
			1217	0.01	निजी भूमि
			1225	0.03	निजी भूमि
			1226	0.04	निजी भूमि
			727	0.01	निजी भूमि
			714	0.02	निजी भूमि
			725	0.03	निजी भूमि
			1173	0.01	निजी भूमि
			715	0.02	निजी भूमि
			684	0.01	निजी भूमि
			560	0.03	निजी भूमि
			686	0.03	निजी भूमि
			713	0.05	निजी भूमि
			606/2	0.02	निजी भूमि
			709	0.04	निजी भूमि
			711	0.02	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार			
(1)	(2)	(3)			
2079	0.11	निजी भूमि			
2080	0.02	निजी भूमि			
1186	0.03	निजी भूमि			
2076	0.05	निजी भूमि			
1179	0.03	निजी भूमि			
1185	0.05	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
712	0.02	निजी भूमि	1212	0.07	निजी भूमि
605	0.01	निजी भूमि	1205	0.005	निजी भूमि
708	0.04	निजी भूमि	1213	0.03	निजी भूमि
707	0.04	निजी भूमि	683	0.09	निजी भूमि
692	0.08	निजी भूमि	552	0.02	निजी भूमि
693	0.02	निजी भूमि	1209	0.03	निजी भूमि
556	0.04	निजी भूमि	295	0.01	निजी भूमि
229	0.04	निजी भूमि	214	0.05	निजी भूमि
125	0.04	निजी भूमि	647	0.03	निजी भूमि
126	0.04	निजी भूमि	1148/2	0.005	निजी भूमि
625	0.01	निजी भूमि	622	0.01	निजी भूमि
626	0.005	निजी भूमि	646	0.07	निजी भूमि
623	0.09	निजी भूमि			
627	0.08	निजी भूमि			
604	0.09	निजी भूमि			
628	0.01	निजी भूमि			
296	0.02	निजी भूमि			
553	0.02	निजी भूमि			
554	0.06	निजी भूमि			
555	0.07	निजी भूमि			
1141	0.01	निजी भूमि			
293	0.05	निजी भूमि			
297	0.04	निजी भूमि			
228	0.05	निजी भूमि			
225	0.07	निजी भूमि			
226	0.005	निजी भूमि			
694/1	0.005	निजी भूमि			
694/2	0.01	निजी भूमि			
606/1	0.02	निजी भूमि			
606/3	0.02	निजी भूमि			
252	0.07	निजी भूमि			
253	0.03	निजी भूमि			
254	0.06	निजी भूमि			
255	0.05	निजी भूमि			
290	0.08	निजी भूमि			
294	0.04	निजी भूमि			
1140	0.04	निजी भूमि			
1172/1/क	0.02	निजी भूमि			
1172/1/ख	0.01	निजी भूमि			
1172/2	0.02	निजी भूमि			
1206	0.01	निजी भूमि			

योग : 3.285

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इमलिया तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 11 फरवरी 2019

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 17 अ-82-2017-18-982.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर

(ग) ग्राम—मढ़ा		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—59.506 हेक्टर डूब क्षेत्र.		71	0.178
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	72	0.275
(1)	(2)	74	0.125
		69/1/क	1.964
2/1	0.083	69/1/ख	1.900
5/1	0.167	39/2	0.809
109/1/ख/1	0.028	39/338	0.080
2/2	0.083	40	0.024
5/2	0.167	93/342	0.061
109/1/ख/2	0.028	41/2	1.731
2/3	0.083	52/1	0.022
5/3	0.167	109/1/क	0.085
109/1/ख/3	0.028	52/2	0.101
2/4	0.083	53/2	0.507
5/4	0.167	54/1/घ	0.202
109/1/ख/4	0.029	54/1/क/1	0.131
4	0.600	46/3	0.097
8	0.065	202/3	0.089
9/1/ख	0.307	54/1/क/2	0.117
9/2	0.101	54/1/क/3	0.117
31/2	0.607	54/1/क/4	0.244
41/3	0.508	84	0.295
51/2	0.405	202/4	0.016
29/2	0.809	203	0.024
32	0.219	204/2	0.247
33	0.506	54/1/ख	0.405
35	0.370	54/1/ग	1.140
93	0.146	122	0.239
105	0.198	124	0.020
37	0.380	186	0.255
64	0.352	54/2	0.305
78/1	0.405	87	0.166
66/1	0.204	90	0.182
184	0.263	91/1	0.141
202/1	0.085	91/2	0.073
66/2	0.205	91/3	0.069
202/2	0.085	94	0.356
67	0.154	95	0.020
		96	0.429

(1)	(2)	(1)	(2)
97	0.012	227/2	0.061
98	0.344	131	1.161
99	0.065	132	0.918
100	0.239	133	0.413
102	0.214	134	0.073
56	0.328	135	0.332
57	0.049	69/2	0.607
59	0.239	69/3	0.506
54/3	0.305	89	0.393
55	0.198	89/336	0.073
68	0.109	70	0.322
101	0.190	73	0.380
58/1	0.809	76	0.445
58/2	0.316	77	0.049
181	0.178	78/2	0.081
60/1	0.118	180/335	0.020
61/1	0.154	80/2	0.304
62/1	0.158	80/3	1.214
208	0.502	81	0.815
211	0.154	82	0.490
212	0.267	83	0.328
216	0.146	108	0.352
60/2	0.117	111	0.304
61/2	0.154	112	0.348
62/2	0.162	165	0.036
63/1	0.253	170/1	0.121
65/1	0.241	176	0.016
158	0.174	180	0.121
160	0.393	182	0.020
63/2	0.253	85	0.227
65/2	0.241	86	0.162
215/2/ख	0.121	191	0.049
220	0.065	235	0.077
221	0.146	237	0.032
222	0.097	239	0.093
224	0.065	240	0.069
225	0.057	242	0.113
226/2	0.100	243	0.025

(1)	(2)	(1)	(2)
244/2	0.051	201	0.506
188	0.210	215/2/क	0.163
190/2	0.405	226/1	0.090
192	0.231	227/1	0.072
193	0.036	228	0.049
194	0.028	229/3	0.069
215/2/ग	0.121	204/1	0.049
227/3	0.197	205	0.020
103	0.660	206	0.178
104	0.150	136	0.162
175/1	0.016	137	0.140
177	0.081	138	0.255
107	0.093	151	0.077
218/340	0.040	161	0.053
109/2	0.182	159	0.393
110/1	1.400	162	0.474
110/2	0.450	163	0.085
113/1	0.028	174	0.024
113/2	0.029	168	0.166
114	0.235	169	0.370
115	0.139	170/2	0.081
116	0.036	175/2	0.162
117	0.154	170/3/क	0.099
118	0.077	172/1	0.120
209	0.097	173/1	0.069
119	0.267	155	0.170
120	0.158	170/3/ख	0.099
195/2	0.129	171/2	0.101
196/2	0.255	172/2	0.220
125	0.158	173/2	0.069
126	0.053	178	0.049
127	0.085	179	0.316
129	0.040	187	0.312
195/1	0.129	189	0.040
196/1	0.255	207	0.045
200/1	0.036	218	0.490
195/3	0.129	219	0.150
199	0.304	215/3	0.202
200/2	0.036	217	0.101

(1)	(2)	(1)	(2)
229/4	0.607	173/3/क	0.081
229/2	0.809	179/1	0.024
231/2	0.607	179/4	0.024
232	0.036	180/1/क	0.060
233	0.219	180/1/ख/1	0.060
236	0.390	183	0.040
244/1	0.051	185	0.020
241/3	1.205	224	0.012
241/4	1.821	225	0.020
241/5/1	0.080	226	0.024
योग . . .	<u>59.506</u>	227	0.040
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हलफल जलाशय योजना के निर्माण हेतु.		228	0.036
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.		241/1	0.102
		243/1/क	0.081
		237/6	0.102
		244/1	0.051
		244/2	0.051
		263	0.061
		264	0.051
		265	0.032
		267	0.140
		269	0.040
		171	0.034
		303/3	0.144
		340	0.016
		344/1	0.036
		357	0.096
		358	0.064
		74/1	0.032
		363	0.096
		364	0.080
		397/1	0.032
		398	0.008
		248/1/ग	0.024
		249	0.032
		250	0.040
		252	0.056
		262/2	0.072
		284/1/ख	0.160
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
165	0.240		
350	0.048		
166/3	0.061		

(1)	(2)
286/2	0.144
312	0.032
313/2	0.125
योग . .	<u>2.824</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हलफल जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 22-अ-82-2017-18-984.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—खपकौहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.060 हेक्टर नहर क्षेत्र.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
32/3/1	0.030
37/2	0.030
योग . .	<u>0.060</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हलफल जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 23-अ-82-2017-18-985.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—पहड़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.518 हेक्टर नहर क्षेत्र.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
228/2	0.809
228/5	0.202
236/1	0.202
242	0.113
247/1	0.202
247/2	0.348
248/2	0.607
योग . .	<u>0.518</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हलफल जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 18-अ-82-2017-18-986.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि

उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची	
(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—शहडोल	
(ख) तहसील—जयसिंहनगर	
(ग) ग्राम—ठेंगरहा	
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.888 हेक्टर नहर क्षेत्र.	
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
113	0.101
116/1/क	0.016
116/1/ड	0.016
281/1	0.060
150/1	0.040
281/1	0.060
150/2/क	0.100
150/2/ख	0.040
150/3/क	0.020
154/3/ग	0.141
159/1/क/2	0.040
165/1	0.101
172/2/क	0.040
172/2/ख	0.040
185/2/क	0.101
185/2/ख	0.101
186	0.080
243	0.021
244	0.030
247	0.021
250	0.040
252	0.021
271	0.021
273/1	0.036
274/1	0.008
275/2	0.020
283/1	0.040
284/2	0.035
108	0.070

(1) (2)

160/2	0.016
161/2	0.021
603/2	0.050
698/2	0.120
728	0.032
729/2	0.040
730/1	0.020
730/2	0.020
735	0.010
736/2	0.038
740/1	0.040
749	0.021
योग . .	1.888

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हलफल जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 19-अ-82-2017-18-987.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—गिरुईबडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—18.278 हेक्टर डूब क्षेत्र.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
971/3	0.809
971/4/ग	0.205

(1)	(2)	(1)	(2)
971/5/ख	0.141	1040	0.100
971/9	0.405	1041	1.522
971/8	0.405	1029	0.110
971/10	0.809	1.033	0.117
971/12/क	0.290	1004	0.582
971/12/ख	0.280	994	1.405
971/1148/2	0.809	995	0.247
950	0.041	986/2	0.141
948/2	0.041	699/2	0.021
971/6	2.023	947/1	0.061
1000/4	0.089	946/1	0.030
1001/4	0.150	946/2	0.030
1003/3	0.255	700/3	0.181
1148/1	0.081	699/5	0.101
1149	0.283	686/1	0.121
1150	0.223	688	0.101
1154	0.458	678/1	0.021
1155	0.081	679/2	0.051
999	0.360	502/1	0.030
985	0.041	679/3	0.051
1000/1	0.089	675	0.061
1001/1	0.011	676/1	0.021
1002/1	0.436	676/2	0.021
1000/3/ख	0.045	676/3	0.010
1001/3/ख	0.077	502/2	0.030
1038/2	0.101	503/1	0.021
1003/2ख	0.081	503/2	0.021
1000/2	0.085	504	0.021
1001/2	0.154	505	0.121
1003/1	0.259	491/1	0.045
1000/3/क	0.044	491/2	0.045
1001/3/क	0.077	489/3	0.050
1003/2/क	0.128	कुल रकबा . . .	<u>18.278</u>
1038/1	0.101	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हलफल	
996/2/क	0.076	जलाशय योजना के निर्माण हेतु.	
1037/2	0.809	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी	
1042/2	0.607	(राजस्व) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	
1006/1	0.457	संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया	
1031/1	0.119	जा सकता है.	
1036/1	0.034	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
1002/2	0.719	अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्र. 493-भू-अर्जन-2019-प्र.क्र. 03अ-82-2018-19.-

6/02/19
रतलाम शहर में रेल्वे समपार क0 81 एवं सुभाषनगर रतलाम रेल्वे ओव्हर ब्रीज बनाये जाने हेतु भूमि एवं उस पर स्थित भवन एवं परिसम्पत्तियों के संबंध में चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और भूमिर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11(1) की उपधारा-1 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11(1) की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

ग्राम का नाम-कस्बा रतलाम पटवारी हल्का कमांक-28

-:: अनुसूची ::-

SIDE -A

क्र.	मकान / प्लॉट के भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम, जाति	सर्वे कमांक / म्यु नम्बर जिसमें संचनना स्थित है	भवन का प्रकार कच्चा / पक्का	भवन का स्वामित्व स्वयं / शासकीय पट्टा / अतिक्रमण	दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक लम्बाई चौड़ाई फिट में	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1	2	3	4	5	6	8	9
1	सुगनबाई पति रखबचन्द पोरवाल व रखबचन्द पिता चम्पालाल निवासी- सुभाष नगर, रतलाम	सर्वे कमांक 71 रकबा 2.010 मद-चरनोई नजूल म.प्र. भासन	दाल मिल पतरे की छत	लीज पट्टा 21.03.2081 तक	180×50	12×70=840 14×70=980 8×40=320	198.88
2	ताज मोहम्मद पिता अब्दुल कशीम निवासी सुभाष नगर	सर्वे कमांक 71 रकबा 2.010 मद-चरनोई नजूल म.प्र. भासन	पक्का भवन	विक्रय-पत्र	20×50	20×14	26.02
3	अमानत खान पिता मजीद खान 147 सुभाष नगर	सर्वे कमांक 65 भूमिस्वामी -निजी विक्रय पत्र में सर्वे कमांक का उल्लेख नहीं होने से	पक्का भवन RBC G+1	विक्रय-पत्र	9.9×50	9.9×14 =138.60 ग्राउंडफ्लोर 9.9×4=39.6 फर्स्टफ्लोर	13.86 3.68
4	सरला पति रमेशचन्द्र राठौर सुभाष नगर		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	9.9×50	9.9×14	12.86
5	अमानत खान पिता मजीद खान सुभाष नगर		पक्का भवन RBC G+1	विक्रय-पत्र	9.3×50	9.3×14=130.2 ग्राउंडफ्लोर 9.3×4=37.2 फर्स्टफ्लोर	12.10 3.45
6	अनिलाबाई पति गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव निवासी सुभाष		पतरे का भवन	विक्रय-पत्र	9.9×50	9.9×14	12.86

7	शरफुन निशा पति अशाफाक खाँ अली निवासी हा.मुकाम रतलाम		पक्का भवन RBC G+I	विक्रय-पत्र	9.2×50	9.2×14=128.80 ग्राउंडफ्लोर 9.2×3=37.2 फर्स्टफ्लोर	11.97 2.56
8	मकबूल हुसैन पिता मोहम्मद हुसैन मन्सूरी व शब्बीर हुसैन पिता मो हुसैन निवासी ता मुकाम.		पत्तरे का मकान	विक्रय पत्र	15×60	15×10	13.94
9	अब्दुल हफीज खाँ पिता अब्दुल अजीज खाँ निवासी हा.मु. रतलाम		पत्तरे का मकान पक्की दिवार	विक्रय-पत्र	8.3×50	8.3×10	7.71
10	मेहबूब पिता बशीर व असलम पिता बशीर नि ता मु		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	11.2×50	11.2×13	13.53
11	अनवर पिता बशीर खाँ निवासी हा.मु. रतलाम		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	14.1×50	14.1×13	17.03
12	गुल्लोबाई हज्जानी पति मुन्नु खाँ नि 30/1 नाहरपुरा		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	14×50	14×10	13.01
13	कमलाबाई पिता गुलदीन हरीजन निवासी हा.मु. रतलाम		पक्का भवन	विक्रय-पत्र दस्वावेज पूरे उपलब्ध नहीं	23×20	11×23	23.51
14	अनवर नवाब पिता हनीफखाँ निवासी सुभाष नगर		पत्तरे भवन	शुदा 1 वर्षीय पट्टा 1988	10×20	10×18	16.72
15	जैनबबाबनो पति अब्दुल समद		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	11×28	11×17	17.37
16	जेतुन बी पति मोहम्मद सलीम निवासी हाट रोड रतलाम		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	11×28	11×17	17.37
17	मो. इकबाल पिता मो.नूर निवासी ता मुकाम रतलाम	सर्वे क्रमांक 67 /1 रकबा 0.017 भूमिस्वामी -हिरालाल पिता नारायण जाति कुम्हार निवासी रतलाम कृमिआ 25.50	पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	11×28	11×7	17.37
18	भाहनाज पति मो. युसुफ परवेज निवासी नजीअली की चाल रतलाम	सर्वे क्रमांक 67 भूमिस्वामी -निजी	पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	11×28	11×7	17.37
19	अजीज बी नबी खाँ निवासी ता मुकाम रतलाम	सर्वे क्रमांक 67 भूमिस्वामी -बटानम्बर पर्व में विक्रय	पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	44×28	16×17	25.29
20	मकसुद अहमद पिता अब्दुल करीम निवासी मोमीनपुरा	सर्वे क्रमांक 67 /1 रकबा 0.017 भूमिस्वामी -हिरालाल पिता नारायण जाति कुम्हार निवासी रतलाम कृमिआ 25.50	पक्का भवन	विक्रय-पत्र	11×28	11×21	21.46
21	मंगल शाह पिता पीर शाह ता मुकाम निवासी रतलाम	सर्वे क्रमांक 67 /3 रकबा 0.030 भूमिस्वामी -जगन्नाथ पिता लक्ष्मण कुम्हार निवासी बरबड कृमिआ 38.70	पक्का भवन	विक्रय-पत्र	11×28	11×21	21.46
22	मुस्ताक पिता बाबु कुरैशी निवासी हा.मु. सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 67 /2 रकबा 0. 100 भूमिस्वामी - भागचन्द पिता पुरनचन्द जाति चावला निवासी रतलाम कृमिआ 129.50	पक्का भवन	विक्रय-पत्र	15×40	15×19	26.48
23	शुरूशह पिता जुम्मा शाह निवासी हा.मु. सुभाष नगर		पक्का भवन	विक्रय-पत्र	15×40	15×19	26.48
24	कययुम एहमद व रिजवान एहमद पिता इकबाल एहमद निवासी सुभाष नगर रतलाम		पक्का भवन दो मंजिला गाडर फर्शी RBC एवं उपरी मंजिल में RCC	विक्रय-पत्र	15×42	15×19 15×19	26.48 26.48

41	जन्तबाई पति छोटे खा निवासी सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 52/5 रकबा 0.026 भूमिस्वामी - मल्काबी पति भाबोर एहमद व जन्तबाई पति छोटे खा निवासी रतलाम कृषि भिन्न आ आय 25.95	पक्का भवन RCC	विक्रय-पत्र	15×60	15×12	16.72
42	मलका पति शब्बीर एहमद निवासी सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 52/5 रकबा 0.020 भूमिस्वामी - मल्काबी पति भाबोर एहमद व जन्तबाई पति छोटे खा निवासी रतलाम कृषि भिन्न आ आय 25.95	पक्का भवन दो मंजिला भवन RBC	विक्रय-पत्र	15×60	15×10	13.94
							4.18
							total
43	सलमा बी पति इकबाल एहमद मंसूरी	सर्वे क्रमांक 52/1 रकबा 0.163 भूमिस्वामी -अब्बासभाई पिता तैय्यब अली बोहरा निवासी रतलाम कृषि भिन्न आ आय भू-राजस्व 135.51	पक्का भवन दो मंजिला RBC एवं 1 नलकूप	विक्रय-पत्र	30×50	8×30 plot & 8×16 gader total 368 ft	22.30 plot g+1
							11.89 ground
							11.89 g+1
							1 नलकूप
44	(छोटी बी पति अल्लामियाँ) शहनाज पति युसुफ परवेज		पक्का भवन पतरे जुदा	विक्रय-पत्र	15×50	15×8	11.15
45	अजीजा बी पति शेख अब्दुल हनीफ निवासी सुभाष नगर		पक्का भवन पतरे जुदा	विक्रय-पत्र	15×50	15×8	11.15
46	शम्भुलाल पिता अम्बाराम व दुर्गाबाई पति शम्भुलाल	सर्वे क्रमांक 48 रकबा 0.430 मद चरनोई भासकिय नजूल म.प्र.भा.	पक्का भवन	स्थायी पट्टा	18×30	18×13 m	21.74
47	मनोहर पिता पुनमचन्द व सोहनबाई पति मनोहरलाल निवासी- सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 48 रकबा 0.430 मद चरनोई भासकिय नजूल म.प्र.भा.	पक्का भवन दो मंजिला RBC	स्थायी शासकीय आवासीय पट्टा	11×49	11×12.9	13.03
							13.03 g+1
							total
48	जीवचरण पिता बगदीराम व शांतिबाई पति बगदीराम निवासी- सुभाष नगर		पक्का भवन पतरे भुदा मकान	स्थायी पट्टा	10×45	10×15	13.94
49	हंसाबाई पति बद्रीलाल निवासी- सुभाष नगर		पक्का भवन पतरे भुदा मकान	स्थायी पट्टा	17×45	17×15	23.69
50	जगदीश पिता रामचन्द्र चौहान निवासी रतलाम		पक्का भवन पतरे भुदा मकान	स्थायी पट्टा	15×42	10×15	13.94
51	दिलीप कुमार पिता कन्हैयालाल व निर्मलाबाई पति दिलीप निवासी सुभाष नगर		पक्का भवन पतरे भुदा मकान	स्थायी पट्टा	11×28	12×15	16.72
52	सावित्री (शांतीदेवी) पति विजयकुमार		पक्का भवन पतरे भुदा मकान	स्थायी पट्टा	20×34	15×13	18.12

53	कमलाबाई पति कन्हैयालाल पट्टाधारी तालाबंद नही मिली	कच्चा				0.00
54	रूपाबाई पति कामलसिंह निवासी-सुभाष नगर	कच्चा	स्थायी पट्टा	12×34	12×13	14.49
55	जगदीश पिता पृथ्वीराज व लीलाबाई पति जगदीश	कच्चा	स्थायी पट्टा	13×24	13×13	15.70
56	मसीउद्दीन पिता कुतुबुद्दीन व फातिमा बी. पति मसीउद्दीन	कच्चा	स्थायी पट्टा	10×33	10×13	12.08
57	जुबेदा बी. पति मुन्ना निवासी रतलाम	कच्चा	स्थायी पट्टा	10×20	12×13	14.49

SIDE - B

58	बदीलाल पिता नन्दराम निवासी- सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 71 रकबा -2.010 मद-चरनोई नजूल म0प्र0 पासन दो वार्षिक पट्टे एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग-अलग प्राप्त करे गये अवधि समाप्त समस्त भूमि शासकिय	कच्चा / ईट की दिवार फर्श पतरे शुदा मकान	शासकीय पट्टादार दिनांक 17. 11.1980 को एक (1) 2 वर्षीय पट्टे जारी	12×14.6 & 11×20 =23×34. 6	23×31	66.26
59	अर्जुन पिता सुरेश त्रेका निवासी- सुभाष नगर, रतलाम	सर्वे क्रमांक 71 रकबा -2.010 मद-चरनोई नजूल म0प्र0 पासन भासकिय भूमि में अतिक्रमण कर रखा है अन्य को पट्टा खरीदा है	पक्का	अतिक्रमण	-		7.24
60	बाबुलाल पिता भूरालाल निवासी- सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 71 रकबा -2.010 मद-चरनोई नजूल म0प्र0 पासन	पक्की दुकान	एक	1 वर्षीय आवासीय शासकीय पट्टा आवासीय मिला था	9.18×11.15	9.52
61	मोहनलाल पिता चंपालाल वर्मा निवासी- 630, सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 62 रकबा -0.050 मद-रास्ता नजूल म0प्र0 पासन	मौक पर आईस फेक्ट्री	भासकिय भूमि पर अतिक्रमण	1 वर्षीय शासकीय पट्टा मेताबबाई पति बालकदास के नाम	0	12.40
62	मांगीलाल पिता जोगराम निवासी सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 62 रकबा -0.050 मद-रास्ता नजूल म0प्र0 पासन	आवासीय मकान ईट की दीवार पतरे की छत	शासकीय पट्टादार दिनांक 17. 11.1980 को एक (1) वर्षीय पट्टा जारी	13.20×1 3.50	17×13	20.53
63	नागू महाराज पिता रामलाल निवासी सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 62 रकबा -0.050 मद-रास्ता नजूल म0प्र0 पासन	पतरे का मकान	शासकीय पट्टा 1 वर्षीय	14.76×1 0.82	14.76×10.82	14.85
64	शकिना बेवा वफानी	सर्वे क्रमांक 62 रकबा -0.050 मद-रास्ता नजूल म0प्र0 पासन	दुकान एवं कच्चा मकान पतरेशुदा	शासकीय पट्टा 1 वर्षीय	15.08×1 4.76	15.08×14.76	20.70

65	अब्दुल मजीद, अब्दुल हमीद, उमर फारुख, अफजल हुसैन, फजल हुसैन, इमरान हुसैन, इरफान हुसैन पिता मोहम्मद	सर्वे क्रमांक 65/1 रकबा 0.300 भूमिस्वामी - मोती उर्कार पिता नानुराम चुन्नीबाई बैवा नानुराम जाति नायक कृषि भिन्न आ ाय भू-राजस्व 415.90	कच्चा अस्तबल पिछे की ओर	स्वयं के नाम से रजि. विक्रयपत्र से क्रय	39×18.6 & 34.31×3 1.6	34×4	12.63
66	अयोध्याबाई पति सुखराम दास	सर्वे क्रमांक 62 रकबा 0.050 मद-रास्ता नजूल म090 तसन	पक्का मकान	पति के नाम से 17.11.1989 को एक (1) वर्षीय आवासीय पट्टा एवं 1985 को 30 वर्षीय अस्थाई पट्टा जारी किया गया	18.55×1 3.20	18.55×33.88	22.22
67	रसीदा बानोपति गुलाम एहमद निवासी- सुभाष नगर रतलाम	सर्वे क्रमांक 65/1 रकबा 0.300 भूमिस्वामी - मोती उर्कार पिता नानुराम चुन्नीबाई बैवा नानुराम जाति नायक कृषि भिन्न आ ाय भू-राजस्व 415.90	पक्का भवन पक्का भवन RBC	स्वयं के नाम से रजि. विक्रयपत्र से क्रय	19.56	19×14	24.72
68	अनीशा बी पति मोहम्मद इस्माईल निवासी राजेन्द्र नगर		प्लॉट	रजिस्ट्री	11×50	11×13	13.30
69	जफर बानो पति मोहम्मद निसार मंसूरी निवासी- सुभाष नगर		पक्का मकान RBC	स्वयं के नाम से पंजीकृति विक्रयपत्र से क्रय	18×60	18×14	23.42
70	अनवर खा पिता बशीर खान निवासी - सुभाष नगर		कच्चा लकड़ी का कारखाना RBC	रजिस्ट्री से क्रय	17.8×60	17.8×15	24.81
71	अब्दुल रउफ पिता मम्मू खान मेवाती, आजरा बी पति अब्दुल रउफ मेवाती 131, सुभाष नगर, रतलाम		पक्का 2 मंजिला भवन RBC	रजिस्ट्री द्वारा क्रय	21×61	21×15	29.27 ground 29.27 g+1 total
72	(नाथू पिता खीमा)के वारिसान के वारिसान कन्हैयालाल पप्पू भारत पिता नाथू व पुत्रियों लक्ष्मी- सानी रम्भा सानी पिता नाथू व सनी संजू व मैना पिता रामसिंह व सोनीबाईबैवा रामसिंह निवासी- सुभाष नगर		पक्का 2 मंजिला भवन RBC	विक्रय-पत्र	11×20.1 0	11×16	16.35 ground 16.35 g+1 total
73	(पुनमचंद पिता फकराजी) के वारिसान रमे लचन्द्र अम्बाराम पिता पुनचन्द खटीक	सर्वे क्रमांक 65/1 रकबा 0.300 भूमिस्वामी - मोती उर्कार पिता नानुराम चुन्नीबाई बैवा नानुराम जाति नायक कृषि भिन्न आ ाय भू-राजस्व 415.90	पक्का 2 मंजिला भवन RBC	विक्रय-पत्र	20×20	20×18	33.45 33.45
74	मो. अमीर पिता अब्दुल रहमान अंसारी निवासी-70, हाट रोड, पुलिस चौकी के सामने, रतलाम		पक्का मकान RBC	विक्रय-पत्र	20×20	20×20	37.17
75	मंगलीबाई उर्फ मंगाबाई पति रामलाल निवासी सुभाषनगर रतलाम		पक्का भवन पत्तरे जुदा	विक्रय-पत्र	17.6×40	17.6×18	29.44

76	शांतीलाल पिता मदनलाल निवासी- सुभाष नगर व कमलाबाई		पक्का मकान RBC	विक्रय-पत्र	12.50×5 6	12.50×20	23.23
77	ईस्माईल पिता नन्ने खां घोसी निवासी- सुभाष नगर		पक्का भवन 2 मंजिला पक्का भवन RCC	विक्रय-पत्र	15×47	15×22	30.66 13.94 m g+1
78	अशरफ नुर पति नबी नुर खां निवासी-सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 64 मद आबादी रकबा 0.050 नजूल म0प्र0 भासन	पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र		17×12.5	19.75
79	शहजादी बानोपति अब्दुल बशर कुरैशी (अब्दुल बशर पति नजीम मोहम्मद)		पक्का भवन	विक्रय-पत्र	12.6+15 =13.8×4 5	17×12.5	19.75
80	मथुरासिंह पिता दुर्गासिंह राजपूत निवासी- सुभाष नगर, रतलाम		पक्का भवन पक्का 2 मंजिला भवन RcC	विक्रय-पत्र	12×60	12×17	18.96 g 18.96 g+1
81	कालू शाह पिता जुम्मा शाह निवासी- सुभाष नगर		दीवारे ओपन बरामदा	विक्रय-पत्र	15×60	15×17	23.69
82	पिरुदास पिता भेरुदास निवासी- सुभाष नगर		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	18.6×56 .3	18.6×17	29.38
83	अकीला बी. पति सलीम शाह व मुबारिक पिता बशीर शाह	सर्वे क्रमांक 66 रकबा-0.090 भूमिस्वामी -नगरपालिका कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित भूरा-119.90	दो मंजिला पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	11×45	11×17	17.38 G 17.38 G+1
84	झोपड़ी बंद अब्दुल गीद नईम,अ अजीज अनवर भूरा आ II सलमा असमा भाराफतबी पिता हाजी अब्दुल लतीफ		झोपड़ी कच्चा	विक्रय पत्र	11×45	11×17	17.38
85	चन्द्रकांता पति भेरुलाल निवासी सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 66 रकबा-0.090 भूमिस्वामी -नगरपालिका कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित भूरा-119.90	प्लॉट खाली			17×12	34.75
86	मोहम्मद युसुफ पिता हाजी अब्दुल रहीम निवासी 133 नाहरपुत्रा रतलाम		दुकान कच्ची	विक्रय -पत्र	8.10×45	8.10×17	12.80
87	अब्दुल हमीद पिता अब्दुल गफफार निवासी-रतलाम		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	11×45	11×18	18.40
88	खुशीद एहमद पिता नुर मोहम्मद पिजार रतलाम		दो मंजिला पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	19.3×50	19.3×18	32.28 32.28 g+1 total
89	अख्तर बी पति सलीम भाह निवासी सुभाष नगर		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	22×45	22×10.5	21.46
90	मोहम्मद बाबू खां पिता अल्ला बेली खां		दो मंजिला पक्का भवन पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	42×47	42×17	66.35 66.35
91	मुबारिक हुसेन पिता गुलाम एहमद निवासी-सुभाष नगर		कच्चा पतरे का घर	विक्रय-पत्र	15×58	15×16	22.30
92	जरीज पिता खुदा बक्श कालू वगैरहा किरायेदार द्वारा बताया गया सूचनादी गई जल्द कागजाद मिलेंगे		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र		11×23	23.51
93	इसरार एहमद पिता मोहम्मद इस्माईल निवासी हाटरोड व मोहम्मद इदरि I पिता अब्दुल हफीस निवासी धनजीबाई का		खाली प्लॉट	विक्रय पत्र	2470 ft2	32.6×16	48.47

94	नोहरा व इरफान पिता अल्लाउददीन निवासी धनजीबाई का नोहरा रतलाम (काले खों पिता सलीम खों के नाम हिबानामा)शकील पिता काले खों		झोपडी	वसीयत नाम अनुबन्ध-पत्र	10×12	8.9×12	9.92
95	रउफ पिता हुमायुं खां- नसीर बानो पति हुमायुं खान		दो मंजिला पक्का भवन RBC उपरी मंजिल की छत पर टीन	विक्रय-पत्र	10×40	10×28	26.02 26.02 g+1
96	रसीद पिता रफीक खां	सर्वे क्रमांक 66 रकबा-0.090 भूमिस्वामी -नगरपालिका कर्मचारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित भूरा-119.90	दो मंजिला पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	11.6×20	11.6×20	21.56 21.56g +1 toai
97	सलीम पिता अमीर बक्श	सर्वे क्रमांक 54 रकबा 0.250 मद आबादी म0प्र0 भासन	दो मंजिला पक्का भवन RBC उपरी मंजिल की छत पर टीन	विक्रय-पत्र	11×20	11×20	20.44 20.44
98	नाहरू खों पिता जुम्मा खों निवासी सुभाष नगर		पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	14.6×24	14.6×20	27.13
99	सलीम शाह, पिता यासिन शाह फकीर निवासी		कच्चा मकान	हिबानामा विक्रयपत्र	11×13	11×13	13.29
100	गनी शाह पिता यासिन शाह फकीर		कच्चा मकान	हिबानामा विक्रयपत्र	11×13	11×5	5.11
101	चांद बी. पति तनवीर एहमद निवासी-हाट रोड़, रतलाम	सर्वे क्रमांक 52/1 रकबा 0.163 भूमिस्वामी -अब्बासभाई पिता तैय्यब-अली बोहरा निवासी रतलाम कृषि भिन्न आ 1य भू-राजस्व 135.51	पक्का RBC	विक्रय-पत्र	15×20	20×10	18.58 nalkup 1
102	शाकीर पिता नाहरू शाह निवासी-हाट रोड़, रतलाम		पक्का RBC	विक्रय-पत्र	15×28.6	28.6×13	34.55
103	सज्जनबाई पति रामनाशायण तेली निवासी सुभाष नगर रतलाम		पक्का RBC	विक्रय-पत्र	20×40	20×26	48.32
104	मोहम्मद अयान पिता मतोहम्मद युनुस व इम्तियाज बी पति मो युनुस निवासी सुभाषनगर		पक्का	विक्रय-पत्र	21×15	15×21	29.27
104	नूरजहां पति मंगलशाह निवासी सुभाष नगर रतलाम		कच्चा पतरा	विक्रय-पत्र	15×19	15×19	26.48
105	नदीम मोहम्मद व वसीम पिता न्याज मोहम्मद निवासी ता मुकाम सुभाषनगर		पक्का	विक्रय-पत्र	27×27	27×11 27×16 27×27 total	27.60 tinshed 40.14 RCC 67.74
106	5 दुकानें पक्की छोदू हज कमेटी	सर्वे क्रमांक 53 रकबा 0.150 दरगाह हैदरअली भाह सर.गिरोहे सैलाना जान भोक्तअली भाहगुरु हैदरअली भाह भूरा 1.41 मद चरनोई भासकिय नजूल म.प्र.भा.	पक्का	भूमि	50×26	50×26	120.81
107	3 दुकानें छोदू हज कमेटी	सर्वे क्रमांक 48 रकबा 0.430 मद चरनोई भासकिय नजूल म.प्र.भा.	पक्का	अतिक्रमण	13.5×31	13.5×31	38.89
108	कन्नस्थान का गेट सरकारी कन्नस्थान की बाउंड्री 6 फिट एंव लोहे का गेट	सर्वे क्रमांक 48 रकबा 0.430 मद चरनोई भासकिय नजूल म.प्र.भा. में कन्नस्थान का गेट एंव 40 लेंबाई की 6 फिट उंची दिवार एंव अन्य दिवार सर्वे क्रमांक 666 मद कन्नस्थान	पक्का	भायकीय	80×8	80×8	145.00

उपरोक्तानुसार भूमि का मोके पर खसरा नक्शा का मिलान किया गया मोके कि स्थिति के अनुरूप मोके पर सर्वे कार्य किया गया मोके पर काब्ज व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नजरी नक्शा बनाया गया मोके पर सेतु निगम लोकनिर्माण विभाग के द्वारा लगाये गये निशानात के आधार पर अधिग्रहित किये जाने वाले क्षेत्रफल की गणना कि गई मोके पर घनी आबादी होकर है भूअभिलेखों में निजी भूमि में खसरा में पृथक नाम है एवं काब्ज व्यक्तियों के द्वारा भू-अभिलेखों में नामांतरण नहीं करवाये गये है इस बाबत नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी गई है। खसरा नकल एवं नक्शा संलग्न है जिसके अनुसार मोके पर हाट की चौकी सुभाष मार्ग से विरीयाखेडी की ओर जाने वाला मार्ग जो कि विगत 50 से अधिक वर्षों से भी कायम है के अतिरिक्त मार्ग कि उत्तरी दिशा में साईड A एवं मार्ग के दक्षिण दिशा में साईड B मानकर नजरी नक्शा तैयार किया गया -

रतलाम शहर में रेल्वे समपार क0 81 एस सुभाष नगर रतलाम रेल्वे ओव्हर ब्रिज बनाये जाने हेतु भूमि एवं उस पर स्थित भवन एवं परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के तहत प्रारंभिक जांच उपरांत अधिसूचना प्रकाशन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार सर्वे क्रमांक प्रस्तावित किये जाते हैं :-

(1) पूर्व से कायम सुभाषनगर-विरीयाखेडी मार्ग के अतिरिक्त मार्ग कि उत्तरी दिशा में साईड A

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक का कुल रकबा	आहरण किये जाने वाली भूमि का रकबा वर्गमीटर में।	विवरण
निजी भूमि सर्वे क्रमांक				
1	65 / 1,65 / 2,65 / 3, 65 / 4	0.330	203.84 वर्गमीटर	
2	67 / 1,67 / 2,67 / 3, 67 / 4,67 / 5	0.197	377.82 वर्गमीटर	
3	52 / 1,52 / 2,52 / 3, 52 / 4,52 / 5	0.223	104.52 वर्गमीटर	
योग निजी भूमि			686.18 वर्गमीटर	
शासकिय भूमि सर्वे क्रमांक				
4	71	2.010 चरनोई	224.90 वर्गमीटर	
5	54	0.250 आबादी (गांवठान)	182.74 वर्गमीटर	
6	48	0.480 चरनोई	177.67 वर्गमीटर	
योग शासकिय भूमि			585.31 वर्गमीटर	

(1) पूर्व से कायम सुभाषनगर-विरीयाखेडी मार्ग के अतिरिक्त मार्ग कि दक्षिणी दिशा में साईड B

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक का कुल रकबा	आहरण किये जाने वाली भूमि का रकबा वर्गमीटर में।	विवरण
निजी भूमि सर्वे क्रमांक				
1	65/1,65/2,65/3, 65/4	0.330	298.45 वर्गमीटर	
2	66	0.090	372.58 वर्गमीटर	
3	52/1,52/2,52/3, 52/4,52/5	0.223	184.80 वर्गमीटर	
4	53	0.150	120.81 वर्गमीटर	
योग निजी भूमि			976.64 वर्गमीटर	
शासकिय भूमि सर्वे क्रमांक				
क्रमांक	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक का कुल रकबा	आहरण किये जाने वाली भूमि का रकबा वर्गमीटर में।	विवरण
5	71	2.010 मद-चरनोई	16.76 वर्गमीटर	
6	62	0.050 रास्ता	22.22 वर्गमीटर	
7	64	0.050 आबादी गावंठान	111.53 वर्गमीटर	
8	54	0.250 आबादी गावंठान	65.97 वर्गमीटर	
9	48	0.480 चरनोई	38.89 वर्गमीटर	
10	666	2.280 कब्रस्तान	145 वर्गमीटर	
योग शासकिय भूमि			400.37 वर्गमीटर	

इस प्रकार रतलाम शहर में रेल्वे समपार क्र0 81 एस सुभाष नगर रतलाम रेल्वे ओवर ब्रिज बनाये जाने हेतु उपरोक्तानुसार भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता होती है।

2. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्यांकन बाबत वास्तविक विक्रय मूल्य तथा गाईड लाईन के आधार पर सिंचित, असिंचित, पडत, एवं कृषि भिन्न आशय की पृथक-पृथक औसत मूल्य की जानकारी वर्तमान गाईड लाईन अनुसार कि गई है इस हेतु रजिस्ट्रार कार्यालय रतलाम को श्रीमान की और से पत्र जारी कर जानकारी लिया जाना उचित होगा है।

3. अर्जित की जा रही भूमि कृषि जौत उच्चतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती है।

4. अर्जित की जा रही भूमि नगर निगम (नगर पालिक निगम रतलाम के वार्ड क्रमांक 15) के सीमा में आता है।

5. स्थल निरीक्षण में पाया गया कि भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि में सार्वजनिक निर्माण जैसे श्मशान, मंदिर, मस्जिद आदि प्रभावित नहीं होते हैं। कब्रस्थान का गेट जों के शासकिय भूमि में निर्मित है एवं उसकी बाउंड्रीवाल 120फीट 6फीट उंची प्रभावित होता है।

6. मध्यप्रदेश शासन की आर्दश पर्यावरण नीती के के प्रावधान प्रशनाधीन भूमि पर लागू नहीं होते हैं।

7. अर्जित की जाने वाली भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों जैसे कुआ ,मकान, वृक्ष, नलकूप,आदि का पृथक-पृथक स्थल निरीक्षण मुझ मौजा पटवारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में परिसम्पत्तियों की जानकारी वर्तमान गाईड लाईन अनुसार उनका मूल्य प्रतिवेदन के साथ संलग्न की गई है। श्रीमान से निवेदन है कि मंगवाकर पृथक-पृथक विभागों से मूल्यांकन करवाये जाने बाबत श्रीमान की और पत्र जारी कर मूल्य निर्धारण करवाया जाना उचित है।

8. मोके पर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष डिर्माकेशन किया गया कार्यवाही के दौरान मोके पर कोई मोखिक एवं लैखी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कि गई है। अन्य भूमिस्वामियों से सहमति पत्र हेतु कार्यवाही किया जा रहा है।

9. नगर एवं ग्राम निवेश रतलाम से रेल्वे ओव्हर ब्रिज के संबध में जानकारी लिय जाना उचित होगा।

सन्दर्भित पत्र पर वरिष्ठ अधिकरियों के निर्देशों के कम में “भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 “ के तहत उपर वर्णित बिन्दुओ पर उपरोक्तानुसार जाँच की गयी है।

भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अनुसार प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन कर अधिसूचना की प्रति धारा 4 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात समिति का निर्माण करने बाबत आयुक्त महोदय नगर पालिका निगम रतलाम को एवं अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग रतलाम को समिति का निर्माण करने हेतु पत्र जारी किया जाना उचित है जो समिति की अध्ययन रिपोर्ट प्रेशित की जावेगी आगामी दिवस में अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन एवं प्रकाशन किया जा कर धारा 7 के अन्तर्गत विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन करवाया जा सकेगा परन्तु मोके पर ऐसी कोई सामाजिक सम्पत्ति अथवा परिसम्पत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है।

भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा 21 हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना उपरांत कतिपय दशाओं में आवश्यकताओं की दशाओ में कलेक्टर महोदय अधिनियम के अन्तर्गत कब्जा ले संकेगें जब भविष्य में ऐसी आवश्यकता होने पर। भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अनुरूप प्रारंभिक अधिसूचना हेतु उपरोक्तानुसार सर्वे नम्बर भूमि जों कि पटवारी नक्शे में अकित की जाकर खसरा संलग्न है का अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत निम्नानुसार रिती से संलग्न प्रस्ताव को प्रकाशित की जावे:-

97	सलीम पिता अमीर बकश	सर्वे क्रमांक 54 रकबा 0.250 मद आबादी म0प्र0 भासन	दो मंजिला पक्का भवन RBC उपरी मंजिल की छत पर टीन	विक्रय-पत्र	11×20	11×20	20.44
98	नाहरू खों पिता जुम्मा खों निवासी सुभाष नगर	सर्वे क्रमांक 54 रकबा 0.250 मद आबादी म0प्र0 भासन	पक्का भवन RBC	विक्रय-पत्र	14.6×24	14.6×20	27.13
99	सलीम शाह, पिता यासिन शाह फकीर निवासी	सर्वे क्रमांक 54 रकबा 0.250 मद आबादी म0प्र0 भासन	कच्चा मकान	हिबानामा विक्रयपत्र	11×13	11×13	13.29
104	मूहम्मद अयान पिता मताहम्मद युनुस व इम्तियाज बी पति मो युनुस निवासी सुभाषनगर	सर्वे क्रमांक 52 भूमिस्वमी-निजी	पक्का	विक्रय-पत्र	21×15	15×21	29.27
104	नूरजहाँ पति मंगलशाह निवासी सुभाष नगर रतलाम	सर्वे क्रमांक 52 भूमिस्वमी-निजी	कच्चा पतरा	विक्रय-पत्र	15×19	15×19	26.48

2. भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण :- अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड रतलाम शहर के कार्यालय में किया जा सकता है।

रतलाम, दिनांक 29 जनवरी 2019

क्र. 466-भू-अर्जन-19-प्र.क्र. 4-अ-82-2018-19.—

जावरा शहर में रेल्वे समपार क्र. 177 आर.ओ.पी. निर्माण हेतु रेल्वे ओवर ब्रिज बनाये जाने हेतु भूमि एवं उस पर स्थित भवन एवं परिसम्पत्तियों संबंध में चुकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके सलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) की उपधारा-1 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11(1) की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

ग्राम का नाम— कस्बा जावरा, कुम्हारी पटवारी हल्का नं. 55, 57

क्र.	सर्वे नं.	सर्वे क्रमांक का कुल रकबा	आहरित किये जाने वाली भूमि का रकबा वर्गमीटर में	विवरण
निजी भूमि सर्वे नं.				
1.	86	9.187	9.187	गार्डर फर्शी (प्रभावित एरिया रजिस्ट्री अनुसार)
2.	86	26.077, 22.657	26.077, 22.657	गार्डर फर्शी (प्रभावित एरिया रजिस्ट्री अनुसार)
3.	86	12.787	12.787	गार्डर फर्शी (प्रभावित एरिया रजिस्ट्री अनुसार)
4.	86	13.847	13.847	गार्डर फर्शी (प्रभावित एरिया रजिस्ट्री अनुसार)
5.	86	48.30, 39.85	48.30, 39.85	गार्डर फर्शी रजिस्ट्री अनुसार
6.	86	46.352, 34.100	46.352, 34.100	गार्डर फर्शी दो मंजिला मकान (प्रभावित एरिया रजिस्ट्री अनुसार)
7.	86	25.126, 25.126	25.126, 25.126	गार्डर फर्शी दो मंजिला मकान (प्रभावित एरिया रजिस्ट्री अनुसार)
8.	86	75.836, 72.226, 45.73	75.836, 72.226, 45.73	गार्डर फर्शी तीन मंजिला मकान डिग्री अनुसार
9.	86	51.12, 51.12	51.12, 51.12	चददर पोश एवं गार्डर फर्शी
10.	86	46.47, 46.47	46.47, 46.47	आर.सी.सी.
11.	86	31.21, 25.36	31.21, 25.36	चददर पोश
12.	86	38.25, 32.13	38.25, 32.13	चददर पोश
13.	86	340.16, 340.16	340.16, 340.16	चददर पोश
14.	86	190.55, 190.55	190.55, 190.55	चददर पोश
15.	86	213.24, 102.89	213.24, 102.89	चददर पोश दो मंजिला (ग्राउण्ड फ्लोर फर्स्ट

				फ्लोर)
16.	86	124.95, 57.16	124.95, 57.16	चददर पोश दो मंजिला (ग्राउण्ड फ्लोर, फस्ट फ्लोर)
17.	86	59.16, 24.26	59.16, 24.26	चददर पोश मकान
आंटिया चोराहे से बस स्टेण्ड की ओर बायी तरफ				
18	38	4.50, 9.45, 9.45	4.50, 9.45, 9.45	आर.सी.सी. तीन मंजिला मकान (राजस्व रिकार्ड अनुसार सर्वे नं. 38 रकबा 1.961 हेक्टर शासकीय भूमि होने से सिर्फ निर्माण का नियमानुसार मुआवजा देय।
19.	38	34.80, 39.70	34.80, 39.70	आर.सी.सी. एवं गार्डर फर्शी दो मंजिला (राजस्व रिकार्ड अनुसार सर्वे नं. 38 रकबा 1.961 हेक्टर शासकीय भूमि होने से सिर्फ निर्माण का नियमानुसार मुआवजा देय।)
20.	38	5.80	5.80	गार्डर फर्शी का मकान (राजस्व रिकार्ड अनुसार सर्वे नं. 38 रकबा 1.961 हेक्टर शासकीय भूमि होने से सिर्फ निर्माण का नियमानुसार मुआवजा देय।)
21.	38	34.71	34.71	गार्डर फर्शी का मकान (राजस्व रिकार्ड अनुसार सर्वे नं. 38 रकबा 1.961 हेक्टर शासकीय भूमि होने से सिर्फ निर्माण का नियमानुसार मुआवजा देय।)
22.	38	26.68, 29.56	26.68, 29.56	गार्डर फर्शी दो मंजिला मकान (राजस्व रिकार्ड अनुसार सर्वे नं. 38 रकबा 1.961 हेक्टर शासकीय भूमि होने से सिर्फ निर्माण का नियमानुसार मुआवजा देय।)
23.	38	24.53	24.53	चददर पोश (राजस्व रिकार्ड अनुसार सर्वे नं. 38 रकबा 1.961 हेक्टर शासकीय भूमि होने से सिर्फ निर्माण का नियमानुसार मुआवजा देय।)

24.	38	11.76, 11.76	11.76, 11.76	चददर पोश गार्डर फर्शी दो मंजिला मकान (राजस्व रिकार्ड अनुसार सर्वे नं. 38 रकबा 1.961 हेक्टर शासकीय भूमि होने से सिर्फ निर्माण का नियमानुसार मुआवजा देय।
25.	38	58.72, 17.25	58.72, 17.25	चददर पोश गार्डर फर्शी दो मंजिला मकान (राजस्व रिकार्ड अनुसार सर्वे नं. 38 रकबा 1.961 हेक्टर शासकीय भूमि होने से सिर्फ निर्माण का नियमानुसार मुआवजा देय।
26.	38	59.28	59.28	गार्डर फर्शी (राजस्व रिकार्ड अनुसार सर्वे नं. 38 रकबा 1.961 हेक्टर शासकीय भूमि होने से सिर्फ निर्माण का नियमानुसार मुआवजा देय।
27.	38	25.50, 25.50	25.50, 25.50	गार्डर फर्शी (राजस्व रिकार्ड अनुसार सर्वे नं. 38 रकबा 1.961 हेक्टर शासकीय भूमि होने से सिर्फ निर्माण का नियमानुसार मुआवजा देय।
रेल्वे फाटक से बस स्टेण्ड की ओर दायी तरफ				
1.		32.51	32.51	चददर पोश (भूमि पट्टे की है सिर्फ निर्माण का मुआवजा देय)
2.		30.60	30.60	चददर पोश (भूमि पट्टे की है सिर्फ निर्माण का मुआवजा देय)
3.		30.98	30.98	चददर पोश (भूमि पट्टे की है सिर्फ निर्माण का मुआवजा देय)
4.		50.10	50.10	चददर पोश (भूमि पट्टे की है सिर्फ निर्माण का मुआवजा देय)
5.		33.27	33.27	चददर पोश (भूमि पट्टे की है सिर्फ निर्माण का मुआवजा देय)
6.	224	464.34, 453.34	464.34, 453.34	चददर पोश गार्डर फर्शी गोडाउन
7.	226/1	38.00	38.00	शासकीय भूमि
8.		3.22, 3.22	3.22, 3.22	आर.सी.सी. पॉर्च (डिग्री अनुसार)
9.		5.52, 5.52	5.52, 5.52	बाउण्ड्रीवाल आर.सी.सी. (डिग्री अनुसार)

10.	7.87, 7.87	7.87, 7.87	आर.सी.सी. पोर्च एवं वाल (डिग्री अनुसार)
जेल रोड पर दायी तरफ			
11	49.98	49.98	आर.सी.सी. भवन शासकीय भूमि

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रूचिका चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 31 जनवरी 2019

क्र 14ए-82-18-19-865.—

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1)	परियोजना का नाम :-	बण्डा परियोजना बण्डा बांध
(2)	भूमि का विवरण :-	
	1. जिला	सागर
	2. तहसील	बण्डा
	3. ग्राम	पिपरिया इल्लाई
	4. पटवारी हल्का नं.	11
	5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	499.330 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

क्र.	भूमि स्वामी कानाम	स्वामित्व का	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित	शेष
1	2	3	4	5	6	7
1	आमप्रकाश पि. मोतीलाल रामदुलारी वेवा मोतीलाल राजाराम पि. वृजलाल चतुरभुज धनप्रसाद पि.भैयालाल उमाशंकर मनोहर संतोष राजेन्द्र देवेन्द्र बलराम पिस. लक्ष्मीप्रसाद. पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2	1.350	1.350	
2	चन्द्रशेखर पिता भगवतशरण सीताबाई पति चन्द्रशेखर मिश्रापता सा. रजौवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4 576/2	0.330 1.460	0.330 1.460	
3	खिलानसौग रामसेवक रंगाराम मुरलीधर द्वारका पि.मंगलसौग श्यामवाई सियावाई पुत्री मंगलसौग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/1 101 197	0.820 0.360 0.080	0.820 0.360 0.080	
4	कन्हेदो वीरसौग चदनसौग पिता मूरतसौग अविनाश नाबा पिता वली भरतसिंह पिता मूरतसौग यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/2 163 178/1	2.160 0.490 1.230	2.160 0.490 1.230	

5	अजयकुमार अभयकुमार उदयकुमार संजयकुमार विनयकुमार पि. जोगेश्वरराव सुलभा मोहन पि. चन्द्रशेखरराव पिता मृदुला विवेक माधुरी पुत्री चन्द्रशेखर दुष्यंत पिता मकुलराव छवि श्री पु. मुकुलराव विजया वेवा मुकुलराव सुमती वेवा मुकेश अनंतराव दिवाकरराव पिण्णुपालराव प्रभाकरराव पदमाकरराव पुरुसोत्तमराव रामकृष्णराव यशवंतराव विनोद पि. मकुन्दराव इन्द्रानी वेवा मकुन्दराव पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/1	0.180	0.180	
			231/1	0.020	0.020	
			415/1192/1	0.010	0.010	
			462/1	0.360	0.360	
			623/1	0.370	0.370	
			696/1	0.190	0.190	
			890/2	0.290	0.290	
6	ललता पति भरत. आदिनाशोपता भरत यादव पता नि. किरोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/2	0.910	0.910	
			623/2	0.020	0.020	
			696/2	2.050	2.050	
			890/4	0.070	0.070	
7	कच्छेदी वीरसींग पिता मूरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/3	0.170	0.170	
			22/2	0.600	0.600	
			231/3	0.010	0.010	
			415/1192/2	0.010	0.010	
			462/2	0.350	0.350	
			561/1204/2	0.020	0.020	
			623/3	0.500	0.500	
			690/3	0.190	0.190	
8	धनप्रसाद पिता भयलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7	1.530	1.530	
			602	0.250	0.250	
9	भूपतसींग पिता भैरसींग पता साठेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8	0.570	0.570	
			568	0.820	0.820	
10	थानसींग पिता माधोसींग जुगराज सींग वन्द वीरसींग हरदेवसींग पिण्णु भूपेन्द्रसिंह सुखमनसींग भवानीसींग पिता अपरवलसींग लोधी पता साठेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9	0.870	0.870	
11	मनावाड़ निम्मावाड़ जानकीवाड़ विमलावाड़ पुत्री नोनेजू पता निष्पलैया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	10	1.040	1.040	
			59	0.720	0.720	
12	रविशकर पिता मकुन्दगफलू पिता मुलू पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11	0.310	0.310	
13	रविशकर पिता मकुन्दामोहन पिण्णुधोकल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी		12	0.960	0.960	

14	भेदावाड़े जोजे मंगल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13	0.940	0.940	
15	सिरदार बहू वेवा काशीरामयादव पता निष्किरोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	0.500	0.500	
16	ननिनाल पिता नन्नू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15	0.620	0.620	
			49/2	0.160	0.160	
			49/3	0.240	0.240	
			50/1	0.030	0.030	
			50/2	0.380	0.380	
			52/2	0.210	0.210	
17	चिरेयावाड़े पति हरीराम पता निष् विलहनी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16	0.630	0.630	
18	हल्कु पिण्गनू पवतनाध्वानपिता चूच पालक मा वा खुद वड़ीबहू वेवा चूच पता निष्बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/1	0.450	0.450	
			55	0.810	0.810	
19	वोरसोग पिता मुरतसोग पता निवासी ग्राम किरौला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/2	0.450	0.450	
20	अकिता कुलकर्णी उर्फ सीमा हणीकर पुत्री जागेश्वरराव हणीकर पति अविनास कुलकर्णी पता साण शाहपुरा भोपाल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18	0.600	0.600	
			415	0.020	0.020	
			501	0.030	0.030	
			657	0.050	0.050	
			658/2	0.040	0.040	
			889/2	0.070	0.070	
			1050/2	1.620	1.620	
21	मुरतसोग पिता कनई यादव पता निष् किरौला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19	0.280	0.280	
			21	0.750	0.750	
22	मालतीबाई पति रामप्रसाद सिंह लोधी पता निष् बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20	0.660	0.660	
23	कलावाड़े जोजे करनसोग लोधी पता साण बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23	0.510	0.510	
			25	1.060	1.060	
24	अजुई पिता रामलाल पूरन पिता बिहारी चमार पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26/1	0.720	0.720	
25	रामप्रसाद धनश्याम पिता खजुवा ननीबाई पुत्री खजुवा गीता पुत्री मोहन उमाबाई पुत्री दयाराम हीरोलाल वा० कुंजी नावा० पिता रामकिशन हेमाबाई गंगाबाईनीलबाई संजना बाई पुत्री रामकिशन वली व खुद माँ सदरानी बेबा रामकिशन पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26/2	0.110	0.110	
26	पूरन पिता बिहारी पता सा किरौला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26/3	0.340	0.340	
27	उमारानी पति बेजनाथ पता सा किरौला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26/4	0.230	0.230	

28	फलसीग पिता कुजी पता निगकरोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	27	1.020	1.020	
29	लखनलाल पिता मकुन्दो पता निगदेलहनी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28/1	0.910	0.910	
30	प्रताप जेपताजाहर सीग पता निग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28/2	0.430	0.430	
31	नत्थसीग पिता फलसीग लोधी पता साण बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	29	0.740	0.740	
32	मूल पिता खितेसीगहरीसीग गुलझारसीग पिता चन्द्रभान सीग पता निजवारा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	30	2.450	2.450	
33	इमरत पितामलाल पता निग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31	1.500	1.500	
34	फेरन गोविन्द अन्नू पप्पू मलखान पिसण लछमन बड़ीबिन्ना पुत्री लछमन दामोतीबाई वेवा लछमनसीग लोधी पता साण बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	32	0.980	0.980	
35	अकवर खा पिन्दलोपखा मुस पता निग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33	0.920	0.920	
36	केशरी सिंह हुकुम सिंह पिता गुलाब गुलाबसीग पिता हरीसीग लोधी पता निवासी बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	34	0.990	0.990	
37	जयकमार पिंप्रभुदयालश्रीवास्तव पता निष्सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	35/1	1.010	1.010	
			41	0.520	0.520	
38	सतोष कुमार पिता प्रभुदयाल श्रीवास्तव पता निष्सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	35/2	0.230	0.230	
			48	0.790	0.790	
39	पभूलयाल पिता गोपीलाल श्रीवास्तव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	36	1.240	1.240	
40	गिरजाबाई पति छत्तरसीग सतोष रघुराज पिसण सुम्मेरसीग पता साण बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	37/1	1.870	1.870	
41	मैलवतोरजनाबाई पुत्री ग्यापसाद ब्राण पता निग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	37/2	0.120	0.120	
42	उमापसाद पिता ग्यापसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38/1	0.420	0.420	
			105	0.700	0.700	
43	बाबूसिंह पिता राजाराम लोधी सा बहरोल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38/2	0.960	0.960	
44	बल्देवपसाद पिता ग्यापसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38/3	0.380	0.380	
			550	0.750	0.750	
45	डैलन सिंह गब्बरसिंह पिता भूपेन्द्र सिंहमूरजबाई गनेशीबाई बेबा भूपेन्द्र सीग पता साण कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39/1	0.300	0.300	
46	अमोलसीग पिता थानसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39/2	0.350	0.350	
47	निरनसीग पिता थानसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39/3	0.350	0.350	
48	धौरजसीग पिता थानसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39/4	0.350	0.350	
49	वीरसीग तुलसीराम त्रिलोकसीग पिता भगवानसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39/5	0.350	0.350	

50	गंगा जमना नर्मदा कुती मथरा पुत्री भूपेन्द्र सींग पता निवासी कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39/6	0.050	0.050	
51	पभूदयाल पिता गोपीलालश्रीवास्तव पता निष् किरोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40	0.420	0.420	
52	भबूदे गनेश जगन्नाथ पिताभग्गा भुल्लो पिता सिल्लू पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42	0.640	0.640	
53	मगल चिखा अनदी पूरन बिहारी पिता हरवशी बडी बेन पुत्री हरवशी पता नि. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/1	0.350	0.350	
			54/3	0.280	0.280	
54	पचू रामू मन्नु पिता दुन्डे पता सा बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/2	0.200	0.200	
			54/2	0.180	0.180	
55	रतनसींग पिता चेतू सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/3	0.320	0.320	
56	पावती पुत्री बहादुर बजेश भूरे पिता बहादुर श्रीबाई बेवा बहादुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/4	0.030	0.030	
			54/1	0.290	0.290	
57	जसवन्त नाबा पिता व पालक आफतासिह पिता बहादुरसिह सा बहरोल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43/6	0.150	0.150	
			54/4	0.100	0.100	
58	ग्याप्रसाद पितारामचरण पता निष्बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45/1	1.680	1.680	
			147	0.070	0.070	
59	इन्द्रा पाते ग्याप्रसाद पता निष्बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45/2	1.200	1.200	
60	विकास विवेक पिता ग्याप्रसाद तिवारी पता निवासी ग्राम बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45/3	0.870	0.870	
61	अमोलसींग पिता थानसींग पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	46/1	0.360	0.360	
			47	1.330	1.330	
			75	0.510	0.510	
			91/2	0.400	0.400	
62	सुम्मी पिता पुनू यादव पता सा. किरोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	46/2	0.360	0.360	
			46/3	0.360	0.360	
63	लाखन सींग पिता रतनसींग लोधी पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	49/1	0.430	0.430	
64	वेवा हीरासींग लोदी पता निष्बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	51	2.520	2.520	
65	विन्द्रवन सेवक तातो मुन्ना जालम पिता वारेलाल भोले राजू पिसण रगवीरआकार राहुल नावा० पिता हम्मीर दशोदा सरस्वती नावा० पुत्री हम्मीर पालक वा खुद माँ दयाबाई बेबा हम्मीरपता निष्बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	52/1	1.070	1.070	
66	भूरे बजेश पिता बहादुरसींग श्रीबाई बेवा बहादुर पावती पुत्री बहादुरलोधी पता निष्बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53	0.940	0.940	

67	निरनसीग पिणसूरतसीगलोदी पता निबहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	56	1.460	1.460	
68	भापालसीग पिणहरीसीगलोदी पता निबहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	57	0.430	0.430	
69	हरीसीग पिणनिरनसीगलोदी पता निबहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58	1.270	1.270	
70	पुत्री वट्टोप्रसाद जयकुमार विजयकुमार पिता लक्ष्मीप्रसाद अनीतापुत्री लक्ष्मीप्रसाद ब्रा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	60/1	0.740	0.740	
			349/1203	0.010	0.010	
71	सुरजबाई पति राकेश यादव पता निवासी किरौला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	60/2	0.740	0.740	
72	सतोष पिता रामनाथ यादव पता साण कोटिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	61/1	1.400	1.400	
73	चन्द्ररानी पति शिवप्रसाद पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	61/2	0.700	0.700	
			379/2	0.110	0.110	
			1172	0.180	0.180	
74	मोतीलाल जानकी पिता शिवदयाल पता निध्याम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	62	0.780	0.780	
75	गनेशप्रसाद पिण गनपत बेनीप्रसाद पिण गनपत हल्की विन्ना पुत्री शिवहरी हल्की बहू बेवा शिवहरी पता साण देह भूमि स्वामी अरविन्द नीलेश पिता श्रीराम रानी पुत्री श्रीराम मालती बेवा श्रीराम मोहित नाबा पिता अशोक कुमार पा मा खुद मा गीताबाई बेवा अशोक कुमार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	63	1.190	1.190	
			611	1.210	1.210	
76	ललताबाई जोज भरतप्रसाद निवासी किरौला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64/1	0.200	0.200	
			64/2	1.010	1.010	
77	चन्द्रभूषण पिता पन्नालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	65	1.850	1.850	
78	प्रीति बाण प्रियका बाण प्रेमकुमारी प्रमीता रूची ना०बा० पिता राकेश सुरजबाई बेवा राकेश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	66	0.770	0.770	
			77	0.300	0.300	
79	गनेशराम पिता शालकराम पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	67	1.050	1.050	
			446	0.040	0.040	
			494	0.440	0.440	
			646	0.440	0.440	
			649	0.550	0.550	
			661	0.270	0.270	
			729	0.150	0.150	
			745	0.360	0.360	
80	मरदन पिता काशीराम यादवपता साण किरौला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68	1.160	1.160	

81	रेवाराम धनीराम गनेश प्रसाद पिता कुदनलाल दयाशंकर शिवनारायण पिता जीवनलाल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69	0.970	0.970	
			519	0.600	0.600	
82	झलकन पिता दुरजना धोवी पता निष् करोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70	0.470	0.470	
			73	0.420	0.420	
			74	0.470	0.470	
			76	0.400	0.400	
83	अरविन्द पिता खुशोराम भगवत कोमल पितावृजलाल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71	0.190	0.190	
			72	0.220	0.220	
			112/1189/1	0.590	0.590	
			843	0.270	0.270	
84	खलकसींग फूलसींग पिसण बाबूसींग पता साण बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78/1	1.920	1.920	
85	बाबूसींग पिता नारायणज शातोबाई पुत्री खमानसींग कलीबाई पुत्री राजारामसींग खेतसींग संतोष कुंजनसींग राजेन्द्रसींग पिसणराजाराम सींग खलकसींग पिता बाबूसींग पता निष् बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78/2	0.350	0.350	
86	यशवतसींग हाकमसींग राजकुमारसींग पिसण अमोलसींग लोधी पता साण कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	79/1	2.800	2.800	
87	फूलबाई पति अमोलसींग लोधी पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	79/2	1.620	1.620	
88	शिवरानी जोजे हरीराम सीताराम पिण्हेरीराम यादव पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	80/1	0.750	0.750	
			82	0.160	0.160	
89	उमद प्रोतम करनज पिसणदरोआ रामू पिता दरऊ पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	80/2	0.400	0.400	
90	बाबूलाल पिता भागीरथ अहिरवार निवासी किरोला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81/1	0.430	0.430	
91	माया जोजे सीताराम यादव पता साण किरोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81/2	0.430	0.430	
92	नथूसींग शरन सींग पिताहीरासींग लोधी पता निष्कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	83	0.610	0.610	
			86	0.600	0.600	
			87	0.600	0.600	
93	नथूसींग पिता हीरासींगलोधीपता निष् कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84/1	0.340	0.340	
94	शरनसींग पिण्हेरीसींग पता निष्कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	84/2	0.340	0.340	
95	शोभाराम कटारे पिता राम.प्रसाद पता निष् किरोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85	0.550	0.550	

96	रमेश पवेंद्र पिता परमानंद लक्ष्मी पत्नी परमानंद गनपत जगदीश सतोष दिनेश गायत्री पिता शंकरलाल द्वारका पसाद राजू उमेश उर्फ उमाकान्त मुला पिता व्यापसाद पती निधेवरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88	1.600	1.600	
			106	0.590	0.590	
			476	0.360	0.360	
			790	1.110	1.110	
97	मिठू मुलू पिंपचू पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	89	0.810	0.810	
			398	0.040	0.040	
98	पकाश माखन राजेंद्र जयराम पिता मुन्ना पिता मुलु यादव पता सा० विलहनी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90/1	0.380	0.380	
99	महीप अमरासिंह पिता झलकन रजक पता निवासी किरोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90/2	0.380	0.380	
100	यशवन्त सिंह पिता अमोल सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90/3	0.750	0.750	
			92	0.530	0.530	
101	खिलानसीग रामसेवक द्वारकाप्रसाद पिम्बगलसीग श्रीवास्तव पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	91/1	1.500	1.500	
			148/1199	0.020	0.020	
			178/1200	0.050	0.050	
			217	0.320	0.320	
102	सीग छोटेलाल वारलालदेवीसीग पिता खलकसीग पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	93/1	1.410	1.410	
103	साहबसीग पिता उमरावसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	93/2	0.460	0.460	
104	बाबूलाल पिंपदयाराम ब्रा० पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	94/1	0.310	0.310	
			549/1	1.350	1.350	
105	तुलसीराम पिता दयारामब्रा० पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	94/2	0.110	0.110	
			549/2	0.450	0.450	
106	राममनोहर पिंपदयारामब्रा०पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	94/3	0.100	0.100	
			549/3	0.450	0.450	
107	कडोरी वीरन पिता वनकोपता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	95	0.850	0.850	
108	कृष्णकान्त बा० अनुराग बा० अंकित अक्षय नाबा वल्द वलीव खुद मुन्ना पिता दामोदर पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	96	1.110	1.110	
109	शोभाराम पिंप्रामप्रसाद पता निष्ग्राम किरोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	97	0.110	0.110	
			98	0.950	0.950	
110	कडोरी पिता गरधारीकुम्हार पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99	0.720	0.720	
111	कडोरी पिता गिरधारी जनकावेवा गिरधारी कुम्हार पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100	0.580	0.580	
			795	0.440	0.440	

112	नत्थीबाई पुत्री काशीराम ब्राह्मण पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	102	0.220	0.220	
			451	0.100	0.100	
			474	0.230	0.230	
			482	0.180	0.180	
			509	0.500	0.500	
			522	0.760	0.760	
			585	1.620	1.620	
			590	0.750	0.750	
			592	0.520	0.520	
			601	1.670	1.670	
			645	0.960	0.960	
			810	1.280	1.280	
			815	1.100	1.100	
			817	0.110	0.110	
1112	0.540	0.540				
113	हरिकेशन पिष्मागू पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	103	0.830	0.830	
			133	1.160	1.160	
			558	0.410	0.410	
			559	0.830	0.830	
			560	0.340	0.340	
			831	2.070	2.070	
			841	0.440	0.440	
114	गरीबे जगतसिंग पिंसशीभाराम मझलीबहू वेण्शीभाराम संझलीबहू वेण् तुलसीराम मुलाम साहब पिण्त्तुलसीराम रोमवती मल्लो पुत्री तुलसीराम सकलप्माधो गौरीशंकर पिण्बलराम शीलरानी वेवा बलराम जमना गोपीबाई किट्टे पुण्बलराम पता साण देह भूमि स्वामी रामदास उदयराज पिता बाबूलाल कमलबाई पुत्री बाबूलाल महारानी बेवा बाबूलाल स्वाती अन्नो बा पीति नाबा पुत्री करनसींग पालक व खुदमा मीराबाईबेवा करनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104/1	0.490	0.490	
			152/1	0.110	0.110	
			154/1	0.270	0.270	
			189	0.560	0.560	
			196	0.230	0.230	
115	रामदास उदयराज पिता बाबूलाल कमलबाई पुत्री बाबूलाल महारानी बेवा बाबूलाल स्वाती अन्नो बा पीति नाबा पुत्री करनसींग पालक व खुदमा मीराबाईबेवा करनसींग पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104/2	0.250	0.250	
			202	0.130	0.130	
116	मुन्नालाल पिता शोभारामपता निवासी ग्रामभूमि स्वामी	भूमि स्वामी	104/3	0.250	0.250	
			152/3	0.200	0.200	
			154/3	0.560	0.560	

117	कमलाबाई जोजे देवीसिंग पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	107/1	0.460	0.460	
118	श्रीमते राधारानी पति बलराम सोनी पता निवासी सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	107/2	0.450	0.450	
			503/2	0.090	0.090	
119	भरोसींग पिता हरप्रसाद यादव पता साण मुझरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	108	0.550	0.550	
			109/1	0.290	0.290	
			111	0.270	0.270	
120	सूरजबाई जोजे बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109/2	0.390	0.390	
121	गोपी गल्ली पितागगाराम यादव राधारानी मायारानी पुत्री पर्वत पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	110	0.380	0.380	
			556/1	1.930	1.930	
			881/1	0.760	0.760	
			1161/1	1.190	1.190	
			1165	0.030	0.030	
			1167/1	0.130	0.130	
			1170	0.220	0.220	
			1173	0.790	0.790	
122	रामकली जोजे गजाधर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	112	0.450	0.450	
			120/4	0.340	0.340	
			552/3	0.430	0.430	
123	ज्वालाप्रसाद पिता ग्याप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	112/1189/2	0.600	0.600	
			135	0.080	0.080	
			136	0.210	0.210	
			137	0.200	0.200	
			175	0.440	0.440	
			798	0.450	0.450	
124	गोपीसिंग हरीसिंग पिताठाकरदास लोदी पता निष्कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	113	0.600	0.600	
125	दयावाई पति फूलसिंगलोदी पता निष् बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114	0.490	0.490	
126	चन्दनसिंग वल्दसूरतसिंग पता निष् बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	115	0.490	0.490	
127	सन्तो जोजे गरोब पता साण किराला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	116	0.800	0.800	
128	बहादुर पिता दुगोप्रसाद पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	117/1	0.460	0.460	
			118/2	0.440	0.440	
129	दामोदर पिता दुगोप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	117/2	0.460	0.460	
			118/3	0.440	0.440	

130	हरीसींग पिता दुर्गाप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	117/3	0.450	0.450	
			118/4	0.450	0.450	
131	बहादुर दामोदर हरीसींग पिता दुर्गाप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	118/1	0.040	0.040	
132	सिमती वाई जोजे ग्याप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	119/1	1.000	1.000	
133	दीपक कुमार पिता प्रकाश चंद जैन पता निवासी सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	119/2	0.460	0.460	
			121	0.740	0.740	
134	रविन्द्र पिता मनोहरप्रसाद ब्राह्मण निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	120/1	0.400	0.400	
			120/6	0.540	0.540	
135	गजाधर पिता हजारी ब्राह्मण निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	120/2	0.340	0.340	
			120/5	0.450	0.450	
			172/2	0.500	0.500	
			179/1	0.520	0.520	
			552/1	0.350	0.350	
			552/2	0.360	0.360	
			552/5	0.300	0.300	
			596	1.080	1.080	
136	राजा उर्फ देवेन्द्र बन्दी उर्फ दिनेश बिन्दू पिता राजेन्द्र कुमार पत्नी बेवा राजेन्द्र कुमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	120/3	0.340	0.340	
			120/8	0.600	0.600	
			552/4	0.700	0.700	
137	सुशील पिता शारदा प्रसाद तिवारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	120/7/क	0.480	0.480	
138	आशाबाई जोजे मनोहर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	120/7/ख	0.200	0.200	
			120/9	0.280	0.280	
			122/1189/1	0.200	0.200	
			174/2	0.670	0.670	
			179/4	0.520	0.520	
139	गोपी शिबू पिता मंजी बड़ी बेवा मंजी कनई पिता वखती गुलावरानी बेवा वखती यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	122	1.010	1.010	
140	सुधाबाई पति शारदा प्रसाद तिवारी पता साठ देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	122/1189/1/2	0.390	0.390	
141	जवालाप्रसाद पिता प्रसाद ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	122/1189/2	0.600	0.600	
			135	0.080	0.080	
			136	0.210	0.210	
			137	0.200	0.200	

142	चित्तर पिता परमानंद पता निग्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	123	1.050	1.050	
			126	0.610	0.610	
			428	0.040	0.040	
143	ज्वाला प्रसाद पिता ग्याप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	124/1	0.160	0.160	
144	शिवप्रसाद पिता ग्याप्रसाद ब्रा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	124/2	1.000	1.000	
145	शिवप्रसाद पिता ग्याप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	124/3	0.120	0.120	
146	रामदास पिता बाबूलाल यादव पता निग्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	125	0.590	0.590	
			152/2	0.100	0.100	
			154/2	0.270	0.270	
147	वदनसींग पिता मूरतसींगललता पाते भरत यादव पता निग्किरोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	127	1.360	1.360	
			130	0.920	0.920	
			890/3	0.270	0.270	
			1141/2	1.180	1.180	
148	रामदास उदयराज पिता बाबूलाल कमलबाई पुत्री बाबूलाल महारानी बेवा बाबूलाल स्वाती अन्नो बा पीति नाबा पुत्री करनसींग पालक व खुदमा मीराबाईबेवा करनसींग पता निग्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	128	0.360	0.360	
			138	0.300	0.300	
			567	0.550	0.550	
149	ललताबाईपति भरत वीरसींग पि. मूरतसींग यादव पता सा. किरोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	132	0.090	0.090	
			228	0.040	0.040	
			572	3.910	3.910	
150	वनकी तुलसीरामपिता मुलू पता निग्ग्रामभूमि स्वामी	भूमि स्वामी	134	0.050	0.050	
			167	0.610	0.610	
			221	0.170	0.170	
			224	0.170	0.170	
151	रामकृपाल पिता चतुभज पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	136/1190	0.220	0.220	
			606/1206	0.040	0.040	
			631	0.040	0.040	
			632	0.390	0.390	
152	गनश पिता गनपत वेनीप्रसाद बड़ी विन्ना पुत्रीगनपत पता निग्ग्राम भूमि स्वामी अरविन्द नौलेश पिता श्रीराम रानी पुत्री श्रीराम मालती बेवा श्रीराम रोहित मोहित नाबा पिता अशोक कुमार पा मा खुद मा गीताबाई बेवा अशोक कुमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	139	0.630	0.630	
			184	0.960	0.960	
153	कनछेदी पिग्अमरसींगराजपूत पता निग्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	140	0.100	0.100	
			380	0.050	0.050	

154	महतापसीग रामसीग जयसीगपिं मुरत राजरानी वेवा वुद्धे राजकली पुत्रीमुरते यादव पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	141	0.020	0.020
			510	0.340	0.340
			731	0.200	0.200
			734	0.150	0.150
			736	0.060	0.060
155	बहादुरसीग पिणखेलानीसेहराजपूत पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	142	0.070	0.070
156	मथराप्रसाद प्रानसीग पिण्णामचरण रामकिशन अमरसीग रूपसीग पिसो खुमान सरोज मालती पुत्री खुमान सियारानी बेबा खुमान चन्द्रभान सुभाष पिता भवानी संगीता पुत्री भवानी ममतारानी बेबा भवानी पता निष्ग्राम भूमि स्वामी खुमान पिता अजुदीमथराप्रसाद प्रानसीग पिण्णामचरण सुन्दरी पितावृन्द्रावन यादव पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	144	0.030	0.030
			511/1	0.180	0.180
			713/1	0.320	0.320
			715	0.050	0.050
			717/1	0.020	0.020
			720/1	0.290	0.290
			722	0.250	0.250
			726	0.100	0.100
			735/1	0.060	0.060
742/1	0.150	0.150			
157	राघवेन्द्र पिता मनीहरलाल ब्राण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	145	0.150	0.150
			179/2	0.530	0.530
			179/3	0.530	0.530
			209	0.080	0.080
158	प्रहलाद पिता हरीराम यादव पता निवासी बिलहनी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	148/1	0.340	0.340
159	टीकारामपिता पुनू यादव पता साण किरौला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	148/2	0.080	0.080
			150	0.680	0.680
			178/2	0.080	0.080
160	चांद खां पिता अकबर खां रजाक खां पिताशेर खां मुसण पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	155/1	0.290	0.290
			157/1	0.170	0.170
161	चैनसीग पिता गरीबे यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	155/2	0.290	0.290
			157/2	0.170	0.170
162	सत्तार खां पिता हमीद खां पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	156	0.800	0.800
			517	0.400	0.400
163	अब्दुल मुख्तार पिता सुभानखा पता निवासी सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	158/1	0.800	0.800
			158/2	0.370	0.370
			159	1.040	1.040
			165/1	0.810	0.810
			165/2	0.230	0.230

164	जाहर घुमन नाणवा वल्द वली रामप्रसादपिता कन्हेटी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	160/1	0.900	0.900	
165	मीराबाई पति दिनेश गन्नीबाई पाते रामपसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	160/2	0.890	0.890	
166	वीरसोम पिता मूरत सोम पता सा किराला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	162	0.120	0.120	
			164/2	0.080	0.080	
167	अनवरखा पिता अकबरखा पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	164/1	0.860	0.860	
			505/2	0.240	0.240	
			514/2	0.220	0.220	
			688/1	1.200	1.200	
			761/2	0.040	0.040	
168	नथु ननेभाई भरोसे दूरगाप्रसाद किशन पिता मुलु धोवीपता निग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	166	0.460	0.460	
			207	0.210	0.210	
169	माधीसोम उतमसोमभूपेन्द्रसोम वीरसोम पिता अपरवल सोम लौदी पता निग्र बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	168	1.570	1.570	
170	वीरन पिता वनकी रजक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	169	0.020	0.020	
			173	0.210	0.210	
			181/1	0.350	0.350	
171	परमानंद पिता शोवन शिवदीनापिता कलजू पता निग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	170	0.200	0.200	
			180	0.380	0.380	
172	नाथुराम भरोसे पिता मुलुधोवी पता निग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	171	0.730	0.730	
173	रोहित पिता मनोहर ब्रा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	172/1	0.750	0.750	
174	रत्नेश पिता मनोहर ब्रा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	172/3	0.750	0.750	
175	जाहर खिलान पिता मदनलाल पता निग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	174/1	0.670	0.670	
176	परशोत्तम पिण लानजू जैन पता निग्र हाल बन्डा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	176/1198	0.030	0.030	
			293	0.050	0.050	
			293/1201	0.070	0.070	
			306	0.030	0.030	
			948	0.020	0.020	
177	नारान पिता ग्यापसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	176/1	0.540	0.540	
			183/1	0.490	0.490	
178	जानी पसाद पिता ग्यापसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	176/2	0.540	0.540	
			183/2	0.490	0.490	

179	कञ्छेदी पिता मुरतासिंह यादव पता निवासी ग्राम किरौला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	181/2	0.030	0.030	
			182	1.060	1.060	
			185/2	0.090	0.090	
			521	0.330	0.330	
180	अकबर खाँ पिता मुनीर खाँ पता सा० कडारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	185/1	1.650	1.650	
181	मुह० इकराम मुह० हैदरअली मुह० मुजाहिद पिता असलम अलीमा बेबा असलम पता सा.सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	185/3	1.600	1.600	
182	शबाना रामीना पुत्री असलम पता निवासी सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	185/4	0.050	0.050	
183	प्रेमवाड़े पुत्री दमरूपरताप पिण्डमरू पुन्ना पिता परीक्षितनेतनावारी वेवा भूमि स्वामी पारीक्षित पता साण्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	190	0.190	0.190	
			340	0.020	0.020	
184	ओमप्रकाश मोतीलाल राज.कुमारी वेवा मोतीलाल राजा. राम पिण्ड वृजलाल चतुरभुजधनप्रसाद पिता भैयालाल भूमि स्वामी प्रभु रेवानिया गनेश पिण्डकन्दन ग्यावाड़े वेवा कन्दन शेवनारायण दीनदयालगनेश राजेश पिण्डगाराम भूमि स्वामी देवीराज कुमारी ननीपुत्री गंगाराम लक्ष्मी प्रसाद पिण्डवृन्दावन पता निण्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	192	0.070	0.070	
			1020	1.360	1.360	
185	रत्नी वली झलकन मागापिण्डीवन पता निण्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	193	0.030	0.030	
			335	0.030	0.030	
186	वृजरानी वेवा गुन्नेकपुर पिता गुन्ने पता निण्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	194	0.030	0.030	
			195	0.020	0.020	
187	खिलान रामसेवक रेवारामपिता मगलसीग श्रीवास्तव पता निण्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	199	0.040	0.040	
188	सीवेत्रीबाई पुत्री राजाराम पता निण् ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	210	0.070	0.070	
			620	0.810	0.810	
189	गरोब पिता शोभाराम यादव पता निण् ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	211	0.080	0.080	
			417	0.010	0.010	
			419/1196	0.010	0.010	
			423	0.020	0.020	
			526	1.010	1.010	
			873	0.040	0.040	
			875	0.630	0.630	
			1126/1	0.610	0.610	
1129/1	0.940	0.940				

190	नथुवा पिता मोजी कस्तूरीजीरा पुत्रो मोजी बड़ी बहू वेवा जवार पता निग्गाम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	213	0.100	0.100	
			921	0.090	0.090	
191	राम पिता मथुराप्रसाद पता निग्गाम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	214	0.020	0.020	
			512	0.270	0.270	
			708/1	0.080	0.080	
			709/1	0.410	0.410	
			728	0.270	0.270	
			741	0.130	0.130	
192	प्रानसीग पिता रामचरन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	215	0.020	0.020	
			622	0.520	0.520	
			708/2	0.980	0.980	
			712	0.120	0.120	
			714	0.170	0.170	
			716	0.030	0.030	
			718	0.110	0.110	
			719/2	0.270	0.270	
			732	0.210	0.210	
			752	0.650	0.650	
			1018/2	0.210	0.210	
193	ओमप्रकाश पिता मोतीलाल राजकुमारी वेवा मोतीलाल पता निग्गाम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	216	0.190	0.190	
			235	0.030	0.030	
			238	0.030	0.030	
			240	0.190	0.190	
			459	0.130	0.130	
			460	0.100	0.100	
			563	1.840	1.840	
			598	0.290	0.290	
			748	0.370	0.370	
749	0.400	0.400				
194	शिवनारायण पिन्गागराम पता निग्गाम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	219	0.090	0.090	
195	प्रभुदयाल रेवाराम ननेलालगनेशराम पिन्कुन्दनलाल कल्लोवाई उमावाई पुत्रीकुन्दनलाल पता निग्गाम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	220	0.090	0.090	
			844	0.890	0.890	
196	उल्दनवारी वेवा शिवदोनतुलसीराम पिता मूलू वीरन कडोरी पिन् वनकी चमारपता निग्गाम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	222	0.040	0.040	
			225	0.010	0.010	
			226	0.030	0.030	

197	रमेश कुमार पिंपरषोत्तमजैन पता निग ग्रामभूमि स्वामी	भूमि स्वामी	223	0.040	0.040	
			300	0.080	0.080	
198	कच्छेदी वीरसिंग पिता मूरतसीगाने किरोला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	229	0.080	0.080	
			527	0.200	0.200	
			546	0.530	0.530	
			547	0.030	0.030	
199	विष्णुप्रसाद महेशकुमार पिण मूलचंद ननीवाड़े पुत्रीमूलचंद पता निग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	232	0.230	0.230	
			578	0.710	0.710	
			584	0.780	0.780	
			698	0.490	0.490	
200	रामनाथ प्रेमनारायण पितागोरिलाल ब्राण पता निग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	234	0.180	0.180	
			470	0.230	0.230	
			579	0.370	0.370	
			582	1.380	1.380	
			589/1	1.210	1.210	
201	मनमोहन पिता चतुभुज पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	236	0.020	0.020	
			239	0.100	0.100	
			538/1	0.740	0.740	
			629/2	0.390	0.390	
202	मिठुवा पिण रगवर पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	237/1	0.010	0.010	
			975/2	0.010	0.010	
203	गोवधेन पिता रगवर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	237/2	0.010	0.010	
			532/3	0.390	0.390	
			975/3	0.010	0.010	
204	दुर्गा पिता गोकल गोरीशकरापिणगोकल चंदार पता निग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	241	0.150	0.150	
205	उदयचंद पिता साबूलाल जैन पता निवासी सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	242	0.200	0.200	
			754	0.580	0.580	
206	राजेश पिता गगाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	243/1	0.150	0.150	
			243/2	0.140	0.140	
			468	0.130	0.130	
			469	0.150	0.150	
			492/2	0.350	0.350	
			1131	0.080	0.080	

207	मुह सलीम पिता अब्दुल करीम खा पता निणग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	266	0.020	0.020	
208	सुलेमान खा पिण्खुमान खामुष्कनीज की पाते सहादत खामुष्क पता निण ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	361	0.010	0.010	
209	घनश्याम पिता हल्कू सेन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	368/1	0.020	0.020	
			379/1	0.020	0.020	
			515/1	0.080	0.080	
			690/1	0.250	0.250	
			694/1	0.170	0.170	
			695/1	0.130	0.130	
			706/1	0.130	0.130	
210	रेवाराम पिता हल्कू पता सादेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	711/1	0.250	0.250	
			368/2	0.020	0.020	
			379/4	0.010	0.010	
			515/2	0.080	0.080	
			691/1	0.400	0.400	
			694/2	0.170	0.170	
			695/2	0.140	0.140	
211	पूरनलाल पिता हल्कू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	706/2	0.120	0.120	
			711/2	0.250	0.250	
			368/3	0.010	0.010	
			369	0.010	0.010	
			379/3	0.010	0.010	
			515/3	0.090	0.090	
			690/2	0.240	0.240	
			694/3	0.170	0.170	
			695/3	0.140	0.140	
212	मोना पाते ओकारप्रसाद पता निधेवरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	706/3	0.130	0.130	
			711/3	0.250	0.250	
			370	0.030	0.030	
			475	0.270	0.270	
			650	0.230	0.230	
	653	0.850	0.850			
	1113	0.500	0.500			

213	नाथूराम पिता गौरीशंकर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	374	0.020	0.020	
			376	0.100	0.100	
			381	0.020	0.020	
214	वेनीवाड़े पति परसादी पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	375	0.020	0.020	
215	राधारानी देवा बाबूलालरमेश कुमार पिता मुरलीधर पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	377	0.120	0.120	
			452	0.030	0.030	
216	हरीराम पिता वृजलाल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	378	0.030	0.030	
			383	0.020	0.020	
			516	0.050	0.050	
			689	0.750	0.750	
			707/2	0.130	0.130	
			1119/1	0.210	0.210	
217	घनश्याम देवापूरन पिसहल्क मीना सरोज पुत्री हल्क पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	382	0.020	0.020	
			838	0.350	0.350	
218	बीरसींग पिता खिलान टुन्डीबाई उफ अवधरानी देवा खिलान यादव पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	384/1	0.030	0.030	
			393/1	0.010	0.010	
			443/1	0.040	0.040	
			555/1	0.390	0.390	
			612/1	0.650	0.650	
			1155/1	0.280	0.280	
			1162/2	0.410	0.410	
			1163	0.220	0.220	
			1164	0.150	0.150	
			1166	0.040	0.040	
			1171	0.210	0.210	
219	मेताब पिता परमानंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	384/2	0.020	0.020	
			391/1	0.010	0.010	
			393/2	0.010	0.010	
			443/2	0.040	0.040	
			554/2	0.140	0.140	
			555/2	0.250	0.250	
			612/2	0.660	0.660	
			1162/1	1.030	1.030	
			1175	0.130	0.130	
1186	0.230	0.230				

220	पिता नरन यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	384/3	0.020	0.020	
			391/2	0.010	0.010	
			393/3	0.010	0.010	
			443/3	0.040	0.040	
			554/1	0.400	0.400	
			612/3	0.630	0.630	
			1155/2	0.190	0.190	
			1156	0.530	0.530	
			1158/2	0.220	0.220	
			1176	0.480	0.480	
			1177	0.210	0.210	
221	राकेश पिता गुल्ली देववती पिता गुल्ली शिवरानी वेवा गुल्ली पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	551/2	0.470	0.470	
			556/2	0.960	0.960	
			881/3	0.260	0.260	
			1167/3	0.050	0.050	
			1168	0.460	0.460	
222	गोपी पिता गंगाराम यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	551/1	1.430	1.430	
			881/2	0.250	0.250	
			1161/2	0.400	0.400	
			1167/2	0.040	0.040	
			1173/2	0.590	0.590	
			1181/2	0.430	0.430	
223	विश्वनाथ सुरेशकुमारसुरेन्द्र कुमार पिण्डू लाल शरण पिता भैयालाल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	392	0.070	0.070	
224	शिवप्रसाद पिता बहादुरसिंग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	394	0.050	0.050	
			397/2	0.110	0.110	
			453	0.030	0.030	
225	मिठरू पिता गुटई पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	395/1	0.010	0.010	
			472/1	0.030	0.030	
			483/1	0.080	0.080	
			702/1	0.320	0.320	
			1118/1	0.670	0.670	

226	बालकिशन पिता गुटड़े पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	395/2	0.020	0.020	
			472/2	0.040	0.040	
			483/2	0.080	0.080	
			702/2	0.310	0.310	
			1118/2	0.660	0.660	
227	अनंतराम पिता रामरतन पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	396	0.040	0.040	
			432	0.030	0.030	
			450	0.050	0.050	
			506	0.790	0.790	
			654	0.960	0.960	
			859	0.470	0.470	
			865	0.330	0.330	
228	मदन पिता अजुद्धी पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	397/1	0.050	0.050	
			401	0.010	0.010	
			660/1	1.960	1.960	
			839	0.330	0.330	
			854/1	0.190	0.190	
			871/1	1.300	1.300	
229	कलू पिता मरदन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	397/3	0.020	0.020	
			660/2	0.660	0.660	
			854/2	0.140	0.140	
			871/2	0.320	0.320	
230	बाबूलाल पिता मदन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	397/4	0.020	0.020	
			660/3	0.650	0.650	
231	इमरत पिता राजूपता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	397/6	0.010	0.010	
			854/3	0.070	0.070	
			871/5	0.170	0.170	
232	अशोक नावा० पिता राजू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	397/7	0.010	0.010	
			854/4	0.070	0.070	
			871/6	0.160	0.160	
233	दिनेशकुमार पिता बृजमोहन पता निष् ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	399	0.060	0.060	
			658/1	0.050	0.050	
			889/1	0.070	0.070	
			892/1	0.230	0.230	
			894	0.030	0.030	
			1050/1	0.560	0.560	

234	अवधरानी जोजे खिलानसोग सोमतीवाड़े जोजे ग्याप्रसाद पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	400	0.030	0.030	
235	तेजा वेवा गुन्थे पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	403	0.010	0.010	
236	गिरधारी मूलिया पारवतीपुत्री नदू पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	406	0.030	0.030	
			436	0.020	0.020	
			437	0.010	0.010	
			439	0.060	0.060	
			499	0.220	0.220	
			794	0.460	0.460	
237	धनौराम पिता खमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	409	0.010	0.010	
			418	0.020	0.020	
			422	0.010	0.010	
			792/2	0.530	0.530	
			855/2	0.180	0.180	
238	कच्छेदी पिता परमुवाकुम्हार पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	410/1	0.010	0.010	
			447	0.040	0.040	
239	द्वारका पिता परमुवाकुम्हार पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	410/2	0.010	0.010	
240	बाबूलाल पिता दमरू पता निवासी ग्रामभूमि स्वामी	भूमि स्वामी	415/1191	0.030	0.030	
			507	0.880	0.880	
241	शिवदीन पिता मोहनलाल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	415/1193	0.010	0.010	
242	कच्छेदी पिता मागू पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	416	0.040	0.040	
243	दुरजन पिता प्यारेलाल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	419	0.020	0.020	
			419/1197	0.010	0.010	
244	गजू पि. कच्छेदी पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	419/1194/1	0.020	0.020	
			1144/1	1.670	1.670	
245	मितटू पिता कच्छेदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	419/1194/2	0.020	0.020	
			1144/2	1.670	1.670	
246	गुमानो वेवा राजारामदेवावाई पति भागीरथ नि. मोठी काशीराम पतिहरिराम पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	419/1195	0.050	0.050	
247	चिखे पिता कमल कुम्हार पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	420/1	0.040	0.040	
			448	0.060	0.060	
			1104	0.360	0.360	
248	भगोला पिता कमल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	420/2	0.030	0.030	
			421	0.020	0.020	
			1128/2	0.260	0.260	

249	मगन पिता मकुन्दी कुम्हार पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	425	0.010	0.010	
			426	0.040	0.040	
250	काशीराम पिता परसादी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	427	0.030	0.030	
251	जगदीश कुमार सतोष दिनेशकुमार पिंशकरराव ग्या. प्रसाद नारायणप्रसाद रमेश पवेन्द पितापरमानंद लक्ष्मी पुत्री परमानंद पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	429/1	0.060	0.060	
			791/1	1.230	1.230	
			847/1	0.240	0.240	
			1143/1	1.910	1.910	
252	द्वारकाप्रसाद राजेन्द्रप्रसाद उमेश पिंस ग्याप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	429/2	0.020	0.020	
			791/2	0.410	0.410	
			847/2	0.080	0.080	
			1143/2	0.670	0.670	
253	रगवीर पिता धनसीग पावती पीति फूलवती पुत्री धनसीगलाइली बेवा धनसीग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	430	0.090	0.090	
254	शकर पिता नथू पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	431	0.050	0.050	
255	लछ्मन पिता फदाली पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	435	0.010	0.010	
			438	0.030	0.030	
256	पूरनलाल पिता खुमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	440/1	0.080	0.080	
			792/1	0.530	0.530	
			855/1	0.170	0.170	
257	खिलान पिता खुमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	440/2	0.090	0.090	
			792/3	0.520	0.520	
			855/3	0.180	0.180	
258	मगल पिंमकुन्दी पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	441	0.200	0.200	
259	नाथुराम पिता पचा पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	442/1	0.020	0.020	
			884/1	0.170	0.170	
			1132/1	0.760	0.760	
260	गिब्बा पिता पचा काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	442/2	0.030	0.030	
			884/2	0.160	0.160	
			904	0.020	0.020	
261	मकुन्दा पिता जालम पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	444	0.030	0.030	
			857	0.630	0.630	
262	मलु पिता कमल कुम्हार पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	445	0.040	0.040	
			492/1	0.100	0.100	
			619	0.870	0.870	
			1128/1	0.250	0.250	

263	सीताराम पिता चतुर्भुज पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	457	0.010	0.010	
			629/1	0.450	0.450	
264	छोट खोटा पितारमजानखो वीर खा नवाब खा मजीद खा दाम खा पिता फूलखा अमीना बीपत्री फूलखा सुमतरानी बेवा फूलखा पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	458	0.170	0.170	
			534	0.550	0.550	
			683	1.700	1.700	
			756	0.420	0.420	
265	उमाशंकर मनोहर सतोष राजेन्द्र देवेन्द्र बलराम पिसण लक्ष्मीप्रसाद ब्राण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	461	0.220	0.220	
			539	1.180	1.180	
			603	0.850	0.850	
266	दीनदयाल पिता गगाराम पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	463	0.330	0.330	
			464	0.170	0.170	
			465	0.090	0.090	
267	केशवप्रसाद पिष्णगू पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	466	0.150	0.150	
268	आशीषकुमार वन्द बलरामप्रसाद नत्थीवाड़ पुत्री काशीराम ब्राण पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	467	0.180	0.180	
			586	0.470	0.470	
			593	1.040	1.040	
			644	1.120	1.120	
			809	0.640	0.640	
			1114	1.220	1.220	
269	सुन्दरलाल पिता कमीदावेश्वकमी पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	471	0.080	0.080	
			485	0.160	0.160	
			691/2	0.230	0.230	
			703	0.340	0.340	
			788	0.240	0.240	
			1117	1.330	1.330	
270	कमलरानी बेबा हरप्रसाद पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	473/1	0.040	0.040	
			484/1	0.080	0.080	
			1116/1	0.600	0.600	
271	वीरसिंग कल्लु धमन्द सुखनन्दन पिता मगल यशोदा नाबा पुत्री मगल पा व खुद मा श्रीबाई बेवा मगल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	473/2	0.040	0.040	
			484/2	0.080	0.080	
			1116/3	0.600	0.600	
272	इश्वरीप्रसाद पिता रामचरणपता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	477	0.080	0.080	
			493	0.440	0.440	
			730	0.110	0.110	
			744	0.350	0.350	

273	सत्यम श्याम पितावद्रीप्रसाद वेदवती वेवा वद्रीप्रसाद पंखीवाईविनतीवाई पुत्री नाणा भूमि स्वामी पुत्री वद्रीप्रसाद ब्राण पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	478	0.080	0.080	
			647	0.300	0.300	
			662	0.260	0.260	
			743	0.660	0.660	
274	जयकुमार पिता लक्ष्मीप्रसाद विजयकुमार राज. कुमार पिण लक्ष्मीप्रसादब्राणपता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	479	0.120	0.120	
			863	0.780	0.780	
275	कुलदीप पिता मनोराम यादव पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	480	0.100	0.100	
			802	0.380	0.380	
			803	0.710	0.710	
			814/3	0.390	0.390	
276	रेवाराम मुरलीधर पितामंगलसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	481	0.110	0.110	
277	मंगल पिण मागू पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	486	0.310	0.310	
278	दशदाबाई वेवा रतनलाल मंगलसींग पिता मागू पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	487	0.180	0.180	
279	राजेशकुमार पिता गगारामपता निष् ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	488	0.100	0.100	
			489	0.220	0.220	
			490	0.730	0.730	
			491	0.140	0.140	
			561	1.010	1.010	
280	मिहु पिता कच्छेदी पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	495	1.000	1.000	
281	राजु पिता मरदन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	496	0.720	0.720	
282	अरशद खा निजाम खा उबेश खा पिता सहादत खाराबिया बी शादिया बी पुत्रिया सहादत खा कनीज बी बेवा शहादत खा नईम खा शहबाज बा रोहिल नाबा शमी पिता बख्तखा शायना बी बखत खा पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	497/1	0.220	0.220	
			498/1	0.750	0.750	
283	यसुफ खा पिता बाबूखा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	497/2	0.220	0.220	
			498/2	0.630	0.630	
284	तिज्जा हल्केभाई पितापरमानंद नोमानवारी वेवा परमानंद हल्की पुत्रीपरमानंद पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	500	0.190	0.190	
			931	0.150	0.150	
285	हीरालाल पिता लक्ष्मन पटेल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	502	0.570	0.570	
286	विश्वनाथ पिता बडूलाल छोटलाल पिता रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	503/1	0.100	0.100	

287	मनोराम कालूराम सोहनपिता भागीरथ मसीवावाई वेवा भागीरथ यादव पता नि० ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	504	0.230	0.230	
288	जमीला बी पति सफीखा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	505/1	0.240	0.240	
			761/1	0.040	0.040	
289	अविनाश नाबा वली भरत पिता मूरतसोग पता निवासी किरोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	508	0.610	0.610	
290	अमरसोग पिता खुमानसोग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	511/2	0.070	0.070	
			713/2	0.150	0.150	
			717/2	0.020	0.020	
			720/2	0.280	0.280	
			735/2	0.070	0.070	
			742/2	0.110	0.110	
291	सुधीर कुमार पिता निमेल कुमार जैन पता साँ सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	513/1	0.190	0.190	
			513/2	0.130	0.130	
			701	0.470	0.470	
			823	0.940	0.940	
292	गनीखा पिता हमोदखामुस० पता नि० ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	514/1	0.220	0.220	
			687/3	0.210	0.210	
			759	0.230	0.230	
			760	0.200	0.200	
			762/2	0.030	0.030	
293	सबरानी पति मूरतसोग संतोषरानी पति कछेदी यादव पता नि. किरोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	520	0.650	0.650	
			890/1	0.070	0.070	
			1141/1	1.360	1.360	
294	जगत सोग पिता शोभारामपता नि० ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	518	0.570	0.570	
295	श्रीदेव जानकी रमण जीमोजा देह मुण्वृजमोहनसोग प्रबंधक श्रीमानकलेक्टरमहोदय सोगर पता साण्देहभूमि स्वामी	भूमि स्वामी	523	0.850	0.850	
			610	1.360	1.360	
			840	0.330	0.330	
296	प्रदीप पिता हल्ले यादव परशोत्तम पिता रामशरण यादव पता नि०ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	524	0.480	0.480	
297	रतीराम भगवान दास पिण्लक्षमन पता नि०ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	525	0.320	0.320	
298	कलू हल्ले टीकाराम पि शरण रामवतीवाई वेवा शरणबड़ी विन्ना हल्लकी विन्नापुत्री शरण पता नि०ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	528	0.160	0.160	
			545	0.630	0.630	
299	लखन रुपनारायण जगदीश सुरेश पिता बाबूलाल गडरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	529/1	0.230	0.230	
			613/1	0.540	0.540	

300	लच्छोवाड़े पति भगवानदास पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	530	0.150	0.150	
301	पूरनलाल पिता खुमान पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	531	0.310	0.310	
			667/1	0.170	0.170	
			805	1.010	1.010	
			856/1	0.450	0.450	
			860/1	0.210	0.210	
			862/1	0.420	0.420	
302	बबू पिता रगवर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	532/1	0.090	0.090	
			975/1	0.010	0.010	
303	हल्कीबाड़े पुत्री गफला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	532/4	0.400	0.400	
304	कलू हल्के टीकाराम पिताशरण रामवती वाई वेवा शरण बड़ी विन्ना हल्कीविन्ना पुत्री शरण पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	533	1.500	1.500	
305	छिंदू खा पिता प्यारें खा मुसण पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	535	0.360	0.360	
306	जगरानी वेवा अनंदियापुनू लखनलाल पिता अनंदिया नाई पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	536/1	0.160	0.160	
			833/1	0.390	0.390	
			1089/1	0.100	0.100	
			1095/1	0.150	0.150	
307	होरालाल पिंसुन्दरलाल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	537	1.400	1.400	
308	जयनारायण पिता चतुभुज तिवारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	538/2	0.790	0.790	
309	शेख मुख्तार पिता अमीरखा पता साण करबना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	540/1	0.820	0.820	
310	गनीखा पिता अमीरखा पता साण करबना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	540/2	0.830	0.830	
311	रतीराम पिता लक्ष्मन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	541/1	0.350	0.350	
312	माखन पिता रतीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	541/2	0.110	0.110	
			542	0.170	0.170	
			543	0.520	0.520	
313	अवधरानी जीजे खिलान यादव पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	544	0.520	0.520	

314	अमरसीग देवसीग पिसेग गोलीसीग पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	548	1.370	1.370	
			1105/2	0.490	0.490	
315	रामकिशन अमरसीग रूपसीग पिता खुमान सरोज मालती पुत्री खुमान सियारानी बेबा खुमान चन्द्रभान सुभाष पिता भवानी संगीता पुत्री भवानी ममतारानी बेबा भवानी पता निष्गाम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	553	0.850	0.850	
			636	0.410	0.410	
			721	0.170	0.170	
			723	0.160	0.160	
			740	0.210	0.210	
			1085	1.570	1.570	
			1142	1.770	1.770	
316	मागू पिता थावन पता निष्गाम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	557	0.490	0.490	
317	दीनदयाल पिता गगारामसदीप पिता शिवनारायण ब्राण पता निष्गाम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	562	1.420	1.420	
318	अमरसीग पिता गोरिलालजगरानी देवा गोरिलाल पता नि.बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	564/1/1	0.730	0.730	
319	प्यारिलाल पिता तिजडरेकवार पता निष्सलैया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	564/1/2	0.400	0.400	
			565	0.160	0.160	
320	रामकलीवाड़े जोजे भागोरथरेकवार पता निष्सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	564/2	0.160	0.160	
			566	0.550	0.550	
321	शारदाबाड़े पिता शोभाराम पता निष्उल्दन ब्राण भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	569	1.040	1.040	
			587/2	0.790	0.790	
322	जगदीश दयाचंद पिण काशीरा पता निष् संमरा अहीर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	570	1.410	1.410	
323	कलू पिता बारिलाल पता सा संमरा अहीर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	571/1	0.340	0.340	
324	करनसीग पिता उमद कलू पिता बारिलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	571/2	1.060	1.060	
325	उमाशकर पिता लक्ष्मीप्रसाद पता निष्गाम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	574	0.720	0.720	
326	उदयचंद पिता साबूलाल सुषमाबाड़े पति उदयचंद जैन पता साण सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	576/1	1.600	1.600	
327	श्रीमती सरोजलता पति प्रकाश पाण्डे पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	577/1	0.690	0.690	
328	चन्द्रशेखर पिता भगवतशरण मिश्रा पता सा रजौआ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	577/2	0.080	0.080	
329	उदयचन्द पिता साबूलालजैन पता सा पतनगर वाई सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	577/3	0.120	0.120	
330	कमला पति महेंद्र पता निष्गाम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	583	0.590	0.590	
			699	0.520	0.520	
331	सतोषकुमार पिता लक्ष्मीप्रसाद पता निष्गाम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	587/1	0.800	0.800	

			1127/1	0.170	0.170	
332	महेन्द्र पिता रामनाथ पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	587/3	0.790	0.790	
			589/2	1.210	1.210	
333	गनेश पिता गगाराम पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	591	0.430	0.430	
334	गनेश पिता गगाराम पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	591/1205	0.430	0.430	
335	बलराम पिता नभेदा प्रसाद पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	594	1.310	1.310	
			751	0.110	0.110	
336	रामलाल बाई पति गजाधरप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	595/1	0.230	0.230	
337	साशश नावा पिता सुशील कुमार पिता कडोरी लाल पता निवासी सांगर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	595/2	0.460	0.460	
			595/3	0.450	0.450	
338	मनीहर पिता लक्ष्मीप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	597/1	0.360	0.360	
			597/2	0.370	0.370	
			597/3	0.370	0.370	
339	महेन्द्र जितेन्द्र पिस. बलराम जाति सोनी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	599	0.670	0.670	
			600	0.740	0.740	
340	हाकमीसिंह रजौत सिंह गोपालसिंह नाबा पिता रामपसाद लोधी वली मा मालतीबाई बेवा रामपसाद लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	604/1	0.270	0.270	
			608	0.490	0.490	
341	कन्हैयालाल पिता घुरके पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	604/2	0.140	0.140	
342	भोले देवीसींग भुवानी लीलाधर रमेश पिता बलची बड़ी विन्ना कलो पुत्री बलची सावित्रीबेवा बलची पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	617	0.380	0.380	
			872/2	2.040	2.040	
343	गनपतीपिता कगल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	618/1	0.660	0.660	
344	बाबूलाल पिता मुलू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	618/2	0.160	0.160	
345	मथुराप्रसाद प्रानसींग पिष्णामचरण निष्ग्राम सावित्री वाई पुत्री विनायक रावकमला वाई वेवा विनायकरावपता निष्नागपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	621	0.490	0.490	
346	मनोराम कालूराम सोहन पिता भागौरथ पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	624	1.290	1.290	
347	हरिनारायण पिष्ण धनप्रसाद ब्राण पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	633	0.610	0.610	
348	जयसींग पिता मूरतसींग यादव पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	634/1	0.390	0.390	
			634/2	0.390	0.390	
			635	0.230	0.230	

349	हरिदास पिता कगल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	637/1	0.190	0.190	
350	रामसोम पिता मूरतसोम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	637/2	0.400	0.400	
351	सीताराम पिता चतुरभुजराज पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	638	0.750	0.750	
352	कगल पिता छमाला पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	639	0.410	0.410	
			933	0.030	0.030	
353	रधीरसोम पिता मूरतसोम यादव पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	640	0.410	0.410	
354	गरऊ हल्लू भवा नन्नभाई विश्राम पिता गफला गिरजाबाई पुत्री गफला लटकारी बेवा गफला पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	641	0.520	0.520	
			642	0.480	0.480	
			700	0.520	0.520	
			950	0.140	0.140	
355	जयराम पिता फूलन पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	648/1	0.090	0.090	
			651/1	0.100	0.100	
			866/1	0.140	0.140	
356	मनोज कुमार पिता गनेशराम शुक्ला पता निवासी ग्रामभूमि स्वामी	भूमि स्वामी	648/2	0.070	0.070	
			651/2	0.130	0.130	
357	शकर पिता फूलन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	648/3	0.100	0.100	
			651/3	0.090	0.090	
			866/2	0.140	0.140	
358	गनपत पिता फूलन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	648/4	0.100	0.100	
			651/4	0.090	0.090	
			866/3	0.140	0.140	
359	आशाराम पिता फूलन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	648/5	0.100	0.100	
			651/5	0.100	0.100	
			866/5	0.130	0.130	
360	मुन्नी ललिता दशोदा पुत्री फूलन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	651/6	0.030	0.030	
361	देवेन्द्र पिता रूपकाछी पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	652/1	1.610	1.610	
362	उत्तमचंद पिता रूप काछी पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	652/2	1.120	1.120	
			656/2	0.470	0.470	
363	अजयकुमार पिता अनतरामसेनी पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	655	0.700	0.700	
364	गाविन्दसोम पिता रूपकाछी पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	656/1	0.500	0.500	
			664	0.200	0.200	

365	हरलाल पिता कल्याण पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	663	0.700	0.700	
366	पूरन कम्मोदीपता दयाराम पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	665	0.190	0.190	
367	पूरन कम्मोदी पिता दयाराम उमाबाई रोहित बाई पुत्री दयाराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	666	0.330	0.330	
368	भरोसे पि० खुमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	667/2	0.160	0.160	
			856/2	0.460	0.460	
			860/2	0.210	0.210	
			862/2	0.410	0.410	
369	राजू पि० हल्काई पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	668	0.320	0.320	
370	रामकिशन वल्द हल्काई चमार पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	669	0.340	0.340	
371	हल्काई पिता जालम पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	670	0.340	0.340	
			671/2	0.060	0.060	
			674	0.600	0.600	
372	हल्काई पिता जालम भागचंद पिता हल्काईपता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	671/1	0.840	0.840	
373	पकाश सुनील पिता काशीरामपता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	672	0.470	0.470	
			673	0.620	0.620	
374	कुन्दन पिता हल्केया पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	675	0.460	0.460	
375	मंदावाई जीज हल्काई चमार पता निष्ग्रामभूमि स्वामी	भूमि स्वामी	676	0.330	0.330	
			677	0.320	0.320	
376	सफीखा पिता अकबरखा पता सा० देहभूमि स्वामी	भूमि स्वामी	678	0.130	0.130	
			680	0.600	0.600	
			688/2	0.600	0.600	
			757	0.530	0.530	
377	वली मूहम्मद पिता हमीद खां भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	679	0.140	0.140	
			681/1	0.360	0.360	
378	राजेश पिता अमरसींग पटेल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	681/2	0.240	0.240	
379	रामराजा वल्द गरीब यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	682/1	0.080	0.080	
			682/2	0.090	0.090	
			684/1	0.400	0.400	
380	सलीम खा पिता बाबू खा मुस० पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	684/2	0.190	0.190	
			684/3	0.990	0.990	

381	शमीम नावाण पिता सुन्नू ऊर्फ शरीफ खाँ वली व खुद माँ अमीनाबी बेवा सुन्नू ऊर्फ शरीफखाँ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	685	0.570	0.570	
			762/1	0.040	0.040	
382	नसीमन बी पति जब्बार खाँ पता साँदेह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	686	0.550	0.550	
383	सौरभ नाबा पिता गफार खाँ शबाना नाबा पुत्री गफार पा मा खुद शमीना बी बेवा गफार खाँ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	687/1	0.600	0.600	
384	जब्बार खाँ पिता हमीद खाँ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अधिपत्य कषक जब्बार खाँ पिता हमीद खाँ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	687/2	0.600	0.600	
			764/3	0.300	0.300	
385	सुधाबाई पति दयाचंद पता साँ सेमरा अहोरा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	692	0.630	0.630	
386	केशव पसाद पिता मागू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	693	0.630	0.630	
			1116/2	0.120	0.120	
387	ललिताबाई पति भरत बदनसींग पिता मुरतसींग निवासी किरोला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	696/3	0.810	0.810	
388	श्याम रानी पति राममुरत विश्वकमा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	704	0.340	0.340	
389	शिवमगल पिता रिखीराम पता निवासी ढाना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	705	0.460	0.460	
390	गुलई पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	707/1	0.250	0.250	
			710	0.750	0.750	
391	जवार पिता मथुराप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	708/3	0.090	0.090	
			709/2	0.400	0.400	
			725	0.230	0.230	
			733	0.140	0.140	
			738	0.130	0.130	
392	शालकराम पिता मथुराप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	719/1	0.270	0.270	
			724	0.420	0.420	
			727	0.070	0.070	
393	रामनाथ काशीराम प्रकाश प्रवीण गोविन्द वल्लद दरयाव पटैल पता साँ मैनपानी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	750	0.100	0.100	
			771	1.330	1.330	
394	सतोष रानी पति मथुराप्रसाद यादव पता निग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	753	1.510	1.510	
395	बुजेश कुमार पिता ग्याप्रसाद तिवारी पता सा सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	755	0.480	0.480	
396	अब्बास खाँ पिता हमीद खाँ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	758	0.520	0.520	

397	हफीज खा पिता बाबूखा मुसण पता निण ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	763/1/1	0.090	0.090	
			763/2	0.260	0.260	
			764/1/1	0.330	0.330	
			764/2/1	0.340	0.340	
398	प्रदीप पिता माधव प्रसाद तिवारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	763/1/2	0.180	0.180	
			764/1/3	0.120	0.120	
			764/2/2	0.100	0.100	
			1181/1	0.430	0.430	
			1187/3	0.120	0.120	
399	रुकसाना पीते अनवरखा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	764/1/2	0.290	0.290	
400	रामदयाल पिता कलू पटेल पता साण तिली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	765	0.140	0.140	
			766/4	3.860	3.860	
401	श्रीमति ज्योति पीते पूरनलाल पटेल पता साण सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	766/1	1.450	1.450	
402	रामनाथ पिता दरयाव पटेल पता साण मैनपानी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	766/2	1.450	1.450	
403	काशीराम पिता दरयाव पटेल पता साण मैनपानी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	766/3	1.450	1.450	
404	प्रवीण पिता दरयाव पटेल पता साण मैनपानी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	766/5	1.450	1.450	
405	गोविन्द वल्द दरयाव पटेल पता साण मैनपानी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	766/6	1.450	1.450	
406	प्रेमबाई पीते जगतसिंग पता निणग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	767	0.780	0.780	
407	शरीफ खा अनवर खा पिता अकवर खा मुसण पता निणग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	768	0.380	0.380	
			770	0.380	0.380	
408	रामनाथ प्रवीण काशीराम पिता दरयाव पटेल पता साण मैनपानी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	769	1.330	1.330	
409	मलखान रामदयालपिता मकुदा इन्दरानी बेबा मकुन्दापता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	774/1	1.290	1.290	
			916/1	0.060	0.060	
			920/1	0.020	0.020	
410	विकासराव पिता विनायकराव पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	774/2	1.100	1.100	
411	गुड्डा उर्फ शिवचरन पिता लुक्खा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	774/3	0.940	0.940	
			916/3	0.040	0.040	
			920/3	0.010	0.010	
412	देवेन्द्र बा० सोनु बा० हेमराज बा० गनेश नावा० कैलाश नावा० पिता रामचंदा वली वखुद माँ कमलरानी बेबा रामचंदा रेखा भगवो जानकी शिल्पा पुत्रिया रामचंदा पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	774/4	0.350	0.350	
			916/2	0.030	0.030	
			920/2	0.010	0.010	

413	ताती पिता छिम्मा चमार पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	775/1	0.660	0.660	
414	प्रेमरानी जीजे ताती हरप्रसाद कनई जवार पिताताचमार पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	775/2	1.650	1.650	
415	प्रकाश पिता भैयालाल जैन पता साण बहरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	775/3	1.000	1.000	
416	मनोराम पिता भागोरथ यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	776	0.710	0.710	
			777	0.970	0.970	
417	श्रीमति आशाबाई पति लखन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	779	0.340	0.340	
418	सुजना पिता विहारी हरीरामलखन पिणचिखा वनीवाई बेवा चिखा चमारपता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	780	0.740	0.740	
			783	0.780	0.780	
			977/1	0.050	0.050	
419	चिन्तामन पिता लखू आशाबाई बेवा लखू पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	781/1	0.120	0.120	
			782/1	0.480	0.480	
420	भूर पिता हल्के नत्थी पावती पुत्री हल्के जानकी बेवा हल्के पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	781/2	0.200	0.200	
			782/2	0.480	0.480	
421	प्रीति पुत्री लखू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	781/3	0.080	0.080	
422	रम्म उर्फ रामरतन पिता सुन्दरलाल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	784/1	0.150	0.150	
			789/1	0.350	0.350	
423	हल्ले पिता सुन्दरलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	784/2	0.150	0.150	
			789/2	0.360	0.360	
424	पुन उर्फ पूरनलाल पिता सुन्दरलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	784/3	0.160	0.160	
			789/3	0.350	0.350	
425	दीपक वल्द गुलई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	785	0.230	0.230	
426	फूलवाई पति कडारी कुम्हार पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	786	0.620	0.620	
427	हल्ले पुन पिता सुंदर लाल विश्वकर्मा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	787	0.240	0.240	
428	खिलान पिता खुमान पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	793	0.430	0.430	
429	जानकी मातीलाल पिताशिवदयाल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	797	0.560	0.560	
430	ऑनिल आमत पिता शकर पटेल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	799	0.470	0.470	
431	शकर महेश पिता वशी विन्नी पावती पुत्री वशी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	800	0.440	0.440	
			867/1	0.510	0.510	
432	गफलू पिता मुलू पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	801	0.450	0.450	
433	गोपीलाल वल्द दुरजन पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	804	0.460	0.460	
			812	0.670	0.670	

434	मालतीवाड़े पति पूरनलाल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	806/1	0.840	0.840	
435	मनीहर शिवप्रसाद पितामुल्ले पता निष्ग्राम तिलो सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	806/2	0.400	0.400	
436	गुड्डू चिंतामन पिता कडोरा रज्जोबाई पि कडोरा कंती बेवा कडोरा पार्वती पुत्री गोकल सीताराम गोविंद पिता दुर्जन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	807	0.530	0.530	
437	मोतीलाल पिंशवलाल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	808	0.280	0.280	
			816	0.110	0.110	
			819	0.420	0.420	
438	गोकल सीताराम गोविन्द पिता दुर्जन दुर्गोबाई बेवा दुर्जन गुड्डू चिन्तामन पिता कडोरी रामबाई पुत्री कडोरी बड़ी बहू बेवा कडोरी पता निष्ग्रामभूमि स्वामी	भूमि स्वामी	811	0.740	0.740	
			813/1	0.130	0.130	
			867/2	0.130	0.130	
			869	0.130	0.130	
439	छोटलाल पिता प्यारलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	813/2	0.140	0.140	
440	जनक पिता श्यामलाल पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	814/1	0.250	0.250	
441	गोकल पिता लखमन पटेल पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	814/2	1.110	1.110	
			880/3	0.290	0.290	
442	गनपत पिता फूलन पटेल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	814/4	0.400	0.400	
			851/2	0.190	0.190	
443	पचू पिता श्यामलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	814/5	0.250	0.250	
444	सुकके पिता श्यामलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	814/6	0.250	0.250	
445	शरू प्रदीप पिता भूरा दुर्गोबाई बेवा भूरा सरोज पुत्री भूरा हल्कू जसरथ पिताभदेया गौरीवाई पुत्री भदेया पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	820/1	0.330	0.330	
			822/1	0.460	0.460	
446	शिवराज पिता जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	820/2	0.330	0.330	
			822/2	0.110	0.110	
			826/2	0.190	0.190	
			827/2	0.170	0.170	
			834/5	0.310	0.310	
447	नंदू पिता धनुवा रमवाड़ेवेवा धनुवा लखन परमू चौदा पिता ओलम बड़ीबहू वेवाओलम द्रोपती मीरा पुत्री भूमि स्वामी ओलमपता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	821	0.620	0.620	
448	छोटलाल पिता प्यारलालकाछी पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	824	0.420	0.420	

449	बेनीबाई जोजे जगन्नाथ यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	825	0.450	0.450	
450	नन्नेभाई पिता जगन्नाथ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	826/1	0.360	0.360	
			834/2	0.060	0.060	
			1123/2	0.280	0.280	
451	गोपाल पिता जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	828	0.090	0.090	
			832	0.090	0.090	
			834/1	0.090	0.090	
			835	0.500	0.500	
452	कल्याण पिता जगन्नाथ यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	829/1	0.420	0.420	
			830	0.090	0.090	
			837	1.090	1.090	
453	राजेंद्र पिता जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	829/2	0.220	0.220	
			834/3	0.480	0.480	
454	अशोक पिता जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	829/3	0.220	0.220	
			834/4	0.470	0.470	
455	विमलरानी पति जगदीश पता नि. बण्डा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	833/2	0.390	0.390	
			1089/2	0.090	0.090	
			1095/2	0.130	0.130	
456	अरविन्द पिता जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	834/6	0.200	0.200	
			1119/2	0.210	0.210	
			1123/3	0.280	0.280	
457	जगन्नाथ पिता भयालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	836	0.460	0.460	
458	कन्हैयालाल पिता घुरके पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	842/1	0.240	0.240	
459	गोकल पिता भागीरथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	842/2	0.240	0.240	
460	मिहु विहारीपता गफलू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	845	0.440	0.440	
461	हरिकेशन पिता मांगूकोशावाई पुत्री मांगू लटरा पुत्री मांगू कनईपिण्डुरका पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	846	0.440	0.440	
462	गोकल पिता भागीरथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	849	0.250	0.250	
			850	0.240	0.240	
			851/1	0.480	0.480	
			852	0.250	0.250	

463	कलू भैरवलाल मन्ना हल्केबब्बू पिता मरदन पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	853/1	0.180	0.180	
			861	0.080	0.080	
464	जनकरानी पति पूरन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	853/2	0.140	0.140	
			871/3	0.330	0.330	
465	देवीसिंग वन्द भगानी पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	858/1	0.590	0.590	
466	उमा पिता मन्नूलाल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	858/2	0.200	0.200	
467	पप्पू पिता फूलन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	866/4	0.080	0.080	
468	शकर पिता वशीधरकाछी अमृता पुनम बबोता नीतू पिता महेश पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	868	0.340	0.340	
469	श्री बाई आजादरानी पुत्री रामप्रसाद महारानी बेवा रामप्रसाद सा. सलैया व सगरी पता निवासी ग्राम भूमि	भूमि स्वामी	872/1	2.050	2.050	
470	मनोषा पति अरविन्द्र पटेल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	876	0.400	0.400	
471	बाबा भगाले मुलू वीरनापिता ग्यासी पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	878	0.860	0.860	
472	गजू पिता कन्छेदी काछी पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	879	0.670	0.670	
473	सुखलाल पिता लछमन पटेल पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	880/1	0.320	0.320	
474	अरविन्द्र पिता बलराम पता साण बम्हारी रेगुवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	880/2	0.300	0.300	
475	पचा पिता मगला हरलालपिता कल्याण पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	883	0.080	0.080	
			886	0.090	0.090	
			905	0.010	0.010	
476	गिब्बा पिता पचे कुसुमरानी पति खुमान देवी पिता नथू पटेल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	885/1	0.100	0.100	
477	जगदीश पिता गोकल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	885/2	0.600	0.600	
478	नथू पिता पचा पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	887	0.270	0.270	
479	प्राणसींग पिता रामचरणसंतोष रानी जोजे मथुरा प्रसाद यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	888	0.040	0.040	
480	बलराम प्रसाद पिण्णमेदाप्रसाद नथीवाड़े पुत्री काशीराम ब्राण पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	891	0.520	0.520	
481	जल सशाधन विभाग बाबरी मटया बाध काषि विभाग मू प्र शासन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	892/2	0.110	0.110	

482	चिखू मलू भगोले पिताहिम्मत उमा पुत्री मन्जू निष्काम मधुकर राव पितामोनाजीराव पता निष्काम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	893	0.080	0.080	
483	प्रेमबाई पिता हल्ले भाई प्रजापति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	896	0.160	0.160	
			897	0.050	0.050	
484	चिखे मलू भगोले पिता कमल जानकी पुत्री कमल मगन सुब्बी नन्दू पिता मकुन्दी नत्थी लच्छी गोमता गीता पुत्री मकुन्दी देवकाबाई बेवा मकुन्दीपिता जालेम चरोमन हल्के भाई पिता कुन्दन राज पुत्री फकीरे सुक्काबाई पत्नि फकीरे लालाराम बेबलू विनोद पिता लल्लू पावतीबाई पत्नि लल्लू पता निष्काम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	898	0.240	0.240	
485	हिमालय पिता सोहन यादव पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	901	0.130	0.130	
			902	0.010	0.010	
			906	0.040	0.040	
486	चन्द्ररानी जोजे शिवप्रसाद पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	903	0.010	0.010	
487	लाइले पिता मलू सोमनाथबाई बेवा मकुन्दा पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	907	0.060	0.060	
488	ताती रन्तू पिता दुर्जनकल्लोबाई जानबाई शारदा बाई पुत्री दुर्जन सिव्वानाण्वाणपिता पालक रमुवा पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	908	0.040	0.040	
			924	0.080	0.080	
489	करोड़ी मुन्ना पिता बालचदचौरासिया पता निष्काम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	909	0.010	0.010	
490	आशाराम पिण्णुचें तंजाबाईवेण्णुचें कडौरा पिण्णिरधारी छौटीबाई पुत्रीगिरधारी पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	910	0.050	0.050	
491	ताती रन्तू पिता दुर्जन पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	911/1	0.020	0.020	
492	गुलाबसिंग साहबसिंग पितातुलसीराम यादव पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	911/2	0.060	0.060	
493	फूलाबाई मेदाबाई पुत्री पचू पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	912	0.200	0.200	
494	कडौरा वसारा राजू पिता धनुवा बड़ीबहू बेवा धनुवा धनसींग बणवेलोआ पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	915	0.020	0.020	
			927	0.030	0.030	
			928	0.020	0.020	
495	चौदा पिता मुलुवा पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	917	0.030	0.030	
496	दोलत पिता दरौआ वमूरावारीबेवा दरौआ चमार पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	918	0.020	0.020	
			926	0.010	0.010	
497	अजुदिया पिता कुदऊ बड़ीविन्ना छौटी विन्ना पुत्री कुदऊ मलुवा मिठुवा पिसण्णुवा मझलीबहू बेवा भूमि स्वामी पंचुवापता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	922	0.040	0.040	
			945	0.020	0.020	
			946	0.460	0.460	

498	कन्ना पिता शेवदीन सहाद्रीशेवदीन पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	923	0.040	0.040	
			949	0.020	0.020	
499	अजीता मलुवा पिसणमम्माहार पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	925	0.030	0.030	
			976	0.040	0.040	
500	परसादी पिता मल्ला पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	929	0.060	0.060	
501	मदेया परताप पिताकन्छेदी पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	930	0.070	0.070	
502	हरीराम लखन पिण्छेखावेनीबाई बेवा खिखा पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	932	0.020	0.020	
503	कलुवा पिता लालचंद पालेयापानेया पुत्री वालचंद पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	934	0.110	0.110	
504	नथुवा पिता रत्नी पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	951	0.040	0.040	
505	सरस्वती पुत्री खुमान पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	952	0.040	0.040	
506	मनीष पिण् हरगोविन्द पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	977/2	0.050	0.050	
507	मनीज पिता राजेन्द्र पता निवासी कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1034/2	1.010	1.010	
508	सुनीता पति बहादुर यादव पता निवास ग्राम भूमि स्वामी *	भूमि स्वामी	1047	1.520	1.520	
			1048	1.480	1.480	
			1050/3	1.060	1.060	
509	मुहम्मद मुखतार खा पिता सुभान खा मुसण पता निष्सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1049	0.080	0.080	
			1086	1.280	1.280	
510	वट्टलाल पिण्दम्मा परसादीमनुवा बुद्धा पिता हरिया पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1051	0.330	0.330	
			1091	0.130	0.130	
			1092	0.130	0.130	
			1151	0.330	0.330	
511	रतन मलुवा पिण् लालजमुल अनदी पिता बहरिया पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1093	0.070	0.070	
512	मगल बाबू पिता मुलू पता निष्उल्दन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1094/1207	0.020	0.020	
513	पूरन खिलान अजुदी पिताखुमान पचा पिता मगला पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1105/1	0.500	0.500	
514	हरीराल पिण्मगल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1115/1	0.320	0.320	
515	कमलाबाई जोजे मनीराम कुलदीप वल्द मनीराम यादव पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1115/2	0.800	0.800	
			1115/3	1.000	1.000	
516	गोरीशकर पिता गोकल पता निष्ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1121/1	0.360	0.360	
517	नंदराम पिता प्यारलालचदर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1121/2	0.360	0.360	

518	नंदराम पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1121/3	0.090	0.090	
519	हाकम रामकेशन गोविन्द पिता प्यारेलाल चदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1121/4	0.270	0.270	
520	मिठठू पिता पचू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1122/1	0.570	0.570	
			1146/1	0.660	0.660	
521	मूल पिता पचू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1122/2	0.580	0.580	
			1146/2	0.650	0.650	
522	कोमल पति प्यारेलाल पता निग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1123/1	0.600	0.600	
523	मीराबाई पति नन्हैभाई यादव अन्जोबाई वल्द अरविन्द पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1124/1	0.460	0.460	
524	कौशिल्याबाई पति नबदाप्रसाद यादव पता साण राजीव नगर सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1124/2	0.560	0.560	
525	रामवती शकुनवाड़े लटकनवाड़ेपुत्री कुजी चदार पता निग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1125	0.430	0.430	
526	देवी पिता नन्धू पटेल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1132/2	0.760	0.760	
527	बुददू पिता परमाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1135	0.770	0.770	
528	पिलई पिता परमू पता निग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1145/1	0.130	0.130	
529	सुहागरानी जोजे गजराज फूलरानी जोजे मिठठू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1145/2	0.360	0.360	
530	गायाबाई पति वीरसिंह यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1160	0.220	0.220	
531	रामलाल पि. ख्वसीग पता निवासी वेरखेरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1169	0.830	0.830	
			1174	0.720	0.720	
			1179	0.070	0.070	
			1180	0.080	0.080	
			1185	0.190	0.190	
कुल योग			1173	499.330	499.330	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासनिक निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 15ए-82-18-19-866.—

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371/2018/एम.पी.एस./31/1742/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/19/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :-

हनौता सिंचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला

सागर

2. तहसील

खुरई

3. ग्राम

हनौता

4. पटवारी हल्का नं.

26

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

78.680 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

क्र.	भूमि स्वामी कानाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7
1	अभिषेक कुमार पिता महेन्द्र कुमार बडकुल पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85	1.820	1.820	0.000
			89	2.870	2.870	0.000
2	पदमचंद पिता निशानचंद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86	1.850	1.850	0.000
3	संतीष चंद पदम चंद जैन त0 निशान चंद जैन पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	87	2.620	2.620	0.000
4	आलम पि. भगोला पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88	0.910	0.910	0.000
5	हीरालाल दत्तकपुत्र खेमचंद पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90	2.600	2.600	0.000

6	हरप्रसाद पिता मुल्ले पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	91	1.710	1.710	0.000
7	राजकुमार गंभीर कमलाबाई सविता उर्फ सावित्री बाई पिता इमरतिया श्यामरानी बेवा इमरतिया पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92	0.750	0.750	0.000
8	गुन्या पिता रामचंद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	93	1.210	1.210	0.000
			219	0.790	0.790	0.000
9	मानक सुरेश पिता कुन्दलाल लक्ष्मी पुत्री कुन्दलाल रामरानी बेवा किशनलाल अहिरवार पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	94/1	0.860	0.860	0.000
10	कल्याण रामबाबू प्रभा अनीता सुनीता पि0 जगन मुहरबाई बेवा जगन अहिरवार पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	94/2	0.870	0.870	0.000
11	अभय कुमार पिता धन्नालाल पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	173	2.440	2.440	0.000
12	जमना तुलाराम पिता आशाराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	174	1.170	1.170	0.000
13	फूलन बाई बेवा जगन्नाथ पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	175	2.180	2.180	0.000
14	विजय कुमार पिता कुन्दनलाल पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	176/1	1.840	1.840	0.000
15	सुनील कुमार सुधीर नीता राखी सरिता पिता अशोक कुमार आशाबाई बेवा अशोक कुमार पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	176/2	1.850	1.850	0.000
16	भोला शंकर पिता विन्द्रावन पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	178	1.710	1.710	0.000
17	भगवती प्रसाद पिता विन्द्रावन पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	179	0.820	0.820	0.000
			190/1	2.470	2.470	0.000
18	पदम कुमार पिता धन्ना लाल पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	180	2.020	2.020	0.000
			181	2.420	2.420	0.000
19	फूलसिंग पिता हिम्मत पता सा.सतनाई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	183	0.700	0.700	0.000
20	राजाराम पिता खूबे पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	184	0.610	0.610	0.000

21	कुअरसीग निरभे मुकेश प्रीतम सन्तोष ना-वा- पिता नन्दराम रामवती पुत्री नन्दराम वली वेखुद प्रेमरानी वेवा नन्दराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	185	0.610	0.610	0.000
22	उत्ताराबाई पति बजलाल पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	186	0.620	0.620	0.000
23	मल्थू उमराव पिता रामदयाल पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	188	0.600	0.600	0.000
24	इदरीस खान पिता इसरायल खान पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	189	2.310	2.310	0.000
25	दिनेशकुमार पिता भगवतीप्रसाद पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	190/2	2.000	2.000	0.000
26	द्रोपती बाई पति मूरत सींग पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	191	3.090	3.090	0.000
27	घासीराम ओमप्रकाश पिता मंहगू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	192/1	0.810	0.810	0.000
28	ओमप्रकाश पिता मंहगू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	192/2	0.400	0.400	0.000
			238/2	0.370	0.370	0.000
29	नारायण रामचंद्र राम कृष्ण अभय कुमार पि गोटीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	193	1.630	1.630	0.000
			244	5.660	5.660	0.000
30	रामकली बाई पति लछमन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	201/1	0.500	0.500	0.000
31	महताप पिता कलू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	203	0.780	0.780	0.000
32	नत्थू पूरन पिता दीनदयाल हल्कीबेन पिता दीनदयाल पता सा.सतनाई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	206	0.400	0.400	0.000
33	आमिर पिता इकराम नीलू रेशमा पिता इकराम पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207	0.200	0.200	0.000
34	गुलाब पिता हरप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	210	0.400	0.400	0.000
35	हल्काई पिता सटोले पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	215	0.500	0.500	0.000
36	कोमलबाई पति मिटठू पुत्री रम्पे अहिरवार पता सा खुरई	भूमि स्वामी	218/1	0.670	0.670	0.000
37	राजेश अरविंद रामवती कपूरीबाई पिता दुर्जन बैटीबाई वेवा दुर्जन पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218/2	0.680	0.680	0.000
38	कोमल बाई पति मिटठू पुत्री रम्पे पता निवासी ग्राम खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218/3	0.670	0.670	0.000

39	गनेशीबाई वेवा छुट्टे अमोलसीग मुन्नालाल पिता छुट्टे छोटीबाई उर्फ दुलारी वेवा रामदयाल हरिशचन्द वा शिवराज ना.वा.पिता रामदयाल वलीमाँ छोटीबाई उर्फ दुलारी ववीता पुत्री रामदयाल अहिरवार पता सा-देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	220	1.510	1.510	0.000
			221	0.140	0.140	0.000
40	गनेश पिता गजू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	222	0.180	0.180	0.000
			223	1.820	1.820	0.000
41	ओम प्रकाश पिता जगन्नाथ पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	225	0.790	0.790	0.000
42	किरण रानी पत्नि ओम प्रकाश पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	226	0.840	0.840	0.000
43	कैलाश चंद पिता जगन्नाथ पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	227	0.840	0.840	0.000
44	भगवती प्रसाद रामचंद कुन्दनलाल भोलाशंकर पिता विन्द्रावन रामनाथ फूलचं पिता चतुर्भुज पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	228/1	0.830	0.830	0.000
45	शुभम ना.वा.पिता व पालक प्रेमप्रकाश पिता भगवतीप्रसदा पता निवासी ग्राम खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	228/2	0.210	0.210	0.000
46	हेमलता पत्नि प्रेमप्रकाश आसाटी पता निवासी ग्राम सुभाष वाई खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	228/3	0.210	0.210	0.000
47	गोपाल पिता धन्ना पता सा.देह शासकीय पट्टेदार से	भूमि स्वामी	229/1	0.890	0.890	0.000
48	टीकाराम पिता धन्ना अहिरवार पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	229/2	0.890	0.890	0.000
49	चतुर्भुज मोजीलाल कस्तूरीबाई पिता मुल्ले जयबाई वेवा मुल्ले पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	231	0.920	0.920	0.000
			232	0.120	0.120	0.000
			233/2	0.120	0.120	0.000
			236	0.840	0.840	0.000
50	फूलचंद पिता तुलाराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	234	0.500	0.500	0.000
51	प्रहलाद पिता भरोसे पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	235	0.500	0.500	0.000
52	किशन बलराम गोपाल कमलाबाई फूलाबाई कपूरीबाई पिता हरजू अहिरवार पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	237	1.190	1.190	0.000

53	आजादरानी पत्नि प्रकाश पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	238/1	0.400	0.400	0.000
			238/6	0.400	0.400	0.000
54	घासीराम पिता मंहगू कुंशवाहा पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	238/3	0.650	0.650	0.000
55	सीताराम पिता मेगू पता सा0-देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	238/4	0.310	0.310	0.000
56	दुर्गाप्रसाद पिता प्रकाश पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	238/5	0.210	0.210	0.000
57	कृष्णाबाई देवा कुन्दनलाल पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	239	0.170	0.170	0.000
58	हीरालाल प्रहलाद मायाबाई लीलाबाई राधाबाई पिता	भूमि स्वामी	242	1.210	1.210	0.000
	मुन्ला अहिरवार पता सा.खुरई भूमि स्वामी					
योग			70	78.680	78.680	0.000

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निदेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र 22ए-82-17-18-891.—

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :-

बण्डा परियोजना बण्डा बांध

(2) भूमि का विवरण :-

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. जिला | सागर |
| 2. तहसील | बण्डा |
| 3. ग्राम | नीमोन |
| 4. पटवारी हल्का नं. | 15 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 60.690 |

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.	अर्जित भूमि (रकवा हे.में.)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	लोटनसींग पिता औतारफूलसींग गुलझारसींग पिता भगुन्तसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2	1.090	1.090	
2	गुलझारसींग पिता भगुन्तसींग पता सा. देह भूमि स्वामी		3	0.340	0.340	
			11	0.900	0.900	

3	भरतसींग उर्फ प्रानसींग पिता भोपालसींग पता सा. बेसली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4	0.310	0.310	
			7/2	0.240	0.240	
			8	0.800	0.800	
4	प्रतापसिंह वल्द मलखानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/1	0.080	0.080	
5	प्रहलादसींग पिता मलखानसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/2	0.080	0.080	
6	विन्द्रावन पिता चूरन सींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/3	0.080	0.080	
			36/1	0.100	0.100	
			210/4	0.170	0.170	
7	गिरजाबाई जोजे अमोलसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	0.190	0.190	
8	भगवानसिंह पिता हीरासिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/1	1.000	1.000	
			137	0.080	0.080	
9	कुन्जनसींग वल्द खिलानसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	0.160	0.160	
			15	0.410	0.410	
			18	0.160	0.160	
10	अमोलसींग पिता मंगलसींग लोधी पता सां. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16	0.580	0.580	
11	जयबाई जोजे कुन्जन सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/1	0.200	0.200	
12	विपत पि. वीरसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/2	0.480	0.480	
			22/4	0.250	0.250	
			24/1	0.150	0.150	
			24/2	0.560	0.560	
13	मुलू विजय पिता दरयाव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19/1	0.480	0.480	
14	वीरेन्द्र देवेन्द्र पुष्पेन्द्र धर्मेन्द्र पिता नारायण सींग पता सा बड़कुआ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19/2	0.480	0.480	
15	महेन्द्र पिता गुलाव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/1	0.100	0.100	
			20/4	0.200	0.200	
			42/2	0.070	0.070	
16	मुलाम पिता नारानजू देवेन्द्र सुजान पिता थानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/2	0.220	0.220	
17	चन्द्रवती जोजे गुलाव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/3	0.200	0.200	
18	सरदारसिंह पिता जनकसिंह लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21	0.140	0.140	
19	दरयाव पिता भगुन्तसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	22/1	2.660	2.660	
20	उत्तम पिता बीरसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	22/2	0.800	0.800	
21	बबलू पिता वीरसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	22/3	0.400	0.400	

22	लोटनसींग रामसींग परतापसींगपिता औतारसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23/1	0.490	0.490	
23	ममता बाई पिता नरेन्द्र सिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23/2	0.480	0.480	
24	प्रेमनारायण पिता भगवान सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	35	0.810	0.810	
			211	0.580	0.580	
25	श्रीबाई जोजे महाराजसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38	0.120	0.120	
26	भगवानसिंह पिता रूपिया पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39/1	0.650	0.650	
27	प्रेमसींग पिता राजकुमार सौर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39/2	0.090	0.090	
28	राजेशसिंह पिता भगवानसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40/1	0.150	0.150	
29	साहबसिंह मदन पिता भीकम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40/2	0.150	0.150	
30	साहबसिंह मदनसिंह पिस. भीकमसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40/9	0.150	0.150	
31	लाखन पि लटकन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42/1	0.210	0.210	
			139	0.430	0.430	
32	रूपसिंह पिता आधारसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42/3	0.070	0.070	
			134	0.100	0.100	
33	निरतापसिंह पिता आधारसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42/4	0.070	0.070	
34	संतोष पिता खिलान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	46	0.370	0.370	
			55/2	0.750	0.750	
35	राजेन्द्रसिंह नारायणसिंह पिस. भीकमसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	49	0.560	0.560	
36	रामाधर पिता धनीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55/1	1.490	1.490	
37	प्रेमनारायण पिता खिलान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55/3	0.750	0.750	
38	शेरसींग राघवेन्द्र केशरी पिस. छत्तरसींग कस्तूरीबाई वेवा छत्तरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	133	2.120	2.120	
39	झलकनसींग पिता कुददूसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	135	0.080	0.080	
40	श्रीपाल पिता भीकमसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	209	0.520	0.520	
41	भीकमसींग पिता सरमन यादव पता सा. पडवार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	210/1	0.650	0.650	
			210/2	0.170	0.170	
			210/3	0.170	0.170	

42	संजलीबहू बेवा हीरासींगभोपालसींग भगवानसींग भीकमसींग पिता हीरासींगमलखानसींग पिता मरदनसींग भूमि स्वामी विन्द्रावन टीकाराम पिताचुन्नीलाल कोशाबाई बेवा चुन्नीलाल फूलबाई बेवाननाई भूमि स्वामी अमोलसींग पिता मंगलसींगसीताबाई बेवा मंगलसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	212	0.320	0.320	
43	रगवीर पिता रामसींगयादव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	213	0.060	0.060	
44	भुन्जोबाई बेवा बद्रीकल्लोबाई पुत्री बद्री पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	214	1.390	1.390	
			308	0.130	0.130	
			326/2	0.020	0.020	
			329/2	0.020	0.020	
45	पानबाई पुत्री मोहनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	215	0.030	0.030	
46	दयाराम हुकुम वली हरीसींग पिता वन्दे वीरसींग पिता वखतसींग कुसुमरानी बेवा वखतसींग तुलसी पिता कडू कडोरी पिता जगन्नाथ धनसींग पिता गुलाब. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	216	0.140	0.140	
47	टीकाराम सीताराम कृष्णपाल हरभजन पिस. नथू मेंदाबाई बेवा नथू पता सा. पड़वार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	217	1.490	1.490	
48	रामलाल पिता हीरालाल सियारानी बेवा हीरालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	218	1.300	1.300	
49	राजू ब्रिजेश पिता मोती गुलाबबाई बेवा मोती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	219/1	0.080	0.080	
			228/1	0.580	0.580	
50	धनीराम उर्फ धनसींग पिता भगोनी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	219/2	0.090	0.090	
			228/2	0.570	0.570	
51	बल राम पिता नन्नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	220/1	0.070	0.070	
			286/4	0.400	0.400	
52	सुख साहब पितातुलसीराम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	220/2	0.120	0.120	
			286/2	0.720	0.720	
			292	0.200	0.200	
			294	0.120	0.120	
53	लक्ष्मीनारायण पिता ननाई यादव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	220/3	0.060	0.060	
			286/1	1.200	1.200	
54	कडोरी पिता जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	221	0.080	0.080	
			231	0.490	0.490	
			290	1.360	1.360	
			307	0.080	0.080	
			224	0.190	0.190	

			225	0.230	0.230	
			325	0.240	0.240	
			328	0.020	0.020	
			330	0.090	0.090	
			333	0.090	0.090	
			334	0.110	0.110	
55	शिवराज रामकिशोर पिता चूरामन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	229/1	0.320	0.320	
56	कमला जोजे जयराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	229/2	0.240	0.240	
57	जयराम पिता नथू पता सा. पडवार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	230	0.370	0.370	
58	लोटन सूरत भरतपिता बैजनाथ देशराज प्रवेश कैलाशरानी सन्ध्या पिता श्रीराम देवकीबाई बेवा श्रीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	232	0.450	0.450	
			297	0.190	0.190	
			299	0.620	0.620	
			302	1.090	1.090	
59	रामलाल पिता हीरालाल सियारानी बेवा हीरालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	233	1.020	1.020	
			288	1.980	1.980	
			306	0.520	0.520	
			309	0.660	0.660	
60	मुन्ना गुपाल पिताद्वारका लच्छोबाई पुत्री द्वारका पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	234/1	0.230	0.230	
61	मुन्ना गुपाल पिताद्वारका पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	234/2	1.210	1.210	
62	माखन पिता गुलई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	235/1	0.710	0.710	
63	मुन्ना पिता गुलई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	235/2	0.710	0.710	
64	फूलसीग वीरसीग पिता वखतसीग कुसुमरानी बेवा वखतसीग सुखराम राजू पिता चूरामन दयाराम हुकम बली हरीसीग कल्याण पिता वन्दे शीलरानी बेवा वन्दे पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	236	0.130	0.130	
			287	0.140	0.140	
65	राजेन्द्र राजेशपिता सुखसाहब पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	286/3	0.770	0.770	
			293	0.230	0.230	
66	नंनाई पिता फदाली यादव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	291	0.490	0.490	
67	धनप्रसाद पिता गुलाब पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	295	0.190	0.190	
			300	0.790	0.790	
			301	1.450	1.450	

68	कड़ोरी पिता जगन्नाथकाशीबाई बेवा जगन्नाथ लोटन श्रीराम मूरत भरतपिता बैजनाथ नईबहू बेवा भूमि स्वामी बैजनाथ शांति पुत्रीबैजनाथ पता सा.उल्दन भूमि स्वामी धनप्रसाद पिता गुलाब पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	298	0.150	0.150	
69	उत्तरसींग पिता उद्वेतसींग पता.सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	303	2.710	2.710	
			331	0.030	0.030	
70	पुट्टा चेता पिता खुमान पता सा.पड़वार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	304	1.050	1.050	
71	जयराम सीताराम नर्मदा भरत पि. काशीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	305	0.050	0.050	
72	जगत पिता बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	310/2	1.390	1.390	
			326/4	0.020	0.020	
			329/4	0.020	0.020	
73	दरोगा सिंह भोले विश्वनाथ भगवानसींग रामसींग महेश पिता हरीराम द्रोपती बाईबेबा हरीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	323	1.830	1.830	
			326/3	0.020	0.020	
			329/3	0.020	0.020	
74	कोमलचन्द्र जयकुमार पिताकन्हैयालाल राजेन्द्र दिलीप पिता पदमचन्द्रदयाचंद बाबूलाल पिता भूमि स्वामी छिगोलालसा.सागर कड़ोरीलाल पिता जगन्नाथ पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	324	0.300	0.300	
75	बूठे साहब पिता नथू फूलबाई वेवा नथू पुष्पेन्द्र पिता राजधर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	326/1	0.020	0.020	
			329/1	0.020	0.020	
76	बूठे साहब पिता नबूफूलबाई बेवा नबू पुष्पेन्द्र ना.वा. पिताराजधर पा.चाचा बूठे भूमि स्वामी बंदी हरीराम जगत पिताबाबूलाल गनेश पिता बिहारी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	327	0.120	0.120	
कुल :-			131	60.690	60.690	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्रमांक 21A-82-17-18-892

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का स्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक श्र.12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :-	बण्डा परियोजना बण्डा बांध
(2) भूमि का विवरण :-	
1. जिला	सागर
2. तहसील	बण्डा
3. ग्राम	डहकुली
4. पटवारी हल्का नं.	10
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	16.190 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

क्र.	भूमि स्वामी कानाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7
1	रामसिंह पिता मरदन सिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2	0.170	0.170	
			20	0.58	0.58	
2	करनसिंह पिता त्रिलोकसिंग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3	0.400	0.400	
			10/2	0.540	0.540	
			41/1	0.100	0.100	

3	प्रहलादसींग, जालमसींग पितादरयावसींगस, देवीसिंह जनकसिंह, जगतसिंह पितागुलझारसिंह, अमरसिंह ना.वा. भूमि स्वामी परम पूरन पिता मंगलसींग जानकीबाई पुत्री मंगलसींग सुखसींग महाराजसींग कल्यानसींग पिता फूलसींग बाई पुत्री फूलसींग वीरसींग पिता परतापरामकुंवर बाई बेबा परतापसींग राजबाई गीताबाई पुत्री परतापसींग सतेन्द्र नावा० पिता नारान सींग पा० व खुद मीं राजकुमारी बेबा नारानसींग डालसींग पिता पंचमसींग करनसींग लक्ष्मनसींगपिता त्रिलोकसींग भूमि स्वामी गुलझारसिंह, नंनीबहू बेबा गुलझारसिंह भूमि स्वामी रम्माबाई पुत्री भोपाल सिंहरंधीर सिंह, जसरथसिंह, नंनेसिंह, उजयारसिंह पिता भूमि स्वामी किशोरसिंह, मेंदाबाई, दुर्गाबाई, रत्तीबाई, गंगाबाई पुत्री किशोरसिंह, शंकरसींगरामसींग, मूरतसींग पिता भूमि स्वामी मर्दनसींग, पिस. धीरजसींग छुट्टीसींग इमरतसींग, शिवराजसींग जाहरसींग सुम्मेरसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी बदनसींग पिस. सूरजसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4	0.730	0.730	
4	लखनसिंह पिता परमसिंह लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	1.25	1.25	
5	रंधीरसींग जसरथसींग नंनेसींग पिता किशोरसींग वीरसींग पिता परतापसींग कुंवरबाई बेबा परतापसींग राजबाई गीताबाई पु. परतापसींग सतेन्द्र पिता नारानसींग राजकुमारी बेबा नारानसींग डोलनसींग पिता पंचमसींग सुखसींग महाराजसींग कल्यानसींग पिस.फूलसींग बाई पुत्री फूलसींग गोपीबाई बेबा फूलसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी छुट्टीसींग इमरतसींग शिवराजसींग जाहरसींग भूमि स्वामी मर्दनसींग, पिस. धीरतसींग छुट्टीसींग इमरतसींग, शिवराजसींगजाहरसींग मुम्मेरसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी बदनसींग पिस. सूरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8	1.130	1.130	
			34	1.40	1.40	
6	प्रहलादसिंह वल्द दरयावसिंह लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9	1.250	1.250	
			48	0.420	0.420	
7	भूरेसींग पिता धीरजसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	10/1	0.540	0.540	
			123/2	0.020	0.020	
8	मूरतसिंह पिमरदनसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11/1	0.760	0.760	
			23	0.350	0.350	
9	परतापसींग फूलसींग बलीसींग पिस. भगवानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12/1	0.200	0.200	
10	जनकसींग पिता उमरावसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12/2	0.190	0.190	
			13/1	0.920	0.920	
11	इमरत सिंह गोविंद भरत बदन पिस. मलखान सिंह बेनीबाई पुत्री मलखान सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12/3	0.58	0.58	

12	निखिल नावा. पिता गजेन्द्र पिता परताप सींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12/4	0.200	0.200	
13	डालसींग पिता उमरावसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/3	0.30	0.30	
14	डालसींग पिता उमराव प्रताप बल्ली फूलसींग पिताभंगवानसींग मल्लो श्यामा माया मोती पुत्री भूमि स्वामी भगवानसींग, मलखान, पितारघुनाथ, खसकू. गिरवर पिता गजराज, कल्लू पिता गुलाबमोतीवारी बेबा गुलाब पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	0.880	0.880	
15	पर्वतसिंह पिता छोटेसिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16	0.150	0.150	
16	देवीसींग जनकसींग जगतसींग पिस. गुलझारसींग नरेश अनुज नावा. पि. अमरसींग खुशबू नावा. पि. अमरसींग पालक वखुद माँ सरोजबाई वे. अमरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/1	0.060	0.060	
			22	0.300	0.300	
			26/1	0.110	0.110	
			26/2	0.100	0.100	
17	रतनेश ना. बा. वल्द वली सुम्मेरसींग वली चाचा शिवराजसींग पिता सूरतसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18	0.390	0.390	
18	शंकरसिंह पिता मरदनसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19	0.300	0.300	
19	राजाराम पिता रंधीरसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21	0.280	0.280	
			125/2	0.600	0.600	
20	मानसींग पिता जसरथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25	0.230	0.230	
			30	0.560	0.560	
21	जालमसींग पिता दरयावसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/2	0.050	0.050	
22	पूरनसिंह पिता मंगलसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	27	0.190	0.190	
			44	0.850	0.850	
23	लालसींग पिता धीरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28	0.410	0.410	
24	महाराजसिंह पिता फूलसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31	0.370	0.370	
25	लखन पिता भगवानदास पता नि. ग्राम सेवा खातेदार ग्राम नोकर	भूमि स्वामी	32	0.580	0.580	
26	वीरसींग पिता प्रतापसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33	0.360	0.360	
27	लक्ष्मण सिंह पिता त्रिलोक सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	41/2	0.510	0.510	
			123/3	0.080	0.080	
28	सुखसींग महाराजसींग कल्यानसींग पिस. फूलसींग बाई पुत्री फूलसींग गोपीबाई वेवा फूलसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42	1.370	1.370	
			54	1.470	1.470	
29	पर्वत सिंह पिता छोटेसिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45/1	0.340	0.340	
30	छुट्टीसींग इमरतसींग शिवराजसींग जाहरसींग, सुम्मेरसींग बदनसींग पिस. सुम्मेरसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	47	0.470	0.470	
31	रंधीरसिंह पिता किशोरसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	49	1.220	1.220	
32	उजयारसिंह पिता किशोरसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53/1	0.350	0.350	
33	बलवंत सिंह पिता इमरत सिंह अजय पिता जाहर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53/2	0.800	0.800	
34	परमसींग पिता मंगलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45/2	0.190	0.190	

35	नथू हल्के पिता शंकर पता सा. सेवारा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	121/1	0.340	0.340	
36	किशोरसिंह पिता शालकराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	121/2	1.610	1.610	
37	शंकरसींग, रामसींग, मूरतसींगपितामरदनसींग, मझलीबहू बेबा मरदनसींग, त्रिलोकसींगपिता प्यारेलाल भूमि स्वामी मंगलसींग पि.भोपालसींगगरम्माबाई पुत्री भोपालसींग रन्धीरसींग जसरथसींगफूलसींग नन्नेसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी उजयारसींगपिस. किशोरसींग मेंदाबाई मंगाबाई दुर्गाबाई रत्तीबाई पुत्रियांकिशोरसींग छुट्टीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी इमरतसींग शिवराजसींग जाहरसींग बदनसींग पिस. सूरतसींग जालमसींग प्रहलादसींग पिस दरयाव पता निवासी ग्राम भूमि	भूमि स्वामी	123/1	0.810	0.810	
38	जनकसींग पिता गुलझारसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	125/3	0.250	0.250	
39	मुलू पिता नवल पता सा. देह शासकीय पट्टेदार लगान	भूमि स्वामी	126	0.640	0.640	
योग			55	16.190	16.190	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है; के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निदेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है; के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 20A-82-18-19-893

गिलटौरा पटवारी हल्का नं. 38 तहसील खुरई

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371/2018/एम.पी.एस./31/1742/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/19/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हैक्टेयर, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :-

हनौता सिंचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला

सागर

2. तहसील

खुरई

3. ग्राम

गिलटौरा

4. पटवारी हल्का नं.

38

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

74.380 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

क्र.	भूमि स्वामी कानाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमति मिथलेश पति देवी सिंह पता सा-ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/1	0.100	0.100	0.000
			7	0.940	0.940	0.000
			8	0.940	0.940	0.000
			24	1.080	1.080	0.000
			66/1	2.490	2.490	0.000
			69/2	1.850	1.850	0.000
2	हल्कई पिता मौजीराम रम्पा पिता मौजीराम रम्पा पिता मोजीराम पता सा. महुनाजाट भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5	0.080	0.080	0.000
			10	1.450	1.450	0.000
3	सूरतसिंह पिता किशन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	0.400	0.400	0.000

4	बलवन्त पिता परमा पता सा. महूनाजाट भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9/1	0.250	0.250	0.000
5	प्रेमबाई पत्नि फूलसींग राजपूत पता सा.सा महूनाजाट भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9/2	1.620	1.620	0.000
6	समकली पति समलाल सा देह खुई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11/1	1.110	1.110	0.000
7	प्रेमबाई पुत्री रामाधार सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11/2	0.800	0.800	0.000
8	हेमन्त नाबा० पिता हम्मीर सिंह केशव नाबा० पिता हल्केराम पालक हम्मीर सिंह पता सा बसिया गौड भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12	2.060	2.060	0.000
9	अमरसींग पिता चेतू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13	1.950	1.950	0.000
10	भुवानी गज्जू वा.हरदास वीसींग ना.वा. पिता पुन्नी वली माँ खुद सियाबाई बेबा पुन्नी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	0.900	0.900	0.000
11	रामप्रसाद पिता कडोरा पता सा.कजरई सेवा खातेदार	सेवाभूमि	17	4.300	4.300	0.000
12	प्रथम पिता गुपाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18	0.740	0.740	0.000
			39	0.240	0.240	0.000
13	नारान पिता खिलान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19	1.250	1.250	0.000
14	नारान पिता खिलान सूरतसींग रम्मू पिता किशन शक्कोबाई रामवतीबाई जमनाबाई पुत्री किशन सुनीता बा० सुरेन्द्र नाबा० पिता जंगल पालक व खुद मां कुसुमबाई बेवा जंगल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20	1.310	1.310	0.000
15	लखन सुनीता भरत ओकार लक्ष्मी ना वा पि धनु पा मा जानबाई वेवा धनु पता निवासी ग्राम शासन से प्राप्त भूमि भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21	1.160	1.160	0.000
16	पप्पू पिता चेतू पता सा.देह शासन से प्राप्त भूमि भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	22	1.860	1.860	0.000

17	लक्ष्मी प्रसाद अरविद कुमार पि हल्काई सुमंत्रा बाई बेवा हल्काई सा खुरई पता सा खुरई शासन से प्राप्त भूमि भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23	1.160	1.160	0.000
18	कमला बाई पति रमेश कुमार सा खुरई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी (कमला बाई पत्नी रमेश कुमार पता सा खुरई सर्वे नं. 28/2 अधिपत्य कृषक)	भूमि स्वामी	26	0.330	0.330	0.000
			28/2	0.100	0.100	0.000
19	लालसींग रघुवर नारान परमोबाई कोमलबाई बारीबाई पिता भगोनी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	27	0.880	0.880	0.000
20	कल्याण गोविन्द भारत मेहरवान पिता नारायण जानबाई बेबा नारान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28/1	0.170	0.170	0.000
			29/1	0.440	0.440	0.000
21	नथू पिता करन सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	29/2	0.200	0.200	0.000
			30	1.820	1.820	0.000
22	राजाभाई उर्फ रजुवा पिता मुलुवा पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	32/1	1.930	1.930	0.000
			42/1	0.110	0.110	0.000
23	रामचरन पिता मुलुवा पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	32/2	1.920	1.920	0.000
			42/2	0.110	0.110	0.000
24	रामकली पति मर्दन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33	1.770	1.770	0.000
25	गुवरे पिता कडोरी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38	0.860	0.860	0.000
			41	0.400	0.400	0.000
26	अमरसींग पप्पू गुडडी पिता चेतु पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39/179	1.410	1.410	0.000
27	गुलाब सिंह पिता खिलानसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43	0.200	0.200	0.000
28	मन्दिर श्रीहनुमान जीमहराज मुहदौलतसींग पिता खिलानसिंह प्रबंधक कलेक्टर महो. सागर पता सा.देह	भूमि स्वामी	44	0.330	0.330	0.000
29	भुवानी गज्जू हरदास वीरसींग पिता पुन्नी सियाबाई बेवा पुन्नी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45/1/2	0.340	0.340	0.000
30	तुलसीराम पिता कुदऊ सा देहु पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45/2	0.330	0.330	0.000
			45/1/1	0.340	0.340	0.000

31	शैलेन्द्र सिंह पिता भैयालाल श्रीमति रूपवती पति भैयालाल दांगी पता सा0 खजरा हरचंद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	57	2.100	2.100	0.000
32	शान्तिबाई बेवा गिरधारी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	62	0.910	0.910	0.000
33	कुदऊ पिता सेतु पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	63	1.240	1.240	0.000
34	कोमलसींग पिता महेशसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	65	1.900	1.900	0.000
35	बाबू श्यामबाई नाबा पिता गुबरे पालक व खुद मां रामरानी पति गुबरे पता सा कजरई शासन से प्राप्त भूमि भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	66/2	0.540	0.540	0.000
36	गोपी पिता रामलाल कमलाबाई पति गोपी पता सा0 कजरई शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	66/3	0.530	0.530	0.000
37	गजराज पिता हरलाल जसोदाबाई पति गजराज पता सा0 कजरई शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	66/4	0.530	0.530	0.000
38	कुसुमबाई पति हीरालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	67/1	0.750	0.750	0.000
			68	0.600	0.600	0.000
39	कुसुमबाई पुत्री लच्छू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	67/2	1.350	1.350	0.000
40	विश्वनाथ सिंह पिता देवी सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/1	0.400	0.400	0.000
41	जगदीश पिता दौलत सींग सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/1	0.800	0.800	0.000
			71/1	2.010	2.010	0.000
42	लक्ष्मनसिंह पिता दौलतसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/2	1.250	1.250	0.000
43	खूबसिंह उर्फ भानुप्रताप पिता दौलतसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71/2	2.760	2.760	0.000
44	भानुप्रताप ऊर्फ खूबसिंह पिता दौलत सिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72	1.820	1.820	0.000
45	जगदीश पिता दौलतसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	73	0.990	0.990	0.000
			74	0.830	0.830	0.000
46	लक्ष्मणसींग पिता दौलतसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75	1.490	1.490	0.000
47	मयोग प्रताप नावा0 पिता व पालक चंद्रभान पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/1	1.280	1.280	0.000
			85/3	0.600	0.600	0.000

48	देवप्रताप नावा0 पिता व पा0 चंद्रभान पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/2	3.800	3.800	0.000
49	उमराव पिता बल्ला पता सा.कजरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86/1	1.470	1.470	0.000
50	लक्ष्मी पत्नि चन्द्रभान सिंह पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86/2	0.400	0.400	0.000
	योग		68	74.380	74.380	0.000

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(i) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 19A-82-18-19-894

दलपतपुर रैयतवारी पटवारी हल्का नं. 35 तहसील खुरई

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371/2018/एम.पी.एस./31/1742/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी. ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/19/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

- (1) परियोजना का नाम :- हनौता सिंचाई परियोजना
 (2) भूमि का विवरण :-
 1. जिला :- सागर
 2. तहसील :- खुरई
 3. ग्राम :- दलपतपुर रैयतवारी
 4. पटवारी हल्का नं. :- 35
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :- 25.810 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

क्र.	भूमि स्वामी कानाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7
1	भूरे ऊर्फ शरद पिता कैलाशसिंह पता सा0 खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/1	0.650	0.650	0.000
2	जसवतसिंह पिता भगवानदास पता सा0 खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21/2	1.300	1.300	0.000
			23/2	0.040	0.040	0.000
3	बाबूलाल पिता मलखानसीग घोषी पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21/1/1	1.350	1.350	0.000

4	लक्ष्मनसींग जसवंतसींग महेन्द्रसींग हेमंतसींग उर्मिला पिता भगवानदास कुसुमरानी बेवा भगवानदास मायादेवी बेवा हेमन्तसिंह जयसिंह नाबा० पिता हेमन्तसिंह पालक मां मायादेवी पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21/1/2	1.260	1.260	0.000
			23/1	0.090	0.090	0.000
5	गायत्रादेवी पत्नि पन्नालाल पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/1	1.600	1.600	0.000
6	आत्मा पति प्रकाशसिंह पता सा खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/2	1.600	1.600	0.000
7	सुरेन्द्रसिंह शरद पिता कैलाश प्रभा पतिकैलाश सिंह कैलाश पिता बाबूलाल पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/2	1.700	1.700	0.000
8	पन्नालाल पिता बट्टूलाल सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18/3	1.790	1.790	0.000
9	बबलेश .वा, राजकुमार कृष्णकुमार धर्मेन्द्र बा पिता घूमनसींग भारतीपुत्री घूमन सिंह स.प.क्र.2आ.दि-13-07- 09 के अनु राधारानी बेबाघूमनसींग पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2	1.210	1.210	0.000
			13	0.850	0.850	0.000
10	नारायण पिता गिरधरी पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3	1.210	1.210	0.000
			12	0.850	0.850	0.000
11	अजुद्धी पिता गिरधरी पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4	1.210	1.210	0.000
			11	0.850	0.850	0.000
12	सुखसींग पिता गिरधारी पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5	1.210	1.210	0.000
			14	0.850	0.850	0.000
13	गजेन्द्र वंदनाबाई पिता मुन्ना जानकीबाई बेबा मुन्ना पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	1.210	1.210	0.000
			15	0.850	0.850	0.000
14	रामगोपाल पिता गिरधारी पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7	1.210	1.210	0.000
			16	0.850	0.850	0.000
15	लखन पिता गिरधारी पता सा.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8	1.070	1.070	0.000
			17	1.000	1.000	0.000
	योग		24	25.810	25.810	0.000

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निदेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 17A-82-17-18-896

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110-भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

- (1) परियोजना का नाम :- बण्डा सिंचाई परियोजना
 (2) भूमि का विवरण :-
 1. जिला सागर
 2. तहसील बण्डा
 3. ग्राम पिडरूवा
 4. पटवारी हल्का नं. 7
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 19.530 हेक्टेयर
 :: अनुसूची -01::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	दुना पिता नथू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/22	1.00	1.00	
2	मुना पिता सुक्ल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/24	1.00	1.00	
3	गुनू पिता कुलू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/25	1.200	1.200	
4	नथू पिता मुलू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/26	1.200	1.200	
5	गरीबे पिता नथू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/27	1.200	1.200	
6	मुलुवा पिता छिम्मे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/28	1.200	1.200	
7	सकूरा पिता छुड़ा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/29	1.200	1.200	
8	कलू पिता सुक्ले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/30	1.00	1.00	
9	जूजा पिता नथू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/34	1.200	1.200	
10	अलमू पिता गुन्चे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/35	1.200	1.200	
11	बबलू पिता कछौ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/37	1.200	1.200	
12	कलू पिता गगा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/38	1.200	1.200	
13	इमरतीबाई बेवा शिबू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2150/39	1.200	1.200	

14	हीरालाल सुन्दर अच्छेलालरामलाल पिता चिमन केशर बाई रामकली गनेशीबाईपुत्री चिमन भूमि स्वामी दरयाव सीग गुलाबसीग पिस. हीरासीग जयसीग पि. रतनसीग हरदेव जगदेव पिस. कीरत नत्थीबाई वे. कीरत महाराज सीग पि. सुखसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2152/1	3.100	3.100	
15	प्रेमनारायण पिता दामोदर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2152/2	0.67	0.67	
16	हरीबाई पति शंभूप्रसाद पता सा. परसोरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2153	0.270	0.270	
			2156	0.49	0.49	
	योग	17	17	19.53	19.53	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 26A-82-18-19-897

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :-

बण्डा परियोजना बण्डा बांध

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला

सागर

2. तहसील

बण्डा

3. ग्राम

बहरोल

4. पटवारी हल्का नं.

8

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

298.981 हेक्टेयर

:: अनुसूची - 01 ::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (रकवा हे.मे.)	अर्जित भूमि (रकवा हे.मे.)	भूमि का प्रकार
1	महरानी बेवा हल्के रज्जूवा.महेश ना.वा.पि.हल्के रतुमानोवती पुत्री हल्केरामकली पुत्री रल्ली भूमि स्वामी कुन्दन पि.गोरा काशीरामलखन पि.भगवानदास काशीबाई बेवा भगवानदास ल्नीभग्गो पुत्री भगवानदास भूमि स्वामी रूपनारायण बाबूलाल ना.वा.बल्द वली काशीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40/1	0.030	0.030	
			394	0.130	0.130	
			397	0.060	0.060	
			405	0.070	0.070	
			406	0.120	0.120	
			407	0.100	0.100	
			408	0.170	0.170	
			417	0.020	0.020	
			908	1.390	1.390	
2	विनोद पि. देवीदास पीताम्बर वाले पता सा. सदर बाजार सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40/2	1.570	1.570	
			40/4	0.790	0.790	
			68	0.680	0.680	
			80	1.520	1.520	
			83	0.390	0.390	
3	दिनेश पि.प्रहलाद पता सा. सदर बाजार सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40/3	0.780	0.780	

4	शिव रामचंद्र जी वाकेदेह हाजा मुहणुजारी मंदिर महराजसिंग खुमानसिंगप्रबश्रीमान कलमहो.सागर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42	0.830	0.830
			61	0.860	0.860
			352	0.080	0.080
			836	0.010	0.010
			873	0.410	0.410
			875	0.450	0.450
			895	1.130	1.130
5	शारदा बेबा उदयचंद पता सा. सदर बाजार सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	49	0.270	0.270
			65	2.980	2.980
			67	0.580	0.580
6	अश्विन पिता अशोक कुमार लक्ष्मी बेबा अशोक कुमार पता सा. सदर बाजार सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50	0.440	0.440
			60	2.450	2.450
			62	1.580	1.580
7	दशोदाबाई बेबा मंगलसिंग रतनसिंग अजुनसिंग निजामसिंग पवनसिंग पिस. मंगलसिंग प्यारीबाई पिता. मंगलसिंग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	51/1	0.280	0.280
			147/2	0.850	0.850
			227/2	0.100	0.100
			268/2	0.160	0.160
			430/1	0.130	0.130
			548/2	0.050	0.050
			553/2	0.130	0.130
			554/2	0.050	0.050
			568/2	1.460	1.460
			573/2	0.020	0.020
			820	0.020	0.020
			839	0.030	0.030
8	प्यारीबाई बेबा भबूतसिंगलोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	51/2	0.060	0.060
			530/2	0.170	0.170
9	गुलाबसिंग बबू पिस. सल्ले उर्फ हरीराम इमरती पुत्री सल्ले उर्फ हरीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55/1	1.090	1.090
			327/1	0.010	0.010
			535/1	0.180	0.180
10	शकरबाई बेबा मिठूसिंग बलू हल्केभैया ना. वा. पिस. मिठूसिंग पालक व खुद मां शकरबाई बेबा मिठूसिंग कुशुमसिंग गोविन्दसिंग पिस. घूमनसिंग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55/2/1	0.360	0.360
			277	0.050	0.050
			327/2	0.010	0.010
11	केशरीसिंग हुकुमसिंग पिस. गुलाबसिंग गुलाबसिंग पि. हरीसिंग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55/2/2	0.370	0.370
12	शकरबाई बेबा मिठूसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55/2/3	0.360	0.360
13	साहबसिंग मदनसिंग पि. धोकल पन्नाबाई पुत्री मोहन गुडडी पुत्री फुल्ली पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	56	0.700	0.700
			276	0.140	0.140
			326	0.020	0.020
			532/1	0.180	0.180
			534/1	0.930	0.930
14	लालसिंग कनई मानसिंग जगतसिंग पि. भबूदे पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	57	0.630	0.630
			173	0.040	0.040
			174	1.020	1.020
			221	0.120	0.120
			222	0.130	0.130
			254	0.070	0.070
624	0.040	0.040			

15	शिनरुदसींग पिता सोवतसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58/1	0.460	0.460
			282/1/1	0.060	0.060
			608/1/1	0.010	0.010
			741/1	0.020	0.020
			874/2/1	0.450	0.450
			879/3/1	0.100	0.100
16	सम्भरसींग वल्द सोवतसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58/2	0.460	0.460
			279/1/2	0.060	0.060
			280/1/2	0.060	0.060
			282/1/2	0.050	0.050
			608/1/2	0.010	0.010
			741/2	0.020	0.020
			874/2/2	0.450	0.450
			879/3/2	0.100	0.100
17	फेरनसिंह गोबिन्द पप्पू अन्नू मलखान पिता लछमन दामोत्री बेबा लछमन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59/1	0.230	0.230
18	सम्भरसींग करनसींग पिस.मकुन्दसींग सियाबाई देवा कल्यानसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59/2	0.220	0.220
			72	1.500	1.500
			843/1	0.180	0.180
19	लोकमन पिता रगबीर लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	59/3	0.220	0.220
			73/977	0.930	0.930
			843/2	0.190	0.190
20	मनोजकुमार पि. देवीदास पता सा. सदर बजार सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	63	3.240	3.240
			78	0.850	0.850
21	बाबूसींग पिता खिलानसींग गौड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64	1.120	1.120
			95	2.190	2.190
			108	0.330	0.330
			114	0.510	0.510
			116	0.060	0.060
			118	0.150	0.150
22	गोमतीबाई बेवा हल्कूचतुभुजसींग देवीसींग पि. हल्कूसींग पता सा. पारगुंवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	66	1.410	1.410
			122	1.230	1.230
23	रतनसींग पि. खिलानसींग खिलानसींग पि.खलकसींग तेज सींग लखनसींग अमरसींगचन्द्रभान पि. तांतू भूमि स्वामी नंजीबहू बेवा तांतू इमरतीपुत्री तांतू सा.देह कुवर बाई पुत्री भुज्जीसा. करैया सल्लीबाई पुत्री भूमि स्वामी भुज्जी सा. मडिया काशीबाईपुत्री भुज्जी पता सा. कांचरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70	0.950	0.950
24	मोहनसींग पिता करनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72/975	0.940	0.940
			371/976	0.010	0.010
			844	0.200	0.200
			901/2	0.320	0.320
			903	0.140	0.140
904/1	0.380	0.380			
25	बुदेया चौदा ग्यारसा पि. परमा प्रेमबाई पुत्री परमा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75	0.640	0.640

26	मनीहर पिणबेरजा गनेशी बेवाविरजा उमाबाई पुत्री बिरजा मनकई कच्चीबाई पुत्रीहल्कू कन्छेदी बलराम सूरज भूमि स्वामी अन्न् पि.गुपाल श्रीबाईबेवा गुपाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76	0.630	0.630
			388	0.080	0.080
27	नागेन्द्रसिंह पिता हरनामासिंह राठौर पता सा. सदर बाजार सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77	0.870	0.870
			105/2	0.680	0.680
			115	0.470	0.470
			125	0.170	0.170
28	हरभजनसिंह पिसण दुलीचंद राठौरहरवश सिंह कुलदोप सिंह नागेन्द्र ंसिंह पिता हरनाम सिंह सविता देवी बेबा हरनाम सिंह राठौरपता साण सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	79	1.400	1.400
29	स्नेहलता पत्नि सुरेशचंद पता साण बांदरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81	2.500	2.500
			84	0.480	0.480
30	नन्हीबहू बेवा रतनसौग पता साण पारगुवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	82	0.910	0.910
31	परताप डेलनसौग ननेभाई पिण्जाहरसौग मल्लोबाई बेवा जाहरसौग पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86	0.560	0.560
			93	3.060	3.060
			152	0.680	0.680
			158	0.110	0.110
			209	0.150	0.150
			211	0.050	0.050
			251	0.020	0.020
			562	0.910	0.910
			565	0.640	0.640
			649	0.080	0.080
			669	0.030	0.030
			672	0.070	0.070
			723	0.020	0.020
			734	0.040	0.040
830	0.040	0.040			
32	मल्थूसौग भगवानदास मगलसौग लछमनसौग पिण परताप नन्हें पिता राजाराम पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	89	0.660	0.660
33	नीलेश कुमार ना.वा.पि.देवीदास पीताम्बर वाले बली मा यशोदाबाई पति देवीदास पीताम्बर वाले पता साण सदर सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90	0.670	0.670
34	मनीहर पिता बृजलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92	0.650	0.650
35	प्यारलाल पि.तिजई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	97	1.370	1.370
36	हुकुम पि.नाथूरामभरत पि.हुकुम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100/1	1.500	1.500
37	कडारी पिता नाथूराम प्रभाबाई पति कडारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100/2	0.360	0.360
			102	1.010	1.010
			106	0.370	0.370
38	परसादो वीरसौग पि.गुमान पता सा.परगुवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101/1	1.480	1.480
39	रतीराम पि.फुल्लो पता सा. कदारी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101/2	0.800	0.800

40	श्रीम बलराम सोहन बा. नीलेश ना.वा.पिता रगबर वली मा प्यारीबाई स्वयं प्यारीबाई बेबा रगबर गोमतीबाई अंजनीबाई पु० रगबर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	101/3	0.800	0.800
41	बाबूलाल पि. भुजवल पता सा. नीमानपडवार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	103/1	0.640	0.640
42	गिरधारी बलोराम पि.भुजवल पता सा. नीमोन पडवार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	103/2	1.200	1.200
43	रामबाबू पिता किशन देवकाबाई पुत्री किशन सुमत्रा बेवा किशन पता सा. पारगुवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	105/1	0.600	0.600
44	नागेन्द्रसिंह पिता हरनामसिंह राठीर पता सा. सदर बाजार सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	105/2	0.680	0.680
			115	0.470	0.470
			125	0.170	0.170
45	लक्ष्मण पसाद पिता धनीराम पता सा. देवरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	105/3	0.400	0.400
46	नन्दीबहू बेवा रतनसोम भैयालाल पि.अजुन पता सा. पारगुवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	109	0.230	0.230
47	महादेव पिता चेतू पता सा. पारगुवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	111/1	0.080	0.080
			153/1	0.780	0.780
48	मनोज कुमार सुभाष चन्द्र सुनील कुमार पिता सुरेशचंद रतना पुत्री सुरेशचन्द्र स्नेहलता बेवा सुरेशचन्द्र पता सा. बाँदरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	111/2	2.570	2.570
			112	0.160	0.160
			113	1.100	1.100
			120	1.280	1.280
49	मुन्नी पिता चेतू लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	111/3	0.090	0.090
			153/2	0.770	0.770
50	महराज सोम पिता सुखसोम गौराबाई इन्दरबाई पुत्री सुखसोम बेनीबाई बेबा सुखसोम पता सा. पारगुवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	119/1	0.350	0.350
51	रामासिंह पिता दरयाव सिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	119/2	0.350	0.350
52	उमरावसोम पिता दरयावसोम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	119/3	0.350	0.350
53	सुरेन्द्रसिंह पिता दरयावसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	119/4	0.350	0.350
54	चदनसोम पिता दरयाव सोम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	119/5	0.350	0.350
55	भैयालाल पि.अजेन पता सा.पारगुवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	121	1.120	1.120
56	नन्दलाल परमसोम पि.सर्णमिरचूसोनाबाई बेवा मिरचू पता सा. पारगुवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	123/1	2.190	2.190
			127	1.120	1.120
57	कडारा पि.हल्कू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	123/2	0.810	0.810
58	बलुवा पि. सरू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	130	0.060	0.060
			131	0.280	0.280
			132	0.570	0.570
			133	0.050	0.050
			134	0.030	0.030
			499	0.810	0.810

59	काश पि.नन्हें पता सा. विलहनी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	135	0.590	0.590	
60	खलकसींग पि.बाबूसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	136	0.070	0.070	
			137	0.100	0.100	
			138	0.150	0.150	
			139/1	0.600	0.600	
61	रत्न पि.ऊफे रतनसींग पिता मंगलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	139/2	0.920	0.920	
			265	0.130	0.130	
62	माधोसींग भूपेन्द्रसींग भुवानीसींग रुकमनसींग पि. अपरवल मुलाबाई मेंदाबाईमालतोबाई पुत्री अपरवल भूमि स्वामी परतापसींग ननेभाई पि.जाहरमल्लोबाई बेवा जाहर खलकसींग कन्हैया सींग मानसींग जगतसींग पि.भबूदे लट्टी खिलान भूमि स्वामी पि.खलकसींग चिरोजा बेवाखलकसींग तेजसींग पि.तांतू अमरसींग लखन चन्द्रभान पि.तांतू श्यामबाई विधवा भूमि स्वामी तांतू कुंवरबाई सल्लोबाईकाशीबाई पुत्री भुज्जी कडोरी राघबेन्द्र भोपाल पि.उत्तमसींग सजलीबहू बेवा भूमि स्वामी उत्तमसींग लच्छीबाई बबीताबाई पुत्री उत्तमसींग करतार ऊदल जुगरान पि.वीरसींग मझलीबहू बेवा वीरसींग भूमि स्वामी आराधना पुत्री वीरसींगपता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	140/1	0.280	0.280	
63	कल्याणसिंह कृपालसिंह पि.स. जाधनासिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	140/2	0.870	0.870	
64	अरजन ऊफे अजून पि.मंगलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	146/1	0.550	0.550	
			149/1	0.270	0.270	
65	राजन ऊफे राजेन्द्र पिता फूलसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	146/2	0.550	0.550	
			149/2	0.280	0.280	
66	फूलसींग पिता बाबूसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	147/1	0.430	0.430	
			199	0.080	0.080	
			268/1	0.150	0.150	
			548/1	0.060	0.060	
			554/1	0.050	0.050	
			568/1	0.730	0.730	
			715	0.180	0.180	
			815	0.050	0.050	
			823	0.080	0.080	
			837	0.030	0.030	
67	खलकसींग पिता बाबूसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	894	0.490	0.490	
			147/3	0.430	0.430	
			227/1	0.110	0.110	
			553/1	0.120	0.120	
			568/3	0.730	0.730	
			573/1	0.030	0.030	
			771	0.020	0.020	
936/1	0.540	0.540				

68	शेजेंद्र सींग पि.फूलसींगनिजाम सींग पि.मगलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	148	0.670	0.670
			150	0.310	0.310
69	कल्याण सींग अमरसींग पि.मकुद सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	151	0.400	0.400
			157/1	0.220	0.220
			160/3	0.430	0.430
			429/4	0.030	0.030
			549/3	0.050	0.050
			555/3	0.090	0.090
			660/1	0.080	0.080
			716/1	0.140	0.140
			775/1	0.020	0.020
			814/3	0.010	0.010
			915/1	0.410	0.410
70	भोपाल पि.उत्तमसींग सझलीबहू बेवा उत्तमसींग लक्ष्मीबाई बबीताबाईपुत्री उत्तमसींग करतार भूमि स्वामी ऊदल जुगराज पि.वीरसींगमझलीबहू बेवा वीरसींग आराधना पुत्री वीरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	155	0.670	0.670
			207	0.240	0.240
			210	0.050	0.050
			250	0.020	0.020
			563	0.910	0.910
			566	0.640	0.640
			625	0.030	0.030
			648	0.070	0.070
71	निजामसींग पिता मगलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	156	0.570	0.570
			168	0.030	0.030
			929	0.670	0.670
72	पुष्पाबाई पुत्री गुलझारसींग लोधा पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	157/2	0.070	0.070
			159/2	0.400	0.400
			160/2	0.170	0.170
			167/2	0.390	0.390
			180/2	0.380	0.380
			357	0.190	0.190
			472/2	0.200	0.200
			549/2	0.030	0.030
			555/2	0.060	0.060
			571/2	0.730	0.730
			572/2	0.010	0.010
			716/2	0.040	0.040
			775/2	0.010	0.010
814/2	0.010	0.010			
915/3	0.210	0.210			

73	भिरत इमरत पि. महादेव छुट्टीबाई पु. महादेव करन ना.वा.व. उजयार सींग वली व खुद माँ बैनीबाई वे. उजयारसींग मीरा गुडडी सुषमा.अर्चना पार्वती पु. उजयार चंदन पिता बल्दवान सविता पुत्री बल्दवान राजाबेटी वेवा बल्दवाल लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	159/1	1.200	1.200	
			160/1	0.100	0.100	
			167/3	0.500	0.500	
			429/3	0.030	0.030	
			472/1	0.600	0.600	
			846	1.020	1.020	
74	राजाराम सूरत राजासींग बडी बहू बडी बेन पिता नारानजू पर्वत पिता मर्दन डुमाबाई वेवा बाबूसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	161	2.250	2.250	
			244	0.070	0.070	
			580	0.180	0.180	
			637	0.020	0.020	
			789	0.650	0.650	
			881	0.290	0.290	
75	विवेक विकास पिता गयाप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	163	0.130	0.130	
			182	0.600	0.600	
76	गयाप्रसाद पिरामचरण पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	164	0.310	0.310	
			166	0.250	0.250	
			181	0.590	0.590	
			297	0.170	0.170	
			299	0.170	0.170	
			303	0.090	0.090	
77	चंदन सींग ना.वा.पि.सूरतसींग वली दयाराम पि.फूलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	165	0.270	0.270	
78	भोपाल बिन्द्रावन अरविन्द पिस. हरीसींग-पार्वती वेवा हरीसींग.हीराबाई फूलबाई पुत्री हरीसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	167/1	0.670	0.670	
			179	0.470	0.470	
			180/1	1.130	1.130	
			429/1	0.030	0.030	
			444	0.260	0.260	
			445	0.090	0.090	
			549/1	0.050	0.050	
			555/1	0.090	0.090	
			571/3	1.180	1.180	
			572/1	0.040	0.040	
			587	0.270	0.270	
			718	0.120	0.120	
			814/1	0.020	0.020	
			866	0.820	0.820	
871	0.560	0.560				
79	हीरालाल रोशन पि.भुन्ता सा.करवना जगन्नाथ पि. भग्गे तुलसी पि.भबूदे सीताराम शालकराम मलखान पि.गनेश भूमि स्वामी पुष्पाबाई फूलाबाई मल्लोबाई पुत्री गनेश गोराबाई वेवा गनेश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	169/1	0.240	0.240	
			171/1	0.220	0.220	
			287/1	0.080	0.080	
			719/1	0.120	0.120	
			720/1	0.020	0.020	
			761/1	0.330	0.330	

80	सीताराम शालकराम मलखान पि. गनेशगोरावाड़ वेवा गनेश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	169/2	0.450	0.450	
			171/2	0.410	0.410	
			287/2	0.150	0.150	
			293/2	0.020	0.020	
			719/2	0.180	0.180	
			720/2	0.040	0.040	
81	भोपालसौग विन्द्रावन पि. हरीसौग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	170	1.050	1.050	
			172	0.900	0.900	
			446	0.210	0.210	
			872	0.660	0.660	
			897	0.500	0.500	
			911	1.530	1.530	
82	बेजनाथ पिता गोपालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	175	0.080	0.080	
			177	2.120	2.120	
			281	0.170	0.170	
			610	0.080	0.080	
			640	0.250	0.250	
			643	0.070	0.070	
			653	0.030	0.030	
			937	0.540	0.540	
83	लक्ष्मणसौग पिता खलकसौग लार्धी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	178/1	0.670	0.670	
			190/1	0.950	0.950	
			259/1	0.110	0.110	
			593	0.020	0.020	
			834	0.010	0.010	
84	देवीसौग पिता खलकसौग लार्धी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	178/2	0.680	0.680	
			190/2	0.950	0.950	
			259/2	0.110	0.110	
			609	0.070	0.070	
85	हल्काई हिम्मत लोलाधर पि.कमला भागबाड़ वेवा सिरदार पता सा. देह भूमि स्वामी.	भूमि स्वामी	183/1	0.950	0.950	
			184/1	0.150	0.150	
			213	0.030	0.030	
			218	0.170	0.170	
			262/983	0.080	0.080	
			263	0.180	0.180	
			569	0.220	0.220	
			570/980/1	0.480	0.480	
86	प्रियान्श नाबा पिता मिहीलाल वली मा वैजन्ती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	183/2	0.310	0.310	
			184/2	0.050	0.050	
87	नथुवा खिलान रामलाल पि.दमरू बेजनाथ बट्टी पि. कस्तूरी सुशीला ननीपुत्री दमरू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	185	0.200	0.200	
			214	0.040	0.040	
			224	0.130	0.130	
			262	0.170	0.170	

88	इमरत पि. रामलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	185/3	0.060	0.060	
			214/3	0.020	0.020	
			262/1	0.100	0.100	
			338/3	0.010	0.010	
			570/3	0.550	0.550	
			856/2	0.320	0.320	
89	रामसौग पि. हिम्मतसौग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	186	0.980	0.980	
			295	0.130	0.130	
			598/2	0.020	0.020	
			900/2	0.540	0.540	
			935	0.410	0.410	
90	बहादुरसौग पिता किशोरसौग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	187	1.030	1.030	
			296	0.150	0.150	
			945/1	0.100	0.100	
91	कल्यानसौग रूपसौग अमरसौग पि. मकुन्दसौग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	188	0.610	0.610	
92	हरोबाई पुत्री खलकसौग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	188/971	0.610	0.610	
93	अजुन रज्जू रावे पिता जगतसौग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	192	0.350	0.350	
			233	1.250	1.250	
			613	0.100	0.100	
			939	1.040	1.040	
			946	0.180	0.180	
94	दामोदर उमराव नोनेलालधन्नी धरम् दुरजन पि. ननुवा कोशाबाई बेवा ननुवा भूमि स्वामी भागबाई मेंदाबाई पुत्री ननुवा सा. देह रानीबहू बेवा दमरू पता सा. हनोता पटकुई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	198	0.170	0.170	
95	मनुवा पि. परमा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	200	0.020	0.020	
			724	0.050	0.050	
			921	0.130	0.130	
96	पूरन लाल पि. प्यारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	201	0.020	0.020	
			685	0.030	0.030	
			756	0.020	0.020	
			924	0.410	0.410	
97	घांसिया दिविया हल्लू बिहारी पि. फुल्ला छोटीबाई वेवा फुल्ला मझली बहू वेवा धानु पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	202	0.020	0.020	
			271	0.150	0.150	
			678	0.010	0.010	
			683	0.020	0.020	
			684	0.010	0.010	
			692	0.040	0.040	
			694	0.050	0.050	
98	गर्धव सीग पिता फूलसीग पेमसीग पिता खलकसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	203/1	0.040	0.040	
99	गजराजसीग पि. पि. मलखानसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	203/2	0.040	0.040	

100	शोपाल सोग पिता खलकसीग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	203/3	0.030	0.030	
			229/3	0.040	0.040	
			808	0.100	0.100	
101	घसिया पि. फुल्ला पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	204	0.050	0.050	
102	ओम्बिका प्रसाद बाबूलालमुन्ना लाल पि. जगन्नाथ चौपाबाई रामबाई पुत्रीदमरू पता सा. हनोता पुटकई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	205	0.040	0.040	
			223	0.090	0.090	
103	फूलसीग खलकसीग पिता बाबूसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	206	0.120	0.120	
104	बिहारी हल्काई पि. अच्छेलालदेशरानी बेवा अच्छेलाल-दलीपा पि. चेतू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	208	0.050	0.050	
105	राधाबाई रुक्मन बाई उमिलाबाई पुत्री खूबसीग तुलसाबाई बेवा खूबसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	212	0.050	0.050	
			216	0.060	0.060	
			240	0.150	0.150	
			620	0.020	0.020	
			630	0.040	0.040	
			631	0.070	0.070	
			635	0.160	0.160	
106	हनमतसीग पिता भबूदसीग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	215/1	0.030	0.030	
			539/1/1	0.100	0.100	
			539/1/2	0.100	0.100	
			608/3	0.010	0.010	
			743/2	0.030	0.030	
			776	0.290	0.290	
107	परताप डेलनसीग पि. जाहरसीग नीमाबाई बेवा किशोरे पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	215/2	0.040	0.040	
108	गिरजाबाई पुत्री छतार सतोषसीग रघुराजसीग पि. सम्मरसीग गंगाबाई पुत्री सम्मरसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	217	0.110	0.110	
			620/965	0.020	0.020	
			627	0.040	0.040	
			809	0.030	0.030	
			849	1.530	1.530	
			851	1.010	1.010	
			852	0.100	0.100	
109	करनसीग सम्मरसीग पि. मकुन्दसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	219	0.190	0.190	
110	मकुन्दसीग पि. खुमानसीग करनसीग पि. मकुन्दसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	225	0.090	0.090	
			226	0.100	0.100	
111	महेन्द्र मदन गोविन्द पिता नथुसीग जानकी बेवा नथु सीगलुडका पुत्री नथुसीग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	230/1	0.180	0.180	
			910	0.600	0.600	
			957/1	0.810	0.810	
112	नीमाबाई पति नोनलालओहरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	230/2	0.170	0.170	

113	दामोदर उमराव नोनेलालधन्नी धरम दुरजन देवसोम पिननुवा कोशाबाई बेवाननुवा भागबाई मेंदाबाई भूमि स्वामी पुत्री ननुवा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	231	0.110	0.110
			759	0.020	0.020
			927	0.100	0.100
114	नोनेलाल पिता ननु अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	232	0.260	0.260
			571/1	1.000	1.000
			932/2	0.090	0.090
			932/3	0.080	0.080
			933	0.380	0.380
			956/2	0.280	0.280
115	भूरु पिता बहादुरसोम लोधो पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	235/1	0.160	0.160
			428/1	0.010	0.010
			550/1	0.060	0.060
			556/1	0.200	0.200
			574/1	0.020	0.020
			709/1	0.350	0.350
			821/1	0.010	0.010
			883/1	0.200	0.200
			885/1	0.060	0.060
			944/1	0.090	0.090
116	बृजेश पिता बहादुरसोम लोधो पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	235/2	0.160	0.160
			428/2	0.060	0.060
			531/3	0.130	0.130
			550/2	0.050	0.050
			556/2	0.190	0.190
			574/2	0.030	0.030
			709/2	0.350	0.350
			710/3	0.160	0.160
			821/2	0.010	0.010
			883/2	0.200	0.200
			885/2	0.060	0.060
			915/4	0.080	0.080
			944/2	0.100	0.100
117	प्रतापसोम देवसोम पिता कुजी लक्ष्मीबाई बेबा कुजी कल्यानसोम पिता जोधन पोथीबाई बेबा जोधन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	238	0.400	0.400
			349	0.030	0.030
			484/1	1.320	1.320
			948	0.150	0.150
			950	0.340	0.340
118	राजाराम सुरत राजासोम बडो बहू बडो बेन पिता नारानज पर्वत पि.मदेन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	245	0.040	0.040
			247	0.120	0.120
			579	0.150	0.150
			604	0.030	0.030
			638	0.030	0.030
			699	0.300	0.300
			788	0.490	0.490
			880	0.310	0.310
882	0.280	0.280			

119	अराविन्द्र नावापिता बसत सोग लोधीपता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	246	0.070	0.070
			701/2	0.590	0.590
120	मगलसोग पिता जहारासेह शातोबाई पुत्री खुमान अराविन्द्र पि. हरीसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	248	0.020	0.020
			249	0.120	0.120
			412	0.090	0.090
			477/1	0.120	0.120
			547	0.130	0.130
			557	0.320	0.320
			576	0.120	0.120
			659	0.050	0.050
			770/1	0.010	0.010
121	छोटेलाल पि. सीताराम बहादुरसोग किशोरसोग सतोष पि. लछमन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	255/1	0.270	0.270
122	लालसोग पिता भबूदसोगलोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	255/2	0.260	0.260
123	कुवरबाई सालद पति परतासिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	256	0.010	0.010
124	फूलाबाई जाज हल्काई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	257	0.080	0.080
			258	0.080	0.080
125	भागीरथ चित्तर हरीराम चदनप्रेम पि. दुर्गा लेखराम मेखराम पि. दुल्ली बिन्नुपुत्री दुल्ली पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	260	0.120	0.120
			435	0.040	0.040
126	मकुन्दसोग पि. खुमानसोग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	264	0.250	0.250
			273	0.030	0.030
			868	0.720	0.720
			901	0.640	0.640
127	नन्ना मिठू कनई छोटेलालपि. दम्मे सहोद्रा बाई बेवा दम्मे घसीटी पुत्री दम्मे पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	266	0.130	0.130
			679	0.040	0.040
			680	0.050	0.050
128	पवत पि. चूच हीरासोगशांभाराम रजकई पि. हल्कू चैनसोग वा. वडीवेन ना. वा. पि. गुलझारसोग पा. भाई भूमि स्वामी चैनसोग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	267	0.160	0.160
			398	0.210	0.210
			401	0.310	0.310
129	प्रेमबाई जोजे रतन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	270	0.400	0.400
			537	1.490	1.490
			645	0.230	0.230
			737	0.030	0.030
			739	0.030	0.030
			899	0.470	0.470
130	रतोबाई बेवा दरयावसोगकल्यान अमरसोग पि. दरयाव सोग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	274	0.160	0.160
			275	0.080	0.080
			344	0.060	0.060
131	अमरसोग पि. मकुन्दसोग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	278	0.080	0.080
132	कल्यान सोग पिता सूरतसोग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	279/1/1	0.050	0.050
			280/1/1	0.070	0.070

133	कस्तरी बाई पति विन्द्रावन पाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	279/2	0.050	0.050	
			279/3	0.060	0.060	
			280/2	0.120	0.120	
			282/2	0.040	0.040	
			282/3	0.040	0.040	
			282/4	0.040	0.040	
134	सरदारीसिंह पि. भगुन्तसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	283	0.150	0.150	
			598/1	0.020	0.020	
			747/1	0.160	0.160	
			792	0.180	0.180	
			793	1.140	1.140	
			816	0.040	0.040	
			859	0.340	0.340	
			861	1.080	1.080	
			900/3	0.530	0.530	
			931	0.600	0.600	
954	1.310	1.310				
135	मेदाबाई पुत्री गोरा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	288/1	0.060	0.060	
			305/1	0.090	0.090	
			308/1	0.050	0.050	
			314/1	0.030	0.030	
			319/1	0.010	0.010	
			329/1	0.010	0.010	
136	मोहन सुखराम पि.गोराशातिबाई पुत्री गोरा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	288/2	0.060	0.060	
			305/2	0.080	0.080	
			308/2	0.050	0.050	
			314/2	0.040	0.040	
			319/2	0.020	0.020	
			329/2	0.010	0.010	
137	विन्द्रावन सेवक उत्तम मुन्ना जालम हम्मीर पि. बारेलाल गिरजाबाई द्रोपती भूमि स्वामी बाई पुत्री बारेलाल राजीभोले ना.वा.पि. रगवीर मुन्नीबाई पति रगवीर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	292	0.040	0.040	
138	विन्द्रावन सेवक उत्तममुन्ना जालम हम्मीर पि. बारेलाल गिरजाबाई द्रोपतीबाई पुत्री बारेलाल राजी भूमि स्वामी भोले पि.रगवीर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	293/1	0.020	0.020	
			306	0.490	0.490	
			307	0.240	0.240	
			592	0.250	0.250	
139	प्रेमबाई पुत्री रामचरण पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	298	0.050	0.050	
140	धनसींग पि.सम्मरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	300	0.120	0.120	
			301	0.130	0.130	
141	हरप्रसाद पि.रामचरण पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302	0.090	0.090	
			310	0.060	0.060	
			616	0.010	0.010	
			647	0.190	0.190	

			651	0.110	0.110	
			654	0.140	0.140	
142	राजा सिंह पिता नारानजू चदन सोग पिता सूरतसोग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	304	0.190	0.190	
			634	0.570	0.570	
			639	0.030	0.030	
			656	0.170	0.170	
			662	0.120	0.120	
143	निरभसोग पिरामसोग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	309	0.100	0.100	
144	गुलाबसोग पि.मलखानसोग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	311	0.090	0.090	
			812/1	0.030	0.030	
145	घसीटा पि.मुल्ला पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	312	0.040	0.040	
			313	0.040	0.040	
			331	0.020	0.020	
146	शकरबाई सती पुत्रीगुपाल अरन रूप्या छुटिया विन्द्रावन पि. गम्पा हल्कीबहू बेवा गम्पा मजलीबहू भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	315	0.080	0.080	
147	विहारी हल्काई पि. अच्छेलाल देशरानी बेवा अच्छेलाल पानबाई गिरजाबाई फूलाबाई पुत्री तिजई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	316	0.040	0.040	
148	जसरथ अनदिया पि.गुवन्दी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	317	0.060	0.060	
			646	0.030	0.030	
149	धनललिया पि. मंगल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	318	0.050	0.050	
150	ओम प्रकाश पि. राधका प्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	320	0.030	0.030	
151	बडीबहू बेवा लालसींग काशीराम पि. लालसींग दलीप पि. चेतुवा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	330	0.020	0.020	
152	शरसोग मोहनसोग पि.जनकभरतसोग पि.पप्पू गुडडी पुत्री पप्पू ऊदलसींगप्रतापसींग तखतसींग पि. भूमि स्वामी भगुन्तसींग राधाबाईबेवा भगुन्तसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	332	0.020	0.020	
			365	0.040	0.040	
			367	0.230	0.230	
			864	0.640	0.640	
153	मनीहर पि.बृजलाल कन्छेदीबलराम सूरज अन्नू पि.गुपाल श्रीबाई बेवा गुपाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	333	0.070	0.070	
154	संजली बेवा गुपाल शंकरबाई पुत्री गुपाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	335	0.070	0.070	
155	पानबाई बेवा नथू विन्द्रावन लीलाधर करन पि.नथूखेलान रामलाल पि.दमरू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	338	0.030	0.030	
			856	0.650	0.650	
156	कपूरचंद प्रकाशचंद जवाहर वानेमी ना.वा.पिताराचंद पा.भाई कपूरचंद कमला सब्बो पुत्री ताराचंद मोती पि. गिरधारी शीलचंद राकेश राजकुमार अजय कुमार पि.कोमल चंद सुमतरानी बेवा कोमलचंद चमेलीबाई पुत्री कोमलचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	378	0.030	0.030	
			420	0.780	0.780	
			869	0.010	0.010	

157	राजाराम दीपचंद पि. मोहनलालसा. सागर कपूरचंद प्रकाशचंद जवाहर वा. नेमीचंद ना.वा.पि. ताराचंद वली भाई कपूर भूमि स्वामी चंद सल्लो कमला पुत्री ताराचंद सिरदारबहू बेवा ताराचंद बड़ीविन्ना पुत्री अनंदी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	342	0.020	0.020
158	पूलसीग खलकसीग पि.बाबूसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	345	0.010	0.010
			747/4	0.100	0.100
			938	0.850	0.850
159	पुनू पचू लच्छी बाई बारी बाई पिता गुवन्दा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	348	0.040	0.040
			350	0.020	0.020
160	खुमानोबाई बेवा भालू प्रभूरज्जी गिरजा हल्कोवेन पि.भालू परमसुख पि.जूजे पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	351	0.230	0.230
161	पचू छोट रगनाथ राम पि.टुडा मथुराबाई बेवा मन्नू रोहण वा. जग्गू मल्लोबाईसुखवती ना.वा.पि.मन्नू वली भूमि स्वामी मां मथराबाई बेवा मन्नूप्यारेलाल धुन्धे हल्काई दयाराम पि. परमसुख पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	353/1	0.110	0.110
			777/1	0.260	0.260
162	मुकेश बा.देवेन्द्र जितेन्द्र भूरे सुरेन्द्र नावा. पिता लख्खू सुनीता बा. पुत्री लख्खू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	353/2	0.100	0.100
			777/2	0.020	0.020
163	राजू भोले पि. रगवीर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	354/1	0.020	0.020
164	दयाराम प्यारेलाल धुन्धाहल्काई पि.परमसुख पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	354/2	0.010	0.010
			364	0.110	0.110
165	मुरलीधर नाबा वल्द वली तुलसीराम पिता भबूदे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	355	0.030	0.030
166	अमाबाई पुत्री नत्था कलोबाई बेवा नत्था पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	359	0.200	0.200
			446/962	0.060	0.060
167	वैजन्तीबाई पिता जगन्नाथ काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	360	0.060	0.060
			366	0.090	0.090
168	वीरसींग बलवंतसींग पि.उमराव मुलाबाई सुकलाबाई मुन्नीबाई पुत्री उमराव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	363	0.500	0.500
			399	0.240	0.240
			414	0.070	0.070
			418	0.120	0.120
			424	0.260	0.260
			426	0.610	0.610
			431/1	0.050	0.050
			436	0.100	0.100
			437	0.120	0.120
			479/1	0.350	0.350
169	जगन्नाथ पिता भग्गे पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	368	0.300	0.300
			402	0.690	0.690
170	गोपी पि.मोजीलाल कल्लोबाई बेवा शिबूधनश्याम चन्दा दोबपाल पिता शिबू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	369	0.060	0.060
			400	0.040	0.040
			858	0.600	0.600

171	हीरासींग शोभाराम राजबाईपेहल्कू चैनसींग वावडी वेन ना.वा.पि.गुलझारसींगपाण्भाई चैनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	370	0.190	0.190	
172	सम्मरसींग करनसींग पिस. खुमानसींग सियाबाई वेवा कल्यानसींग लोकमन पिता रगबीर नंनीबहू वेवा महाराजसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	371	0.030	0.030	
173	राजाराम दीपचंद पि. मोहनलाल पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	372	0.060	0.060	
174	इमरतसिंह धनसिंह पि. शोभासिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	373	0.040	0.040	
175	कलू देवेन्द्र पि. गोपी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	374	0.030	0.030	
176	पप्पू मोहन ना.वा.पि. वपालक गोपी दयाबाई गुड्डूडी बाई पुत्री मोहन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	375	0.040	0.040	
177	गोपी पि.मोजीकन्हैया पि.बखते कलीबाई बेवा शिबू घनश्याम चन्दा देबपाल पिता शिबू पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	376	0.030	0.030	
			391	0.190	0.190	
			898	0.870	0.870	
178	लाखनसींग पि. भगवानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	379	0.030	0.030	
179	नोनीबाई बेवा जयराम असोक मालती बाई वा. महेश महेन्द्र ना.वा.पि. जयराम पा.मां नोनीबाई बेवा भूमि स्वामी जयराम श्यामलाल तिजई काशीराम पि. गनपत अजुदी पुत्री अमान पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	384	0.050	0.050	
180	सिम्मा पि. चपटा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	385	0.030	0.030	
181	श्यामलाल तिजई काशीरामपिण्गनपत पुनु पचू पिता गन्दुवालच्छीबाई बारीबाई पुत्री गदुवा मुलुवा पि.जूजा अशोक महेशमहेन्द्र पिण्जयराम सजलीबहू भूमि स्वामी बेवा जयराम मालतीबाईपुत्री जयराम दयाराम प्यारेलाल धुन्धे पि.परमसुख हल्काई धरमाबाई नंनी भूमि स्वामी बाई मल्लूबाई पुत्री परमसुख पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	387	0.080	0.080	
182	आर.सी.आर.राठौर एण्डब्रदशे पता सा. सदर बाजार सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	393	0.080	0.080	
			409	0.200	0.200	
			411	0.100	0.100	
183	कनई पि.बखते पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	403	0.550	0.550	
184	हीरालाल रोशन पि.झुन्तामगल पि.रामलाल पता सा. केरवना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	404	0.130	0.130	
185	हरीसींग पि.निरनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	410	0.180	0.180	
			415	0.070	0.070	
			443	0.100	0.100	
			818	0.130	0.130	
			845	0.300	0.300	
186	कल्यान पि. मकुन्दसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	413	0.070	0.070	
			442	0.010	0.010	
			747/3	0.060	0.060	

187	हरप्रसाद पि.मुन्ना चेतूपि. मदन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	416	0.070	0.070
			376/963	0.060	0.060
188	श्यामसुन्दर पि.जगन्नाथ पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	419/2	0.220	0.220
189	इमरत रमेश अशोक हल्काई बदन छोद पिता गुलझार मालती हरीबाई हल्ली मीना पूनम तुलसा पुत्री गुलझार शीलरानी बेबा गुलझार पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	421	0.110	0.110
			441	0.110	0.110
			589	0.010	0.010
			600	0.010	0.010
			762	1.010	1.010
			768	0.660	0.660
			819	0.050	0.050
			832	0.020	0.020
			838	0.040	0.040
			930	0.950	0.950
190	बिहारी हल्काई पि.स. अच्छलाल देशरानी बेबा अच्छलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	422	2.150	2.150
191	प्यारेलाल पिता रगवर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	423	0.050	0.050
192	चैनसीग वा.बडोवन ना.वा.पि.गुलझारसीग पालक भाई चैनसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	425	0.260	0.260
193	हनमत सिंह पिता भबूतसिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	428/3	0.060	0.060
194	देवीसीग पिता नन्नू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	429/2	0.040	0.040
			660/2	0.020	0.020
195	कल्यान पिता जशरथ लोधी पता निवासी इमलिया खुर्द तह. मालथोन भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	430/2	0.010	0.010
196	रतीबाई जोज राजाराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	431/2	0.050	0.050
			431/3	0.060	0.060
197	ग्राम पंचायत बहरोल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	431/966	0.010	0.010
198	शांतीबाई पुत्रीखुमानसीग महेन्द्र राजू गुडू ना.वा.पि.व. पा. सिम्मा मगलसिंह पिता जाहरसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	433	0.140	0.140
199	म०प्र० शासन गृह विभाग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	434	0.680	0.680
200	विन्द्रावन पि.हरीसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	438	0.150	0.150
201	तुलसीराम पिता गारिलाल पटेल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	439	0.140	0.140
			440	0.180	0.180
202	ममताबाई पुत्री खूबसीग पटेल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	447	0.100	0.100
			518/3	0.060	0.060
			567	0.900	0.900
			584	0.050	0.050
203	बलजीतसिंह वल्द साहनासिंह पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	452/2	0.160	0.160

204	सन्तोषसिंह पिता बीरसींग पयू पिता गोपी सा. देह राजेन्द्र ना. वा. वल्द वली बाबूसींग पिता राजाराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	453/1	0.040	0.040	
205	इमरतसोम धनसोम सतोषसोमपिनिरभेसींग हीराबाई पि. निरभेसींग मुलु अमरसींगकल्यानसींग पि. दरयाव भूमि स्वामी रतीबाई बेवा दरयावसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	453/2	0.220	0.220	
206	महेन्द्र नरेन्द्र जितेन्द्र पिता जगदीश सिंह राम सखी बेवा जगदीश सिंह पता सा मऊ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	453/3	0.200	0.200	
207	चन्द्रभान पिता फूलसींग जगभान पिता खलकसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	453/4	0.150	0.150	
208	मालतीबाई पति बाबूसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	453/5	0.030	0.030	
209	हीरालाल रीशन पि. झुन्तासा. केरबना जगन्नाथ पि. भग्ग तुलसी पि. भबूदेश्याम सुन्दर वा. वलराम ना. भूमि स्वामी वा. पि. वली जगन्नाथ पि. भग्ग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	465	0.510	0.510	
210	बडीबहू बेवा लालसोमकाशीराम पि. लालसोम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	466	0.440	0.440	
			467	0.240	0.240	
211	प्रभुदयाल गनेश बडीबेनापि. भरोसी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	468	0.090	0.090	
212	रतीबाई पुत्री हरीसोम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	469	1.060	1.060	
			471	0.520	0.520	
213	प्यारेलाल दयाराम धुन्धाहल्काई पि. परमसुख बडी विन्ना पुत्री परमसुख पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	470	1.360	1.360	
214	रामकली बेवा हरबशी मगलपारोक्षित अनादी पूरन विहारी मल्लोबाई पिताहरवंशी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	473	1.210	1.210	
215	सुदरबाई जोज अनारी दोपतीबाई जोज बिहारी पटेल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	474	0.230	0.230	
216	देवेन्द्र बाबू पिता लाखनसोम सोमा पुत्री लाखनसोम कल्लोबाई बेवा लाखनसोम मुलूसींग पिता धीरजसोम रतिबाई मनोबाई, मुन्डीबाई पुत्री धीरजसोम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	476/1	0.040	0.040	
			545/1	0.030	0.030	
			558/1	0.010	0.010	
			559/1	0.150	0.150	
			577/1	0.030	0.030	
			658/1	0.030	0.030	
			711/1	0.120	0.120	
			746/1	0.030	0.030	
			912/1	0.030	0.030	
			917/1	0.050	0.050	
919/1	0.030	0.030				
952/1	0.130	0.130				

217	अन्नू नथू पिता कडोरी वली व खुद मा लक्ष्मीबाई बेवा कडोरी श्रीबाई गनेशीबाई पुत्री भगुन्तसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	476/2	0.040	0.040	
			545/2	0.030	0.030	
			558/2	0.02	0.02	
			559/2	0.14	0.14	
			577/2	0.02	0.02	
			746/2	0.030	0.030	
			773/1	0.010	0.010	
			912/2	0.030	0.030	
			917/2	0.050	0.050	
			919/2	0.040	0.040	
			952/2	0.130	0.130	
218	खेतसीग पिता हरीसीग सतोषपल्टू राजेन्द नाबा पिता हीरासीग गोमतीबाई मालतीबाई पुत्री हीरासीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	476/3	0.040	0.040	
			545/3	0.030	0.030	
			558/3	0.010	0.010	
			559/3	0.150	0.150	
			577/3	0.030	0.030	
			658/2	0.010	0.010	
			711/2	0.070	0.070	
			746/3	0.030	0.030	
			773/2	0.010	0.010	
			912/3	0.040	0.040	
			917/3	0.050	0.050	
919/3	0.030	0.030				
952/3	0.150	0.150				
219	कल्लोबाई बेवा राजाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	476/4	0.030	0.030	
			545/4	0.040	0.040	
			558/4	0.010	0.010	
			559/4	0.150	0.150	
			577/4	0.020	0.020	
			658/3	0.010	0.010	
			711/3	0.070	0.070	
			746/4	0.030	0.030	
			912/4	0.040	0.040	
			917/4	0.050	0.050	
			919/4	0.040	0.040	
952/4	0.150	0.150				
220	मनीष सोनी पिता हरगोविन्द सोनी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	477/2	0.060	0.060	

221	मालतीबाई पति रामपसाद गनेशीबाई पति मलखानासेह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	478	0.190	0.190	
222	पवन कुमार पि.मंगलसिंग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	479/2	0.010	0.010	
			890	0.690	0.690	
223	जगदीशप्रसाद संतोष पिस. हरिनारायण जयती वेवा हरिनारायण ब्रा. भोलेराम पिता रगबीर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	480	0.010	0.010	
224	जगदीशप्रसाद संतोष पिता हरिनारायण जयती वेवा हरिनारायण सा देहराजेन्द सिंह लोधी पिता जनक सिंह लोधी नि पगारा 350 वर्गफुट का प्लाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	481	0.400	0.400	
225	श्रीमति ललिताबाई पति भरत यादव पता सा.किरोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	482	0.560	0.560	
			514	0.080	0.080	
226	विन्दावन पि. गम्पे सौर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	483	3.350	3.350	
227	दलोप पि.चतूपता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	489	1.050	1.050	
228	बबुआ बलदुवा सीताराम कोमलकाशीराम पि.कुन्दन दुरागिया बेवा झुन्डा मोहनबाई ताराबाई पुत्री झुन्डा पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	512	0.780	0.780	
			688	0.030	0.030	
			755	0.020	0.020	
			923	0.150	0.150	
229	कछेदी वीरसिंग बदनसिंग पिता मूरतसिंग पता सा. किरोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	513	0.730	0.730	
230	तिजई पिता पचू कमलाबाई रतीबाई पुत्री पचू छोटे मथुराबाई वे. मन्नु रोहण बा. जग्गू मल्लोबाई सुखवती ना.बा. पिता. मन्नु बली मां मथुराबाई बेबा मन्नु रामकली बेबा हरबशी मंगल पारीक्षत अनाडी, पूरन बिहारी मल्लोबाई पिता हरबशी रत्ती पु. हरीसिंग पता सा. देह भूमि स्वामी माखन हल्लाई पिता रगनाथ नत्थीबाई कान्तिबाई ममताबाई पुत्री रगनाथ ज्ञानबाई बेवा रगनाथदशरथ नेहा सीमा नाबा पुत्री देशराज वली व खुद मा बेवा देशराज पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	513/2	0.030	0.030	
231	माखन हल्लाई पि रगनाथ नत्थी बाई कान्तिबाई ममताबाई पुत्री रगनाथ ज्ञानबाई बेवा रगनाथ दशरथ नाबा पिता देशराज सीमा नेहा नाबा पुत्री देशराज वली व खुद मा ननीबाई बेवा देशराज दिनेश कुमार पिता दीपचन्द 27x40=1080 वर्गफुट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी तिजई पिता पचू कलीबाई रतीबाई पुत्री पचू छोटे राम पिता दून्डा मथुराबाई बेवा मन्नु रोहण बा जग्गू मल्लोबाई सुखवती नाबा पिता मन्नु वली मामथुराबाई बेवा मन्नु रामकली बेवा हरबशी हीराबाई पति खुशीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	515	0.410	0.410	
			779	0.080	0.080	
			781	0.260	0.260	
			783	0.090	0.090	
232	भोपालसिंग विन्दावन वा.अरविन्द ना.वा.पि.व वली हरीसिंग भोले पिता रगबीर सा. देह रेखारानी पति कल्याण रेकवार सा रजाखेड़ी तह सागर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	516	0.070	0.070	

233	कुलदीप पिता मनोराम केशव नावा पिता वली रामदास पिता नाथूराम यादव पता सा. मदैया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	518/1	0.110	0.110	
234	माधोप्रसाद राममनोहर अवधनारायण पिताबालमुकुन्द पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	518/2	0.080	0.080	
235	देशरानी पति रल्लो पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	518/4	0.040	0.040	
236	सिम्मा पिता चपटा तुलसाबाई जोज रूपनारायण सा० सलैयाखुर्द गयाप्रसाद पिता रामचरणचन्दन पिता सूरतसिंह रमेश पिता दुर्गाप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	519/1	0.690	0.690	
237	विजयसिंह पि.बलवंतसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	519/2	0.020	0.020	
238	बबली पति रघुवीर नागवंशी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	520/1	0.530	0.530	
			522	0.800	0.800	
			529/1	0.600	0.600	
			530/1	0.590	0.590	
239	सुपालसिंग पिता भबूदसिंग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	520/2	0.180	0.180	
			529/2	0.200	0.200	
			538/1	0.230	0.230	
			538/2	0.220	0.220	
			539/2	0.220	0.220	
240	मनमोहन पिता रल्लो पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	520/3	0.180	0.180	
			529/3	0.200	0.200	
			530/3	0.200	0.200	
241	कल्याण गोविन्द पिता मोती सरोजबाई इमरती बाई खेमाबाई हरीबाई पुत्री मोती अतुल रामकुमार नावा० पिता लक्ष्मण संजो नावा० पुत्री लक्ष्मण पा० व खुद मोंराजबाई बेबा लक्ष्मण पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	523	0.670	0.670	
242	तुलसी बुद्धा पि.गोरिलालबडीबेन हल्कीबेन पुत्री गोरिलाल सा. नाऊडाना दमरुपिरल्ली इमरत वा.जुगन्दर भूमि स्वामी नावा. पि.भावसींग वली मांपानबाई बेवा भावसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	525	0.100	0.100	
			541	0.100	0.100	
			824	0.090	0.090	
			833	0.010	0.010	
			934	0.980	0.980	
			942	1.160	1.160	
243	मथुराबाई बेवा मन्नु रोहणवा.जग्गू मल्लोबाई सुखवती नावा.पि.मन्नु वली मोंमथुराबाई बेवा मन्नु पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	527	0.320	0.320	
			528	0.680	0.680	
244	भबूद जगन्नाथ पि.भग्ग गंगा पुत्री भग्ग सीताराम शालकराम मलखान पिस. गनेश पुष्पाबाई प्रतीक नावा० वल्द वली विजय सींग फूलाबाई मल्लोबाई पुत्री गनेश गौराबाई वेवा गनेश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	531/1	0.430	0.430	
245	प्रतीकसींग नाव्णव वल्द वली विजयसींग पिता बलवतसींग राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	531/2	0.500	0.500	

246	समता पति सुधीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	532/2	0.090	0.090
			534/2	0.310	0.310
247	केशरीसिंह पिता गुलाबसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	535/2	0.190	0.190
248	गुलाबसिंग पिता हरीसिंग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	536	0.580	0.580
			747/5	0.120	0.120
249	चन्द्रवती पुत्री सावतसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	539/1/3	0.010	0.010
			741/3	0.010	0.010
			874/2/3	0.050	0.050
			879/3/3	0.060	0.060
250	राजाराम नंदराम रामदीन प्यारेलाल पिता बारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	540	0.590	0.590
			782	0.110	0.110
251	ऊज्यारसिंग शिवराजसिंग रामसिंग वीरसिंग मेघराजसिंग पि. पहारसिंग सुषमा महती विशाखा वा.मोनिका नावा.पुत्री धनसिंगपालक वखुद माँ लीलाबाई वे. धनसिंग रामबाई वे. पहारसिंग पता सा. पड़वार भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	544	0.130	0.130
			546	0.230	0.230
			575	0.040	0.040
			657	0.040	0.040
252	काशीराम चूरामन फूलाबाई बेबा चूरामन सुंदरलाल पिता गंगा विमला पुत्री गंगा रामकली बेबा गंगा कल्याण गोविंद पिता मोती सराजबाई इमरतीबाई खेमाबाई हरीबाईपुत्री मोती अतुल रामकुमार नावा० पिता लक्ष्मण संजो नावा० पुत्री लक्ष्मण पा० व. खुद माँ राजबाई बेबा लक्ष्मण पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	564	0.820	0.820
			744	0.070	0.070
			813	0.060	0.060
253	पानबाई वगैरहा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	570/1	0.150	0.150
254	खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	570/2	0.550	0.550
255	गिरधारी पिता खिलान गडारिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	570/4	0.400	0.400
256	मर्दन सिंह पिता धौकल सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	570/980/	0.240	0.240
			570/980/	0.240	0.240
			867/3	0.270	0.270
257	सेवक पि.वारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	578	0.910	0.910
258	कल्याणसिंग रूपसिंग अमरसिंग पि. मकुन्दसिंग कस्तूरीबाई बेबा मकुन्दसिंग पुष्पाबाई पुत्री गुलझारसिंग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	581/1	0.560	0.560
259	गगाबाई पति रूपसिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	581/2	0.560	0.560
260	चूरामन पि.भबूदा पता सा. देह सेवा खातेदार	भूमि स्वामी	582	0.190	0.190
			748	0.260	0.260
			802	0.180	0.180
261	निरनसिंग पि.सूरतसिंग बड़ीविन्ना नन्नीविन्ना पुत्री अनदीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	586	0.340	0.340
262	भबूदे जगन्नाथ पिस. भग्गे गगा पुत्री भग्गे सीताराम शालकराम मलखान पिस. गनेश पुष्पाबाई. फूलाबाई मल्लीबाई पुत्री गनेश पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	588	0.470	0.470
			597	0.010	0.010
			601	0.020	0.020
			787	0.140	0.140
			902	0.650	0.650

263	प्रदुम ना. बा. पिता तुलसी वली मां व खुदकाशीबाई बेबा तुलसी बेनी बाई पुत्री तुलसीतुलसाबाई बेबा तुलसी पता सा. देह भूमि स्वामी महेन्द्र नाबा पिता तुलसी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	590	0.060	0.060	
			876	0.730	0.730	
			878	0.140	0.140	
264	इन्द्रपाल सिंह देवपाल सिंह पिता देवेन्द्रसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	594	0.030	0.030	
265	भबूदे जगन्नाथ पि. भग्गेगगा पुत्री भग्गे सीताराम शालकराम मलखान पि. गनेशपुष्पाबाई फूलाबाई मल्लो भूमि स्वामी बाई पुत्री गनेश गोराबाई बेबा गनेश पंचू छोटा रगनाथ राम मलू पि. दुन्डा हरवंशपि. देवी रानीबाई पुत्री भूमि स्वामी हरीसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	595	0.040	0.040	
			786	0.200	0.200	
266	भबूदा पि. बटू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	596	0.010	0.010	
267	इन्द्रर पि. गनेश रूपसींग पि. वसोरे पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	605	0.030	0.030	
268	रामसींग ना. वा. पि. पालक रामसींग पि. चेतू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	608/2	0.010	0.010	
269	चैदनसींग पि. सूरतसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	611	0.050	0.050	
270	द्वारकाप्रसाद पिता जगन्नाथ ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	612	0.030	0.030	
			958	1.310	1.310	
271	पूनाबाई बेबा छतारे गिरजाबाई पुत्री छतारे सतोष सींग रघुराजसींग हरीबाई गंगाबाई पि. सम्मरसींग भूमि स्वामी सा. देह अवधरानी बेवारामनाथ पता सा. मडिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	614	0.060	0.060	
			650	0.180	0.180	
272	रतनसींग खिलानसींग पि. खलकसींग चिरोजा बेबा खलकसींग बडीबहू बेबा सूरतसींग गुडडी पुत्री सूरतसींग भूमि स्वामी जनकसींग पि. मानसींग कुंवरबाई सल्लोबाई पुत्री भुज्जी तेजसींग अमरसींग पर्वतसींग चन्द्रभान पि. भूमि स्वामी तांतू नन्नीबहू बेबा तांतू इमरतीबाई पुत्री तांतू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	619/1	0.040	0.040	
			632/1	0.050	0.050	
			633/1	0.130	0.130	
			682/1	0.010	0.010	
			698/1	1.070	1.070	
			738/1	0.010	0.010	
273	राघबेन्द्र वा. प्रतिपालसींग बृजभानसींग लालसींग ना. वा. पि. पा. वीरसींग धनबाई बेबा वीरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	619/2	0.050	0.050	
			632/2	0.050	0.050	
			633/2	0.100	0.100	
			675/2	0.010	0.010	
			682/2	0.010	0.010	
			698/2	1.470	1.470	
			738/2	0.010	0.010	
274	हरिशंकर उमाशंकर पि. जालम पता सा. बम्होरी जगदीश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	621	0.020	0.020	
275	प्रेमबाई सल्लो पुत्री हरीराम बट्टीप्रसाद मुन्नालाल पि. हीरालाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	622	0.010	0.010	
			629	0.110	0.110	
			708	0.560	0.560	

276	परताप डेलनसीग ननेभाई पि. जाहरसीग, मल्लोबाई बेवा जाहरसीग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	623	0.010	0.010
277	रूपसीग हल्के पि. दरयावसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	626	0.010	0.010
278	महीप मेघराज ना.वा.पि.वलीमानसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	628	0.090	0.090
279	सूरतसीग पि.नारानजू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	636	0.010	0.010
			641	0.170	0.170
280	करनसीग पि.मकुन्दसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	641/970	0.130	0.130
			644/972	0.100	0.100
			870	0.730	0.730
281	बैजनाथ पि. गोपीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	641/981	0.040	0.040
282	सरदारसीग पि.भगवानसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	644	0.100	0.100
			205/974	0.040	0.040
			652	0.150	0.150
283	अवधरानी बेवा रगनाथ मकुन्दसीग पि. खुमानसीग पता. सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	655	0.070	0.070
284	चन्द्रभान सिंह पिता फूलसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	661	0.110	0.110
285	इमरतसीग पि.निरभेसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	663	0.150	0.150
286	अमरसीग पि.भुब्बा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	664	0.290	0.290
287	मानसीग पि.माधोसीग करतारसीग पि.द्वोरसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	665	0.260	0.260
288	राजाराम पि.नारानजू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	665/967	0.260	0.260
			636/969	0.010	0.010
			704/968	0.170	0.170
289	करतारसीग पि.द्वोरसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	666	0.300	0.300
290	तरवर उफे गब्बर पिता खूबसीग वल्द रधीरसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	668/1	0.280	0.280
			906/2	0.810	0.810
291	राजमहेन्द्रसीग वल्द खूबसीग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	668/2	0.280	0.280
			906/1	0.850	0.850
292	रूपसीग पि.मकुन्दी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	670	0.040	0.040
			714	0.130	0.130
293	शुन्ती बेवा हीरा लक्ष्मी बेटीबाई पुत्री हीरा नथुवा परसदिया पि. गनपत हरवाईजनकिया पुत्री गनपत पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	671	0.030	0.030
294	घसिया विहारी पि. फुल्ला मझली बहू बेवा धरम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	673	0.020	0.020
			676	0.010	0.010
295	घसिया पि. फुल्ला पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	675/1	0.010	0.010

296	चन्द्रभानु पिता कमला अमनिया बेवा कमला पूनाबाई काशीबाई मुलाबाई पु उदेत नंदा कनई पिदमरू कुंजन पि. किशोरा हरीबाई पि.हल्कुवा चन्द्रप्रभा वेहल्कुवा.लछिया पानबाई पु दमरू मेघराज पि मिटठू भागबाई पु मिटठू हरनाम मुकेश गोली पि छोटेलाल संदीप सोरभ ना.वा. पिस. तुलसी वली माँ गोदाबाई बेवा तुलसी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	681/1	0.030	0.030	
			932/1	0.410	0.410	
297	मानसींग ना.वा.बल्द वलीमाधोसींग किशोर पि. गुबरा एनाबाई काशीबाई गुलाब बाई पुत्री उदेत नंदा कनई भूमि स्वामी मिडू छोटेलाल पि. दमरूसहोद्रा बेवा दमरू घसीटी पुत्री दमरू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	681/2	0.030	0.030	
			690	0.020	0.020	
298	शुब्बा पि.खुन्ना पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	687	0.050	0.050	
			757	0.020	0.020	
			925	0.080	0.080	
299	बिरजुवा हि. हिरकुवा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	691	0.050	0.050	
300	मुन्ना करन गिरधारी आशारामराजेश बृजेश पि.भूरलाल कुसुमबाई मीराबाई पुत्रीभूरलाल रतीबाई प्यारीबाई भूमि स्वामी बेवा भूरलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	693	0.040	0.040	
			695	0.070	0.070	
301	कन्हेदी धनप्रसाद नदलालापि.पल्दराम वतीबाई विमला बाई पुत्री पल्दराम भूमि स्वामी मुन्ना करन राजेश गिरधारीआशाराम बृजेश पि.भूरलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	696	0.190	0.190	
302	नारानजू पवत पि. मदेनसींग दुमाबाई बेवा मलूसींग सा. सेमरादात कपूरचंद प्रकाशचंद जवाहर पि.ताराचंद नेमी ना.वा. पि. ताराचंद बली भाई कपूरचंद मकुद कमला पुत्री ताराचंद सिरदारबाई बेवा ताराचंद सुमतरानी बेवा कोमल शीतलचंद राकेश राजकुमार अभयकुमार पि.कोमल चमेलीबाई पुत्री कोमल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	697	0.090	0.090	
303	सूरतसींग इमरतसींगापि.नारानजू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	700	0.510	0.510	
304	मानसींग पि.माधसींग ऊदलसींग पि.वीरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	702	0.490	0.490	
305	भूपेन्द्रसिंह वानीसिंह वा.खुमानसिंहना.वा.पि.वली परवलसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	703	0.910	0.910	
306	मानसींग पि. माधसींग करतारसींग पि.वीरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	704	0.170	0.170	
307	हल्के पि. जसरथ सोर पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	705	0.660	0.660	
308	मूलसींग पि.धीरजसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	710/1	0.310	0.310	
			712/1	0.100	0.100	
309	हिम्मतसींग पि. बहादुरसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	710/2	0.150	0.150	
			712/2	0.090	0.090	
			770/2	0.010	0.010	
310	गुलाबबाई बेवा हरीसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	713	0.220	0.220	
			772	0.020	0.020	
			914	0.080	0.080	
			920	0.200	0.200	

311	प्रेमबाई पति नाथूराम पता सा मदेया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	719/3	0.050	0.050
			761/2	0.550	0.550
312	आलम पि. थुब्बे पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	722	0.080	0.080
313	सक्काबाई बेवा फुल्लासतोष जनकाबाई प्रेमबाई कलीबाई बा. बबीता ना.वा.पि.फुल्ला वली मां सक्का भूमि स्वामी बाई बेवा फुल्ला पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	725	0.070	0.070
			754	0.010	0.010
			922	0.150	0.150
314	नथुवा परसादी पि. चिरपोटा नन्नु पुत्री चिरपोटा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	726	0.040	0.040
			732	0.010	0.010
315	कुन्जन पि. किशोरा पता.सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	728	0.040	0.040
			758	0.020	0.020
			926	0.080	0.080
316	दुर्जन पि. चेतुवा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	729	0.020	0.020
317	कड़ोरी कलुवा पि. हरजुवाचुन्नी कमोदी पि. सुकई पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	730	0.010	0.010
318	नारान शैलाल पि. सुन्दरानथुवा परसादी पि. चिरपोटा पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	733	0.080	0.080
			735	0.020	0.020
319	जमना सरमन शेखर कालीचरणपि.अमोल पंखी बेवा अमोल बडी विन्ना पुत्री अमोल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	740	0.070	0.070
320	ताराबाई बेवा इमरतसौग मेघराज छोटसौग पिस. इमरतसौग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	743/1	0.030	0.030
			743/3	0.040	0.040
			874/3	0.480	0.480
			879/2	0.140	0.140
321	सतोष पिता निरभे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	745/2	0.070	0.070
			893/2	0.530	0.530
322	इमरतसौग पि. निरभेसौग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	745/1	0.070	0.070
			769	0.200	0.200
			893/1	0.540	0.540
323	कन्छेदी दयाराम नन्दलाल धनप्रसाद पि.पल्दूराम वती बाई विमलाबाई पुत्री पल्दूराम पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	760	0.020	0.020
			928	0.090	0.090
324	सीताराम शालकराम मलखानापिण्गनेश पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	763	0.250	0.250
325	जगन्नाथ पिण्गवर सुमित्रापुत्री रगवर रामबाई बेवा रगवर गिरधारी पिण्गजारी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	767	0.090	0.090
			835	0.020	0.020
326	श्रीबाई बेवा बहादुरसौग भूरे बुजेश गोराबाई शशिबाई पि. बहादुरसौग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	774	0.020	0.020
327	पचू पिण्डुन्डे पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	778	0.170	0.170
			785	0.060	0.060
328	भबूदे जगन्नाथ पिण्गसौताराम शालकराम मलखान पिण्गनेश पुष्पा बाई फूलाबाई मल्लोबाई पुत्री गनेश पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	780	0.090	0.090
329	महेश कुमार पिता सीताराम सोनी पता सा गाधी चौक वाडे सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	794	0.710	0.710

330	काशीराम पिता चुरामन फलाबाई बेबा चुरामन कल्यान गोविंद पिता मोती सरोजबाई इमरतीबाई खेमाबाई हरीबाई पुत्री मोती अतुल रामकुमार नावा० पिता लक्ष्मन संजो नावापुत्री लक्ष्मन पा० व खुद माँ राजबाई बेबा लक्ष्मन पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	803	1.060	1.060	
331	भरतसौग इमरतसौग बन्दवानसौग पि० महादेवसौग करन ना० बा० पिता उजयार वली माँ व खुद बेनीबाईबेबा उजयार गुडडी सुसमा उर्चना पार्वतीपुरी उजयार पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	805	0.170	0.170	
			847	0.530	0.530	
			909	0.670	0.670	
332	भरतसौग पि० महादेव करन ना० बा० पिता उजयार वली माँ व खुद बेनीबाई बेबा उजयारमोदा गुडी सुसमा उर्चना पार्वती पुत्री उजयार पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	806	0.170	0.170	
333	जयसौग पि० सुखसौग पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	811	0.090	0.090	
334	भोपालसौग पि. खलकसौग उत्तमसौग पि. फूलसौग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	812/2	0.030	0.030	
335	मनबाई पुत्री बखते माधवसौग भूपेन्द्र भवानी छोटे पिता अपरवल मुलाबाई मझलीबाई मालतीबाई पुत्री अपरवल भूमि स्वामी प्रताप हल्कू धनु पिता जाहर कड़ोरी राघवेन्द्र भोपाल भूमि स्वामी पिता उत्तमसौग सझली बहू बेबा उत्तमसौग लक्ष्मीबाई ववीताबाई पुत्री उत्तमसौग करतार ऊदल जुगराज पिता भूमि स्वामी वीरसौग सझली बहू बेबा वीरसौग आराधना पुत्री वीरसौग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	817	0.030	0.030	
336	हीराबाई पुत्री निरभे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	822	0.050	0.050	
337	कल्यान पि० शंकर पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	825	0.080	0.080	
338	जगन्नाथ पि० भगं सौतारामशालकराम मलखान पि० गनेश पुष्पाबाई फूलबाई सक्कोबाईपुत्री गनेश गौराबाई बेबा गनेश पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	826	0.180	0.180	
			842	0.100	0.100	
339	गुलाबबाई बेबा पल्लू जमनाबाई पूरन रामप्रसाद रमेश पि० पल्लू घसीटीबाई बेवामोहन पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	828	0.070	0.070	
			888	0.460	0.460	
			953	0.510	0.510	
340	गुलाबचंद पुट्टी डलचंद पि. लक्ष्मीचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	831	0.050	0.050	
341	फूलबाई पुत्री बाबूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	840	0.001	0.001	
342	मुरलीधर महेन्द्र ना बा पिता तुलसीराम वली मा काशीबाईबेबा तुलसीराम पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	841	0.090	0.090	
			877	0.720	0.720	
			892	0.480	0.480	
			951	0.650	0.650	
343	कल्यानसौग रूपसौग अमरसौग पि० मकुन्दसौग कस्तूरीबाई पूनाबाई गनेशीबाई हल्कीबाई पुत्री भूमि स्वामी मकुन्दसौग पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	853	1.030	1.030	
			865	0.750	0.750	
344	मकुन्दसौग पि० खुमानसौग नथुवा रामलाल पि० दमरू पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	855	0.310	0.310	

345	चन्द्रभानु पिता कमला वली मा अमनिया वेणु कमला पुनाबाई काशीबाई मुलाबाई पुत्री उद्देतण नंदा कनई छोटेलाल पिता दमरु घसीया लछिया पानबाई पुत्री दमरु तुलसी मेघराज पिता मिट्टू भागबाई पुण मिट्टू रामसींग नाण्वाणपिता व पाण रतनसींग पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	857/1	0.340	0.340	
346	चंदाबाई पति लकखू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	857/2	0.180	0.180	
347	भोपालसींग राजासींग पिसण बुदनसींग पानबाई वेवा बुदनसींग पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	862/1	0.470	0.470	
			863/2	0.260	0.260	
			957/3	0.270	0.270	
348	फरनसींग बलू पिसण पहारसींग बसतोबाई वेवा पहारसींग लोधीपता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	862/2	0.470	0.470	
			957/2	0.270	0.270	
			957/4	0.270	0.270	
349	रतनसींग पिता भुजबलसींग पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	862/3	0.470	0.470	
			863/1	0.250	0.250	
			957/2	0.270	0.270	
350	रतनसींग पिता भुजबल सींग राजासींग पिता बुदनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	867/1	0.260	0.260	
351	कामता पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	867/2	0.800	0.800	
			904/2	0.400	0.400	
352	प्रह्लादसींग पिता खिलानसींग मायाबाई पुत्री खिलानसींग पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	874/1	0.470	0.470	
			879/1	0.130	0.130	
353	गनेश सींग पिता सुखसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	886	0.490	0.490	
			956/1	0.800	0.800	
354	कन्छेदी वाण्बलराम सूरतअलूनाण वाण पिण गुलाब वली मा श्रीबाई बेवा गुलाब पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	889	0.600	0.600	
355	कल्लोबाई जोजे लाखनसींगपता साण देहभूमि स्वामी	भूमि स्वामी	896	0.450	0.450	
			900/1	0.530	0.530	
356	भूपेन्द्रसींग भवानीसींगसुकमनसींग पिणअपरवलसींग धानसींग पिण माधोसींगजगराजसींग नाण्वाणपिणवली भूमि स्वामी वीरसींग पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	905	1.640	1.640	
357	गुलाबसींग रामसींग गजराजसींग पिण मलखानसींग पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	907	1.040	1.040	
358	अशोक सींग नाबा वल्द वली खेतसींगपिता हीरासींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	913/2	0.060	0.060	
			918/1	0.190	0.190	
359	भरतसिंह पिता तेजसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	915/2	0.150	0.150	
360	श्रीबाई वेवा बहादुरसींग भूरे बृजेश पिसण बहादुरसींग गौराबाई शांतीबाई पुत्री बहादुरसींग काशीबाई हरीबाई पुत्री शंकरसींग लोधी पता साण देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	916/1	0.660	0.660	
361	नदराम पिता दमरु पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	916/2	0.160	0.160	
362	अत्रूसिंह वा. नत्थूसिंहना.वा.पि कडोरी वली मां लक्ष्मीबाई बेवा कडोरी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	918/2	0.190	0.190	
363	रतनलाल पिता दमरु पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	940	0.190	0.190	

364	जुगन्दर पिता भावसो ग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	941	0.190	0.190
365	देवेन्द्र पि. खलकसी ग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	943	0.870	0.870
366	लक्ष्मीबाई पति रतनसो ग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	945/2	0.800	0.800
367	शोभाराम पि. हल्कूसी ग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	947	0.460	0.460
368	रामकली वेवा गगाराम सुन्दरलाल पिता गगाराम सुमरती विमला पुत्री गगाराम चढार पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	959/1	1.030	1.030
369	राजन्द्र सिंह पिता फूलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	959/2	0.200	0.200
			959/3	0.200	0.200
370	विजय शिवेन्द्र प्रताप पिस.बहादुरसिंह राजपूत पता सा. अढुवा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	960	2.040	2.040
	कुल :-		986	298.981	298.981

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 25A-82-17-18-898

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतु अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

- (1) परियोजना का नाम :- बण्डा परियोजना बण्डा बांध
- (2) भूमि का विवरण :-
1. जिला सागर
 2. तहसील बण्डा
 3. ग्राम कुल्ल
 4. पटवारी हल्का नं. 9
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 207.780

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.	अर्जित भूमि (रकवा हे. में.)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	बहादुर पिता मोती विजनसींग पिता परताप पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	301	0.080	0.080	
			440/1	0.100	0.100	
			527/1	1.210	1.210	
2	श्रीदेव जाकी रमण जी मुह.पंच बारसींग थानसींग,प्रबंधक कलेक्टर महोदयसागर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	302	0.050	0.050	
			400	0.020	0.020	
			420	0.080	0.080	
			421	0.020	0.020	
3	भूपेन्द्र सींग अमरसींग गब्बर जयपालन रामकृपाल पिता रामसींग गुडडी सीना पुत्री रामसींगबडी बहू बेबा रामसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	303/1	0.010	0.010	
			519/1	0.110	0.110	
			524/1	0.610	0.610	

4	जनकसोम पिता मूरतसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	303/2	0.010	0.010	
			519/3	0.100	0.100	
			415/3	0.020	0.020	
			524/3	0.610	0.610	
5	रामसीग पिता मूरतसीग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	415/1	0.030	0.030	
6	रविन्द्र रामजी पुत्र रधीरसीग सुखवती पुत्री रधीर सीग कलनबाई बेवा रधीरसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	415/2	0.030	0.030	
			519/2	0.100	0.100	
7	परषोत्तम पिता टुन्डा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	416	0.070	0.070	
			507/897/क/1	0.470	0.470	
8	द्वारकाप्रसाद वल्द रतीराम ब्रा.पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	417	0.100	0.100	
			439	0.250	0.250	
			446	0.590	0.590	
			456	0.480	0.480	
9	राजबाई जोजे उजबल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	418	0.060	0.060	
			449	0.280	0.280	
			831/1/ख/2	0.260	0.260	
10	बडीबहू जोजे नथूसीगहल्कीबहू जोजे शरणसीग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	419	0.070	0.070	
			746/1	0.500	0.500	
			750/1	0.270	0.270	
11	गुलझारसीग सुम्मेरसीगधनसीग भंडारीसीग लखनसीग पिस.नथूसीग सुमंत्रा बेवानथूसीग बडीबहू बेवा भूमि स्वामी जसरथ पूनाबाई बेवा सुकईननेसीग उमरावसीग पिस.सुकई पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	423	0.050	0.050	
			462	0.140	0.140	
			476	0.890	0.890	
			481	0.130	0.130	
			482	0.500	0.500	
491	0.210	0.210				
12	अरविंद पिताहरीशंकर पिता नामदेव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	424	0.070	0.070	
13	अमोल सीग पिता थानसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	425	0.040	0.040	
			426	0.100	0.100	
			507/897/क/5	0.200	0.200	
			538	0.400	0.400	
			626/5	0.510	0.510	
			630/5	0.200	0.200	
			656/2	0.030	0.030	
			859/2	0.590	0.590	
867/2	0.310	0.310				
14	धीरजसीग पिता थानसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	427	0.240	0.240	
			626/3	0.520	0.520	
			630/3	0.200	0.200	
			836/2	0.510	0.510	
			841	0.300	0.300	

15	बडीबहू बेवा भैयालालविश्वनाथ ज्वालासीग राजेन्द्रसिंह राजबहादुरपिता केशरीसीग भूमि स्वामी भगतसीग वल्दबारेसीग द्रोपतीबाई बेवा केशरी भूमि स्वामी भगतसीग वल्द बारसो रामकली राजबाई पुत्री बारसीग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	428	0.180	0.180
			450	0.250	0.250
			459	0.640	0.640
			465	0.220	0.220
			827	0.530	0.530
			868	1.040	1.040
16	हीरासीग पिता लक्ष्मनसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	429	0.080	0.080
			434	0.260	0.260
			460	0.160	0.160
			633	0.640	0.640
17	श्रीदेव हनुमानजी मुह.बारेसीग.प्रबंधक कलेक्टर महो.सागर पता. नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	430	0.180	0.180
18	विश्वनाथ सीग पिता केशरीसीग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	431	0.050	0.050
			486	0.500	0.500
			488	0.620	0.620
			508	0.630	0.630
19	देवीसीग प्रेमसीग पिता राजाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	432	0.020	0.020
			527/2	0.600	0.600
20	बद्रीप्रसाद मिहीलाल पिस.बलीराम शांतिबाई पुत्री बलीराम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	435	0.240	0.240
			500	0.750	0.750
21	औकारप्रसाद शिवकुमार पिस.केलाशचंद भागवती बेवा केलाशचंद जगदीशप्रसाद पिता सीताराम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	436/1	0.010	0.010
			606	0.200	0.200
			636	0.280	0.280
			534	0.130	0.130
			606	0.200	0.200
			620	0.810	0.810
			638	0.300	0.300
			659/1	0.080	0.080
			660	0.230	0.230
735/1	1.650	1.650			
22	मानवती पुत्री जगदीश पसादनरेश कुमार भोलाराम सरबन पिता जगदीशप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	436/2	0.010	0.010
			635	0.250	0.250
			659/2	0.080	0.080
23	अरविंद पिता हरीशंकर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	437	0.030	0.030
24	राजेन्द्र पिता प्रेमनारायण ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	438	0.040	0.040
			451/1	0.110	0.110
			451/2	0.100	0.100
			452/2	0.160	0.160

			507/897/क/2	0.250	0.250	-
			507/897/क/3	0.200	0.200	
			507/897/क/4	0.200	0.200	
			520	0.500	0.500	
			521/1	0.070	0.070	
			521/2	0.080	0.080	
			522	0.500	0.500	
			523/1	0.140	0.140	
			523/2	0.140	0.140	
			532/3	0.200	0.200	
			549/3	0.100	0.100	
			549/4	0.120	0.120	
			549/5	0.100	0.100	
			549/6	0.120	0.120	
			549/7	0.120	0.120	
			556/4	0.160	0.160	
			583/2	0.240	0.240	
			584/2	0.400	0.400	
			585	0.160	0.160	
			586	0.360	0.360	
			599/1	0.100	0.100	
			628	0.410	0.410	
			644/2	0.060	0.060	
			644/3	0.010	0.010	
			646	0.020	0.020	
			696/8	0.040	0.040	
			708/2	0.400	0.400	
			709/5	0.120	0.120	
			734/2	0.400	0.400	
			734/3	0.110	0.110	
			734/4	0.080	0.080	
			734/5	0.400	0.400	
			862/2	0.100	0.100	
			866/2	0.360	0.360	
25	देवीसिंह,प्रेमसींग पिस.राजाराम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	440/2	0.050	0.050	
			843	0.330	0.330	
26	चंदन सींग पिता गुपाल सींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	441	0.200	0.200	
			478	0.110	0.110	
			480/2	0.450	0.450	
			525/2	0.320	0.320	
			740/1	0.290	0.290	
			741/2	0.210	0.210	

27	विश्वनाथ ज्वालासींगराजेन्द्रसींग बहादुरसींग पिता केशरीसींग भगतसींग भूमि स्वामी पिता बारसींग द्रोपतीबाईबेवा केशरीसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	442	0.160	0.160	
			443	0.140	0.140	
			444	0.150	0.150	
			445	0.250	0.250	
			458	0.640	0.640	
			874	2.400	2.400	
28	वीरसींग तुलसीराम त्रिलोकसींग पिस. भगवानसींग बड़ी बहू बेवा भगवानसींगसावित्री संतोषी गुड्डी भूमि स्वामी पुत्री भगवानसींग लखनसींग लखनसींग महताबसींग उदमसींग पिता निरनसींग चन्दाबाई रामवती पुत्री निरनसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	447	0.430	0.430	
			842	0.520	0.520	
			845	0.810	0.810	
29	राजासींग पिता सम्मरसींग जयाबाई बेवा सम्मरसींग पहारसींग किशोरसींग पिस. सूरतसींग द्रोपती बाई बेवा खुमानसींग देवीसींग पिता खुमानसींग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	448/1	0.050	0.050	
			471	0.440	0.440	
30	द्रोपतीबाई बेवा खुमानसींग देवीसिंह बल्द खुमानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	448/2	0.080	0.080	
31	त्रिवेणी बाई पति तुलसी सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	448/3	0.030	0.030	
32	राघवेन्द धर्मेन्द पिता हल्काई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	452/1	0.010	0.010	
33	चन्द्रभान पिता गनपतसींग भंडारीसींग लखनसींग गुलझारसींग सुम्मेरसींगपिता नधूरसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	453	0.200	0.200	
			477	0.820	0.820	
			490	0.150	0.150	
34	सियारानी बेवा बारसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	454	0.130	0.130	
35	हरीशकर पिता धनीराम नामदेव पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	455/1	0.070	0.070	
			455/2	0.080	0.080	
36	भगतसींग पि.वारेलाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	457	1.350	1.350	
			467	0.390	0.390	
			496	2.120	2.120	
			496/896	0.010	0.010	
			609	0.460	0.460	
			632	0.560	0.560	
			634	0.560	0.560	
37	मुकेश पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	461	0.530	0.530	
			475/3	0.250	0.250	
38	बद्रीप्रसाद पिता बलीराम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	463	0.240	0.240	
			479	0.700	0.700	
			696/3	0.150	0.150	

39	सुधीरकुमार पिता निर्मलकुमार पता सा. बहेरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	464/1	0.360	0.360	
			475/1/2	0.280	0.280	
			475/1/3	0.200	0.200	
			475/4	0.280	0.280	
			484/907/2	0.800	0.800	
			505/2	0.380	0.380	
			507/897/ख/2	0.200	0.200	
			507/897/ख/3	0.360	0.360	
			507/897/ख/4	0.320	0.320	
			507/897/ख/5	0.360	0.360	
			507/897/ख/6	0.150	0.150	
			552	0.330	0.330	
			556/5&556/6	0.280	0.280	
			558/1	0.520	0.520	
			559/1	0.420	0.420	
			559/3	0.200	0.200	
			559/4	0.200	0.200	
			674	0.140	0.140	
			713/6	0.400	0.400	
			740/2	0.400	0.400	
			742	0.140	0.140	
			743	1.210	1.210	
			745/2	0.400	0.400	
			745/3	0.400	0.400	
			745/4/2	0.130	0.130	
			745/4/3	0.200	0.200	
745/4/4	0.520	0.520				
745/4/5	0.200	0.200				
745/7	0.600	0.600				
745/9	0.200	0.200				
745/10	0.520	0.520				
745/11	0.100	0.100				
745/13	0.140	0.140				
40	समता पति सुधीरकुमार जैन पता सा.सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	464/2	0.370	0.370	
			525/3	0.080	0.080	
			558/6	0.290	0.290	
			560/2	0.600	0.600	
			565/5	0.120	0.120	
			569	0.260	0.260	
			570/2	0.400	0.400	
41	पप्पूसींग रघुनाथ सींगराजासींग पिता गोपीसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	466	0.560	0.560	
			857	0.270	0.270	
42	धरमेन्द्र पिताविजनसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	468/1	0.520	0.520	
			504/1	0.520	0.520	

43	गनुवा भागीरथ पिस.नथुवा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	468/2	0.530	0.530	
			483	0.910	0.910	
			484/907/1	0.680	0.680	
			526	0.160	0.160	
			591	0.120	0.120	
			608	0.130	0.130	
			641	0.090	0.090	
			642	0.050	0.050	
44	श्रीदेव जानकी रमणजीसा.देह पंच बारेसींग नि.ग्राम,प्रबं.कले.महो.सागर-पता-नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	469	0.560	0.560	
			470	2.060	2.060	
			492	0.050	0.050	
			512	1.010	1.010	
			514	1.540	1.540	
45	शान्तिबाईजोजे गोपीसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	471/2	0.220	0.220	
			541	0.330	0.330	
46	घूमनसींग पिता अनंतसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	472	0.270	0.270	
			652	0.030	0.030	
			680	0.060	0.060	
47	खेतसींग जयसींग पिता मेहरवानसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	473	0.260	0.260	
48	हरीसींग पिता ठाकुरदास लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	474/1	0.080	0.080	
			844	0.070	0.070	
			853	0.410	0.410	
49	गोपी पिता ठाकुरदास लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	474/2	0.080	0.080	
			475/2	0.510	0.510	
			855/1	0.130	0.130	
			855/2	0.120	0.120	
50	पलू पिता अच्छेलाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	475/1	1.020	1.020	
51	शिवराज पिता हरीसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	475/7	0.260	0.260	
			851/1	0.200	0.200	
52	शिवराज पिता गुपालसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	480/1	0.450	0.450	
			741/3	0.100	0.100	
53	जगभानसींग पिता गुपालसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	480/3	0.450	0.450	
			741/1	0.890	0.890	
54	शिवदीन दयाराम छोटे लाल पिता कच्छेदी मलीदाबाई बेबा कच्छेदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	484	0.310	0.310	
55	बब्बू द्वारका कपूरा पितारमुवा हरीबाई मल्लो सरोज पुत्री रमुवा वारी बेवारमुवा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	485	0.510	0.510	
			739/1	0.780	0.780	
			744/2	0.420	0.420	

56	बाबूसीग अर्जुन सीग जगभान सीग प्रहलादसीग पिता मकुंदी वतीबाई कलीबाई प्रेमबाई पुत्री मकुन्दी सीगजनकरानी बेबा मकुंदी सीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	487	0.350	0.350	
			556/3	0.550	0.550	
			572/1	0.470	0.470	
			640/1	0.030	0.030	
			645	0.040	0.040	
			655/1	0.070	0.070	
			690/1	0.140	0.140	
			690/3	0.170	0.170	
			696/1	0.050	0.050	
			708/3	0.050	0.050	
			709/4	0.450	0.450	
			741/906/1	0.540	0.540	
			744/1	0.210	0.210	
57	माधव सीग पिता भगतसीग राजबहादर पिता केसरी सीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	493	0.400	0.400	
58	गीतारानी असोक रानी पानबाई पुत्री गोदा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	494	0.500	0.500	
			503	0.400	0.400	
			653	0.020	0.020	
			654	0.020	0.020	
			681	0.080	0.080	
59	भोले बभगतसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	495/1	0.410	0.410	
			495/3	0.410	0.410	
60	ज्वालासीग पिता केशरीसीग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	495/2	0.330	0.330	
61	रामप्रसाद उत्तम पिस.तिज्जा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	497/1	0.520	0.520	
			831/2/क	0.490	0.490	
			833/1	0.230	0.230	
62	विरजू लछमन रामशरण पिस.भरोसे काशीबाई बेवा भरोसे पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	497/2	0.080	0.080	
			498	0.450	0.450	
63	तुलसीराम देवेन्द कुमार-रामगोपाल भगवानदार पिता कन्छेदी कान्तीबाई अनीताममता पुत्री कन्छेदी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	499	0.730	0.730	
64	प्रागसीग पि.जोधन साग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	501/2	0.510	0.510	
65	जगतसीग पिता खिलानसीग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	502	0.320	0.320	
66	विश्वनाथ पिता मत्रूलाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	504/2	0.520	0.520	
67	हरिशंकर पिता धनीराम राजाराम पिता रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	505/1	0.780	0.780	

58	अगुण्डे व. निर्मलकुमार जैन पता सा.सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	505/3	0.400	0.400	
			507/2	0.460	0.460	
69	महतापसींग ऊदमसींग पिस.निरनसींग लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	506/1	0.220	0.220	
			506/2	0.220	0.220	
			516/1	0.400	0.400	
70	हाकमसींग पिता अमोलसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	507/1	0.460	0.460	
71	राघवेन्द्र धर्मन्द्र जितेन्द्र सुनील नाबा पिता हल्काई गीता बाई बेबा हल्काई पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	507/897/ख/1	0.420	0.420	
72	हरलाल पिता बुद्धे पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	509/1	0.130	0.130	
			509/2	0.310	0.310	
			584/1	0.450	0.450	
73	दुर्गादास श्रीराम अनूपे दुलीचंद पिता रामाप्रसाद विन्वा बाई बेबा रामकिशन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	510	0.290	0.290	
			531/1	0.390	0.390	
			594	0.250	0.250	
			728	0.080	0.080	
74	गिरधारी ग्याप्रसाद मुरलीशोभा थोबन पिस. लछमन ज्ञान पारवती पुत्री लछमन अट्टोबाई बेवा लछमन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	511	0.390	0.390	
			578	0.700	0.700	
			729	0.080	0.080	
75	कल्याण पिता घन्से पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	513/1	0.160	0.160	
			597/2	0.130	0.130	
			611/2	0.150	0.150	
			649/1	0.010	0.010	
76	राजकुमारी पति राजेन्द्रपसाद पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	513/2	0.800	0.800	
			734/1	0.380	0.380	
77	देवीसींग पित बलवंतसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	513/3	0.480	0.480	
			555/3	0.170	0.170	
			563/3	0.250	0.250	
			565/3	0.270	0.270	
			576/1	0.220	0.220	
			663/2	0.020	0.020	
			671/1	0.030	0.030	
			693/3	0.110	0.110	
			697/2	0.040	0.040	
			705/1	0.160	0.160	
			730/3	0.040	0.040	
			731/3	0.010	0.010	
			749/1	0.290	0.290	
751	0.650	0.650				
766/1	0.060	0.060				

78	गनेश पिता घन्से पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	513/4	0.140	0.140	
			597/4	0.130	0.130	
			613/2	0.310	0.310	
			649/2	0.010	0.010	
79	खुमान हंतोष वल्द मुन्नालाल नंनीबाई जौजे मुन्नालाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	515	1.470	1.470	
80	लाखनसींग पिता निरनसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	516/2	0.400	0.400	
81	कुन्दनसींग पिता बाबूसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	517/1	0.300	0.300	
			839/3	0.220	0.220	
			856/3	0.100	0.100	
82	सिविलसींग वल्द बाबूसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	517/2	0.290	0.290	
			839/2	0.220	0.220	
			856/1	0.100	0.100	
83	गोविंदसींग वल्द त्रिलोकसींग महेन्द्रसींग वल्द सिविलसींग मुन्ना वल्दसिद्दी चाली ना.वा. पुत्री भंता कुन्दनपिता दुरजन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	518	0.700	0.700	
84	रविन्द्र शैमजी पिता रंधीर सींग कल्लनबाई बेबा रंधीर सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	524/2	0.610	0.610	
85	रामदीन वल्द पलदू दयाली पिता परमू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	529/1	0.340	0.340	
86	हल्ली बाई पति दयाली पाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	529/2	0.340	0.340	
87	मनीष पिता राजेन्द पसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	531/2	0.400	0.400	
			572/3	0.100	0.100	
			573	0.210	0.210	
			592	0.360	0.360	
			739/2	0.200	0.200	
			739/3	0.120	0.120	
88	आमरसींग पि हरनसींग बड़ी बहू बेवा हरनसींग सातोस मनीस मनोज पिता राजेन्द पसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	532/1	0.210	0.210	
89	मनोज पिता राजेन्द पसाद वल्केया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	532/2	0.200	0.200	
90	सतीष मनीष मनोज पिता राजेन्द पसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	532/4	0.210	0.210	
			556/7	0.550	0.550	
91	औंकारप्रसाद शिवकुमार पिस.कैलाशचंद पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	533	0.270	0.270	

92	ज्योती पिता भगवानदास पता सा.सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	535/1	0.220	0.220	
			537	0.760	0.760	
			577	0.600	0.600	
			709/2	0.400	0.400	
			713/2	0.230	0.230	
			745/8	0.400	0.400	
			746/2	0.400	0.400	
			747/2	0.800	0.800	
			748	0.780	0.780	
93	हम्मीर पिता कीरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	535/2	0.400	0.400	
94	नरेशकुमार भोलाराम सरमन पिस. जगदीशप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	536	1.120	1.120	
			554/1	1.870	1.870	
			639	0.190	0.190	
			643	0.140	0.140	
			658	0.260	0.260	
			735/2	0.030	0.030	
95	लखनसींग महताबसींग उदमसींग पिता निरनसींग चन्दाबाई रामवती पुत्री निरनसींग राकुमार पिता अमोलसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	539	0.400	0.400	
			626/2	0.520	0.520	
			630/2	0.190	0.190	
			664	0.300	0.300	
			836/1	0.520	0.520	
96	लड्डू पिता मजबूत सींग गुडडी बाई बेबा मजबूत सींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	540	0.190	0.190	
			542/2	0.160	0.160	
			601	0.570	0.570	
			603	0.430	0.430	
			669	0.050	0.050	
			683	0.170	0.170	
97	बैजनाथ पि.जुझारसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	542/1	0.260	0.260	
			600	0.380	0.380	
			602	0.480	0.480	
			665	0.150	0.150	
			670	0.060	0.060	
98	गिरजाबाई बेवा महादेवराजाराम पिता महादेव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	543	0.320	0.320	
			551	0.200	0.200	
			566	0.090	0.090	
			657	0.050	0.050	
			668	0.130	0.130	
			669/889	0.010	0.010	
99	देवेन्द्र पिता जगतसींग उदय दुरगसींग पिता शिवराज सींग अमृता नावा0 पुत्री शिवराज सींगवली व खुद माँ बडी बहू बेबा शिवराज सींग श्यामबाई बेबा जगतसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	544	1.140	1.140	
			550	0.170	0.170	
			568	0.200	0.200	
			570/1	0.350	0.350	
			657/902	0.020	0.020	

100	गजराजसींग वल्द कुहूसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	545	0.890	0.890	
101	उमेदी पिता तिज्जा शंकोबाईबेवा चेतुवा खिम्माबाई जुगतिया पुत्री गनपत पूरनसल्ला चूरामन पिता चेतुवा भूमि स्वामी कल्लो शकुन पुत्री चेतुवाधनसींग पिता नंना पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	546	0.390	0.390	
			547	0.480	0.480	
			548	0.300	0.300	
102	पंचुवा पिता फदाली काशीबाई पुत्री फदाली पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	549/1	0.440	0.440	
103	गुलाबबाई कांटीबाई पुत्री उमराव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	549/2	1.130	1.130	
104	बब्बू कपूरा पिता रमुवा हरीबाई गल्लोबाई सरोज पुत्री रगुवा गुमनियाबेवा रमुवा भूमि स्वामी सहोद्रा गोमती पुत्री कुलवा पूनाबाई पुत्री परमू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	553	1.070	1.070	
105	हाकमसिंह पिता केशरीसिंहगेदारानी बेबा केशरीसिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	555/1	0.160	0.160	
			561/1	0.030	0.030	
			563/1	0.250	0.250	
			564/1	0.150	0.150	
			565/1	0.390	0.390	
			627	0.250	0.250	
			673	0.090	0.090	
			692	0.120	0.120	
			693/1	0.010	0.010	
			706	0.130	0.130	
			713/1	0.670	0.670	
			730/1	0.050	0.050	
			731/1	0.010	0.010	
			753/1	0.670	0.670	
764/1	0.090	0.090				
106	सुनील कुमार पिता निर्मल कुमार जैन पता निवासी ग्राम सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	555/2	0.170	0.170	
			556/8	0.180	0.180	
107	इमरतसिंह पिता बलबन्तसिंह लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	555/4	0.160	0.160	
			558/3	0.040	0.040	
			561/3	0.170	0.170	
			563/4	0.520	0.520	
			576/2	0.230	0.230	
			663/3	0.030	0.030	
			671/2	0.030	0.030	
			693/4	0.100	0.100	
			697/3	0.030	0.030	
703	0.090	0.090				

			704	0.030	0.030	
			705/2	0.040	0.040	
			713/4	0.230	0.230	
			730/4	0.040	0.040	
			731/4	0.010	0.010	
			747/3	0.270	0.270	
			749/2	0.390	0.390	
			750/2	0.270	0.270	
			766/2	0.060	0.060	
108	मकुन्दसींग सुखसींग पिस.बखतसींग अमरसींग पिता हरनसींग वडीवहू वेवा हरनसींग तुलसा ग्यान हल्ली पुत्री हरनसींग सतीष मनीष वल्द राजेन्द्रप्रसाद.राजेन्द्र वल्द प्रेमनारायण रामसींग पिता फूलसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	556/1	0.210	0.210	
109	सुरेन्द्र सिंह पिता सुखसींग रानी पुत्री सुखसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	556/2	0.550	0.550	
			640/2	0.040	0.040	
			655/2	0.070	0.070	
			707	0.280	0.280	
			709/3	0.450	0.450	
110	धनसींग पिता भगुन्त सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	558/4	0.040	0.040	
			614/1	0.900	0.900	
			671/3	0.040	0.040	
			697/4	0.040	0.040	
			705/3	0.150	0.150	
			718/1	0.370	0.370	
			730/5	0.030	0.030	
			731/5	0.010	0.010	
			766/3	0.050	0.050	
111	राकेश जनक वा.राघवेन्द्र खूबसींग ना.वा.पिस. नथूसींग पालक मां नीमाबाई जोजे नथूसींग पता निवासी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	661	0.130	0.130	
			662	0.050	0.050	
			672	0.110	0.110	
			765	0.240	0.240	
112	नथूसींग वल्द सेवकसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	560/1	0.460	0.460	
113	विजय सींग पिता कीरत सींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	561/2	0.030	0.030	
			563/2	0.250	0.250	
			564/2	0.150	0.150	
			565/2	0.370	0.370	
			663/1	0.060	0.060	
			693/2	0.100	0.100	
			730/2	0.050	0.050	
			731/2	0.010	0.010	
			753/2	0.670	0.670	
			764/2	0.090	0.090	

114	केकई पिता भगुन्तसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	565/4	0.530	0.530	
115	परवत हल्के पिता बुद्धामंजलीबहू बेवा बुद्धा कड़ोरी पिता बिहारी हिरऊपिता करनजू भूमि स्वामी बड़ी बिना प्रेमबाईपुत्री करनजू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	567	0.470	0.470	
			862/1	0.510	0.510	
116	गुड्डाबाई पति राजसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	571	0.280	0.280	
117	राजासिंह पिता रूपसिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	572/2	0.190	0.190	
118	राजसींग भरतसींग पिता रूपसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	574/1	0.140	0.140	
			575/1	0.210	0.210	
			575/2	0.600	0.600	
119	रामगोपाल पिता कच्छेदीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	579/1	0.100	0.100	
			581/1	0.060	0.060	
			581/2	0.280	0.280	
			582	0.320	0.320	
			599/2	0.300	0.300	
			625/2	0.360	0.360	
120	रूपसींग पिता बल्लेसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	580/1	0.350	0.350	
			580/2	0.350	0.350	
121	काशीराम पिता नंदलाल अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	583/1	0.060	0.060	
			728/890/1	0.180	0.180	
122	विन्धाबाई जोजे रामकिशन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	587	0.240	0.240	
123	शिवदीन रेवाराम दयालीपिस.कच्छेदी मलीदाबाई बेवा कच्छेदी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	588	0.180	0.180	
			593	0.400	0.400	
			618	0.340	0.340	
			726	0.310	0.310	
124	शोभा थोवन पिता लक्ष्मन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	589	0.400	0.400	
125	कड़ोरी पिता बिहारी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	590/1	0.400	0.400	
			865	0.810	0.810	
126	विट्टल भाई पिताकशीराम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	590/2	0.400	0.400	

127	श्रीराम पि.बडू सोनी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	590/3	0.440	0.440	
			595/2	0.030	0.030	
			595/3	0.400	0.400	
			596/1	0.260	0.260	
			597/3	0.320	0.320	
			598/2	0.450	0.450	
			598/3	0.450	0.450	
			614/2	0.400	0.400	
			720/1	0.180	0.180	
			721/1	0.360	0.360	
128	नंदलाल पिता दमरू गिरधारीपिता लक्ष्मण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	595/1	0.420	0.420	
129	कमलेश पिता रामसेवक सोनी पता निवासी सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	596/2	0.690	0.690	
130	कमोदीबाई पुत्री छिम्मा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	598/1	0.020	0.020	
			677	0.030	0.030	
131	पूरन जवार पिस. परमुवागोरिया हल्की पुत्री परमुवा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	604	0.140	0.140	
132	गनपत वलू पिता कड़ोरिलाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	605	0.320	0.320	
133	दयाली पिता परमू कैलाशपिता सीताराम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	607	0.550	0.550	
134	शंकर पिता कलू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	610	0.410	0.410	
			650	0.040	0.040	
			651	0.030	0.030	
			737	0.730	0.730	
			738	2.290	2.290	
			763	0.150	0.150	
			830	0.430	0.430	
135	मिठुआ पिता सुक्का पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	611/1	0.290	0.290	
136	हल्काई पितापरमू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	616/1	0.250	0.250	
			623/1	0.360	0.360	
			770/2	0.060	0.060	
137	दयाराम उर्फ दयाली पिता परमू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	616/2	0.250	0.250	
			623/2	0.360	0.360	
			770/3	0.060	0.060	
138	कुंजी जवार नंदू पिस.पंचम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	617	0.580	0.580	
			622	0.400	0.400	

139	अमरसीग हरिचंदपिता रज्जू जलधारा इन्द्रानी वा.हल्लीपिता रज्जू पिता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	619	0.110	0.110	
140	नंदू पिता पंचम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	621	0.120	0.120	
141	बलराम पिता रल्ली पाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	624	0.430	0.430	
142	शिवदीन छोटेलाल दयालीपिस.कच्छेदी मलीदाबाई बेबा कच्छेदी ग्याप्रसाद भूमि स्वामी शोभा थोबन पिस.लछमन ज्ञानबाई पारवती पुत्रीलछमन भूमि स्वामी अरविन्द दीपक पिता मुरलीधर गुडडीबाई बेवा मुरलीधर रेखा विनीता पुत्री: मुरलीधर मुन्नालाल काशीराम पितानदलाल दर्गादास श्रीराम अनूप दुलीचन्द पिता रामकिशन विन्वाबाई बेवा रामकिशन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	625/1	0.110	0.110	
143	वीरसीग तुलसीराम त्रिलोकसीग पिता भगवानसीग सतोषी गुड्डी सावित्री पुत्री भगवानसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	626/1	0.520	0.520	
			630/1	0.190	0.190	
			867/1	0.320	0.320	
144	डेलन सिंह गब्बरसिंह पिता भूपेन्द्रसिंह गनेशीबाई सरोजबाई बेवा भूपेन्द्रसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	626/4	0.510	0.510	
			630/4	0.200	0.200	
			656/1	0.030	0.030	
			840	0.290	0.290	
145	फूलबाई पति अमोलसीग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	629	0.400	0.400	
146	ओकार शिवकुमार पि.कैलाशचंद भागवती बेवा कैलाशचंदनरेश कुमार भोलाराम सरमन पिता जगदीश मानवती पुत्री जगदीश सोमवती बाई बेबा जगदीश पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	631	1.040	1.040	
147	इमरतसीग भगवानसीग सुरेन्द्रसीग पिता हल्केसीग मीराबाई पुत्री हल्केसीग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	633/913	0.650	0.650	
148	नथूसीग शरणसीग पिस.हीरासीग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	637	0.200	0.200	
149	अमरसीग पिता हरनसीग बड़ी बहू बेवा हरनसीगतुलसा ज्ञान हल्ली पुत्री हरनसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	644/1	0.020	0.020	
150	मनीष पिता राजेन्द्र प्रसाद बचकैया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	708/4	0.050	0.050	
151	लक्ष्मीशंकर पति शंकर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	647	0.050	0.050	
			762	0.150	0.150	

152	काशीबाई बेवा बुद्धे पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	648	0.030	0.030
153	राकेश जनक वाराघवेन्द्र खूबसींग ना.वा.पि. नथूसींग वली माँ नीमा जो.नथूसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	667	0.070	0.070
			694	0.220	0.220
			695	0.380	0.380
			733	1.300	1.300
154	जीराम दुरजन पिस.रघुनाथ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	675	0.050	0.050
			676	0.050	0.050
			771	0.090	0.090
155	जीराम वल्द रघुनाथपंखिया पुत्री परवत छोटेलापिता भूरे पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	678	0.090	0.090
156	पंचोबाई पुत्री घन्से पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	679	0.170	0.170
157	हरीराम मुरलीधर रल्ली मोहन पिता बाला उत्तम पिता मिठुवासुमित्रा बेबा मिठुवा रामदीन पिता खुमान दयाली पिता परमूफुल्ला गोरा पिता बाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	682	0.090	0.090
			684	0.120	0.120
158	जीरामपिता रघुनाथ खेतसींग जैयसींग अव. पिता पा. महरवानसींग पंखिया पुत्रीपरवत श्यामलाल पिता छोटेला मोहन बाई पुत्री छोटेला पता नि.ग्राम भूमि स्वामी तेजाबाई बेवा छोटेला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	686	0.110	0.110
			687	0.210	0.210
			760	0.100	0.100
			761	0.060	0.060
159	खेतसींग पिता मेहरबान सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	688/1	0.120	0.120
160	बारी बहू बेबा खान्जू उत्तम पिता मिठुवासुमित्रा बेबा मिठुवा हरीराम मुरलीधर रल्ली मोहन लरन पिता बालाकुल्ला गोरा पिता बारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	688/2	0.060	0.060
161	बलराम पिता रल्ली श्यामरानी बेवा रल्ली गुलाब बाई पुत्री झब्बू लुडकापुत्री बुद्धा कुंजी जवार नंदलाल पिता पंचम मुन्नीबाई पुत्री पंचम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	689	0.130	0.130
			691	0.100	0.100
			720/2/1	0.090	0.090
			720/2/2	0.090	0.090
			721/2/1	0.180	0.180
			721/2/2	0.180	0.180
162	खुमान मेघराज पिता कड़ोरी पाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	690/2	0.100	0.100
			696/7	0.100	0.100
			710	0.440	0.440

163	जाहरसींग वलीरामप्रसाद पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	696/2	0.080	0.080	
164	खुमान पिता कड़ोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	696/4	0.100	0.100	
165	रामसींग पिता फूलसींग लोधी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	696/6	0.180	0.180	
			708/1	0.050	0.050	
			744/3	0.210	0.210	
166	राजेन्द्र पिता प्रेमनारायण दुरजन पिता रघुनाथभगुन्तसींग पिता बलवंतसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	697/1/1	0.140	0.140	
			698/1	0.160	0.160	
			758/1	0.370	0.370	
167	पकाश पिता दुर्जन धौबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	697/1/2	0.070	0.070	
			698/2	0.080	0.080	
			758/2	0.040	0.040	
168	हुकुम पिता गनेश पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	700	0.200	0.200	
			702	0.150	0.150	
169	हाकमसींग वल्दकेशरीसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	701	0.090	0.090	
170	मकुन्दी सुखसींग पिता बखतसींग अमरसींग पिता-हरनसींग-बडी-बहू-बेबा-हरनसींग तुलसा ज्ञान हल्ली पुत्री हरनसींग लोधी राजेन्द्रपिता प्रेमनारायण ब्रा.पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	709/1	0.910	0.910	
171	गनपत पलू खुमान मेघराज पिता कड़ोरी ज्ञानबाई नन्नीबाई रेखा पुत्री कड़ोरी रावरानी बेवा कड़ोरी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	711	0.500	0.500	
			717/1	0.090	0.090	
			770/1	0.080	0.080	
172	प्रकाश झलकन काशीरामरामप्रसाद पिस. दुरजन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	712	0.460	0.460	
173	मालती बाई पति धनसिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	713/5	0.150	0.150	
			718/2	0.150	0.150	
174	तुलसीराम देवेन्द कुमार रामगोपाल भगवानदास पिता कन्छेदीयादव कान्तीबाई अनीता ममता पुत्री कन्छेदी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	714	0.670	0.670	
			715	0.610	0.610	
175	फूलसींग खलकसींग पिस.बाबूसींग पता सा. बहरोल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	716	3.420	3.420	
176	दमोदर पिता भागीरथ गुड्डी बाई पुत्री दामोदर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	717/2	0.660	0.660	

177	भागीरथ दयाली पिता परमू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	719	0.440	0.440	
178	जगत शिवप्रसाद राजारामपिस.भैयालाल रामचरण वल्द नंदकिशोर.प्रभुदयाल वल्दगोपीलाल पता नि.किरोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	725	0.290	0.290	
179	ग्या थोबन पिस.लछमन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	728/890/2	0.310	0.310	
180	रविशंकर पिता गोपीलाल पता नि.किरोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	735/903	1.620	1.620	
			736/1	0.600	0.600	
			736/2	0.590	0.590	
181	तुलसाबाई पति गुलाब अहरिवार पता निवासी सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	741/906/2	0.330	0.330	
			745/5	0.400	0.400	
			745/6	0.400	0.400	
182	गुलझारसीग पिता रघुनाथसीग राजकुमारी सन्तो शीला पुत्री रघुनाथ सीग कुसुमबाई बेवा रघुनाथसीग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	745/1	2.700	2.700	
183	भैयाराम पिता रतनसीग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	745/4/1	1.270	1.270	
184	सरनसीग पिता हीरासिंह लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	746/3	0.090	0.090	
185	छोटेलाल पिता भूरे बडीबहू जोजे नथूसीग हल्की बहू जोजे सरनसीग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	747/1	0.270	0.270	
186	संतोषकुमार पिता प्रभुदयाल पता नि.किरोला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	747/4	0.800	0.800	
187	नीमाबाई पिता लडूसीग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	752	1.050	1.050	
188	भागचंद धनसीग पिता मिहिलाल रामवती बाई मीनाबाई जयंतीबाई पुत्री मिहिलाल गोराबाई बेवा मिहिलाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	831/1/क	0.350	0.350	
			833/6	0.110	0.110	
189	दुर्गा पि.जवरा सुमित्रा पि.जवरा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	831/1/ख	0.260	0.260	
			866/1	0.250	0.250	
190	बृजलाल लच्छू रामचरण पिस.भरोसी अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	831/2/क/2	0.220	0.220	
191	बृजलाल वल्द भरोसे काशीबाई बेवा भरोसे अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	831/2/ग	0.040	0.040	
			831/3	0.580	0.580	
			833/2	0.230	0.230	
			863/1	0.110	0.110	
192	लक्ष्मन बृजलाल पिस.भरोसे पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	831/2/घ	0.200	0.200	

193	मीराबाई जोजे हरीसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	832	0.350	0.350	
			834/3	0.050	0.050	
194	मुन्नाजी पिता मुलुवा उर्फ मुलु पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	833/3	0.120	0.120	
			861	0.610	0.610	
			863/2	0.160	0.160	
195	भागचन्द पिता मिहीलाल पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	833/4	0.120	0.120	
196	धनसीग पिता मिहीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	833/5	0.110	0.110	
197	बलराम पिता मुन्नामुन्ना पिता मुलुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	834/2	0.050	0.050	
			860	0.220	0.220	
198	पल्टू उद्देत पिस.दमरू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	837	0.530	0.530	
199	कुसुमबाई पत्नि रामापसाद अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	838	0.320	0.320	
200	त्रिलोकसीग पिता बाबूसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	839/1	0.220	0.220	
201	अभिषेक नीतेश नावा० पालक पिता किशन सिंह लोधी पता निवासी ग्राम नाऊढाना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	846/1	0.040	0.040	
			846/2	0.050	0.050	
			847/1	0.050	0.050	
			847/3	0.020	0.020	
			850/1	0.040	0.040	
202	मोहनसीग पिता कल्यानसीग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	847/2	0.030	0.030	
203	युवराज सुनील नावा० पालक पिता मानसीग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	849/1	0.030	0.030	
			849/2	0.020	0.020	
			850/2	0.100	0.100	
			850/3	0.060	0.060	
204	कान्तिबाई पुत्री हरीसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	851/2	0.440	0.440	
205	मुन्ना पिता सिद्दी जनकसीगवली पिता मूरतसीग चालीपुत्री भत्ती पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	852/1	0.300	0.300	
206	जनक सीग पिता मूरतसीग हरीसीग पिता ठाकुरदास पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	852/2	0.200	0.200	
207	मुकेशसीग शिवराज पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	854	0.720	0.720	
208	त्रिलोकसीग पिता बाबूसीग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	856/2	0.100	0.100	
209	नरेन्द्र वल्द ललजू मेंदाबाई बेवा ललजू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	863/3	0.120	0.120	

210	गिरधारी पिता पूरन चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	869	0.600	0.600	
211	गनेश गुलसाई पिता मुलूगुलाबबाई बेवा मुलू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	870	0.390	0.390	
212	हरवंशसिंह पिता हरनामसिंह पता सा.सदर बाजार सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	871	2.400	2.400	
213	साधना पति शिवकुमार पता सा सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	873	3.250	3.250	
			644	207.780	207.780	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.